

5000+ Daily Use English Sentences with Hindi Meaning

Engfusionbharat.com

Greetings & Daily Pleasantries — अभिवादन और रोज़ाना की बातें

1. Good morning. - शुभ प्रभात।
2. Good afternoon. - शुभ दोपहर।
3. Good evening. - शुभ संध्या।
4. Good night. - शुभ रात्रि।
5. Hello! - नमस्ते!
6. Hi there! - हाय!
7. How are you? - आप कैसे हैं?
8. I am fine, thank you. - मैं ठीक हूँ, धन्यवाद।
9. I am doing well. - मैं अच्छा हूँ।
10. What's up? - क्या चल रहा है?
11. Not much. Just the usual. - खास नहीं। बस वही रोज़ का।
12. How have you been? - आप कैसे रहे?
13. Long time no see. - बहुत दिनों बाद मिले।

14. It's nice to see you. - आपसे मिलकर अच्छा लगा।

15. Nice to meet you. - आपसे मिलकर खुशी हुई।

16. Pleased to meet you. - मिलकर प्रसन्नता हुई।

17. Welcome! - स्वागत है!

18. Come in, please. - कृपया अंदर आइए।

19. Please sit down. - कृपया बैठ जाइए।

20. Make yourself comfortable. - आराम से बैठिए।

21. How is your family? - आपका परिवार कैसा है?

22. How is your health? - आपकी तबियत कैसी है?

23. How is work going? - काम कैसा चल रहा है?

24. Everything is fine. - सब ठीक है।

25. Things are going great. - सब बढ़िया चल रहा है।

26. Could be better. - थोड़ा और बेहतर हो सकता था।

27. Same as usual. - वही जैसा हमेशा होता है।

28. Goodbye! - अलविदा!

29. See you later. - बाद में मिलते हैं।

30. See you tomorrow. - कल मिलते हैं।

31. See you soon. - जल्दी मिलते हैं।

32. Take care. - अपना खयाल रखें।

33. Have a good day. - आपका दिन अच्छा हो।
34. Have a nice day. - आपका दिन शुभ हो।
35. Have a great weekend. - आपका सप्ताहांत अच्छा हो।
36. Have a safe journey. - सफ़र सुखद हो।
37. Wish you all the best. - आपको शुभकामनाएँ।
38. Good luck! - शुभकामनाएँ!
39. Best of luck! - बहुत शुभकामनाएँ!
40. Congratulations! - बधाई हो!
41. Well done! - बहुत अच्छे!
42. Great job! - बढ़िया काम!
43. Keep it up! - ऐसे ही करते रहो!
44. I missed you. - मुझे आपकी याद आई।
45. I was thinking about you. - मैं आपके बारे में सोच रहा था।
46. It's good to be back. - वापस आकर अच्छा लगा।
47. How was your day? - आपका दिन कैसा रहा?
48. My day was great. - मेरा दिन बहुत अच्छा रहा।
49. It was a tough day. - आज थोड़ा कठिन दिन था।
50. I am so tired today. - आज मैं बहुत थका हूँ।
51. I had a great day. - मेरा दिन बहुत अच्छा था।

52. Excuse me. - माफ़ कीजिए।
53. Pardon me. - क्षमा कीजिए।
54. I beg your pardon. - मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ।
55. Sorry to bother you. - आपको परेशान करने के लिए खेद है।
56. No problem. - कोई बात नहीं।
57. Don't worry. - चिंता मत करो।
58. It's alright. - ठीक है।
59. No worries. - कोई फ़िक्र नहीं।
60. That's okay. - ठीक है।
61. Absolutely. - बिल्कुल।
62. Of course. - ज़रूर।
63. Certainly. - निश्चित रूप से।
64. Sure. - ज़रूर।
65. Why not? - क्यों नहीं?
66. Please go ahead. - कृपया आगे बढ़ें।
67. After you. - पहले आप।
68. You first. - आप पहले।
69. Please. - कृपया।
70. Thank you very much. - बहुत-बहुत धन्यवाद।

71. Thanks a lot. - बहुत शुक्रिया।
72. I really appreciate it. - मैं सच में आभारी हूँ।
73. You're welcome. - आपका स्वागत है।
74. My pleasure. - मेरी खुशी।
75. Don't mention it. - इसकी कोई ज़रूरत नहीं।
76. Anytime. - कभी भी।
77. Happy to help. - मदद करके खुशी हुई।
78. Glad I could help. - खुशी हुई कि मैं काम आया।
79. How can I help you? - मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ?
80. What can I do for you? - मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?

2. Home & Family — घर और परिवार

1. Is there anything I can do? - क्या मैं कुछ कर सकता हूँ?
2. Let me know if you need anything. - अगर कुछ चाहिए तो बताइएगा।
3. Feel free to ask. - बेझिझक पूछें।
4. Don't hesitate to call me. - मुझे फ़ोन करने में संकोच न करें।
5. I'm always here for you. - मैं हमेशा आपके लिए हूँ।
6. You can count on me. - आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं।
7. Good to hear that. - यह सुनकर अच्छा लगा।

8. That's great news. - यह बड़ी खुशी की बात है।
9. I'm so happy for you. - मुझे आपके लिए बहुत खुशी है।
10. That's wonderful. - यह बहुत अच्छा है।
11. Really? That's amazing! - सच में? यह तो कमाल है!
12. You look great today. - आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं।
13. You look happy. - आप खुश लग रहे हैं।
14. Something good happened? - कुछ अच्छा हुआ क्या?
15. What's the good news? - क्या अच्छी खबर है?
16. I have good news. - मेरे पास अच्छी खबर है।
17. Guess what happened. - अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ।
18. You won't believe this. - आपको यकीन नहीं होगा।
19. I can't believe it! - मुझे यकीन नहीं हो रहा!
20. That's unbelievable. - यह अविश्वसनीय है।
21. Seriously? - सच में?
22. Are you kidding me? - आप मज़ाक कर रहे हैं क्या?
23. No way! - असंभव!
24. What a surprise! - क्या आश्चर्य!
25. I didn't expect that. - मुझे उम्मीद नहीं थी।
26. What a coincidence! - क्या संयोग है!

27. Nice to hear from you. - आपसे सुनकर अच्छा लगा।
28. It's been a while. - काफ़ी वक्त हो गया।
29. We should catch up sometime. - हमें कभी मिलना चाहिए।
30. Let's meet soon. - जल्द मिलते हैं।
31. We'll talk later. - बाद में बात करेंगे।
32. I'll be in touch. - मैं संपर्क में रहूँगा।
33. Keep in touch. - संपर्क में रहें।
34. Stay in touch. - जुड़े रहें।
35. Give my regards to your family. - अपने परिवार को मेरी तरफ़ से नमस्ते कहें।
36. Say hello to everyone. - सबको मेरी नमस्ते कहना।
37. How is everyone at home? - घर पर सब कैसे हैं?
38. Everyone is fine. - सब ठीक हैं।
39. Have you eaten? - खाना खाया?
40. Did you sleep well? - नींद अच्छी हुई?
41. Did you have breakfast? - नाश्ता किया?
42. Where are you going? - कहाँ जा रहे हैं?
43. When did you come? - कब आए?
44. How long will you stay? - कब तक रहेंगे?
45. Are you busy? - क्या आप व्यस्त हैं?

46. Do you have time? - क्या आपके पास समय है?
47. Can we talk for a minute? - क्या हम एक मिनट बात कर सकते हैं?
48. I won't take long. - ज्यादा समय नहीं लूँगा।
49. Just a second. - बस एक पल।
50. Wait a moment. - एक पल रुकिए।
51. I'll be right back. - मैं अभी आया।
52. Hold on. - रुकिए।
53. I'm on my way. - मैं आ रहा हूँ।
54. I just arrived. - मैं अभी पहुँचा।
55. I reached safely. - मैं सुरक्षित पहुँच गया।
56. I'm home now. - मैं घर पहुँच गया।
57. I'm stuck in traffic. - मैं ट्रैफिक में फँसा हूँ।
58. I'll be a little late. - मुझे थोड़ी देर हो जाएगी।
59. Sorry, I'm late. - माफ़ करें, मुझे देर हो गई।
60. Don't wait for me. - मेरा इंतज़ार मत करो।
61. Start without me. - मेरे बिना शुरू कर लो।
62. I'm almost there. - मैं लगभग पहुँच गया।
63. Five minutes more. - बस पाँच मिनट और।
64. I'm free now. - मैं अभी खाली हूँ।

65. What are your plans today? - आज आपके क्या इरादे हैं?
66. Are you free this evening? - क्या आप आज शाम खाली हैं?
67. Let's do something fun. - कुछ मजेदार करते हैं।
68. I'm looking forward to it. - मुझे उसका इंतज़ार है।
69. It'll be fun. - मज़ा आएगा।
70. Count me in. - मुझे भी शामिल करो।
71. I'd love to come. - मुझे आना अच्छा लगेगा।
72. Sounds good. - अच्छा लगता है।
73. Sounds like a plan. - यह तो अच्छी योजना है।
74. Let me check my schedule. - मुझे अपना कार्यक्रम देखना होगा।
75. I have plans already. - मेरे पहले से प्लान हैं।
76. Maybe next time. - शायद अगली बार।
77. I'll try to make it. - मैं आने की कोशिश करूँगा।
78. I'm not sure yet. - मुझे अभी पक्का नहीं पता।
79. Let me get back to you. - मैं आपको बाद में बताता हूँ।
80. I'll let you know. - मैं आपको बताऊँगा।

3. School & Studies — स्कूल और पढ़ाई

1. That sounds wonderful. - यह बहुत अच्छा लगता है।

2. I can't wait. - मुझसे इंतज़ार नहीं होता।
3. This is going to be great. - यह बहुत अच्छा होने वाला है।
4. I'm excited. - मैं बहुत उत्साहित हूँ।
5. What time should we meet? - हमें किस समय मिलना चाहिए?
6. Where should we meet? - हम कहाँ मिलें?
7. I'll meet you there. - मैं वहाँ मिलूँगा।
8. Perfect timing. - बिल्कुल सही समय।
9. You're right on time. - आप बिल्कुल सही समय पर आए।
10. I was just thinking of you. - मैं अभी आपके बारे में सोच रहा था।
11. What a pleasant surprise! - क्या सुखद आश्चर्य!
12. I'm so glad you called. - खुशी हुई कि आपने फ़ोन किया।
13. I was about to call you. - मैं आपको फ़ोन करने वाला था।
14. Great minds think alike. - समझदार लोग एक जैसा सोचते हैं।
15. How do you do? - आप कैसे हैं?
16. I'm doing fantastic. - मैं बहुत बढ़िया हूँ।
17. Never been better. - इससे बेहतर कभी नहीं था।
18. I'm a little under the weather. - मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ।
19. I've been better. - पहले बेहतर था।
20. It's been a tough week. - यह सप्ताह थोड़ा कठिन रहा।

21. I'm hanging in there. - बस किसी तरह चल रहा है।
22. Just taking it one day at a time. - बस एक-एक दिन करके आगे बढ़ रहा हूँ।
23. Things will get better. - हालात बेहतर होंगे।
24. I believe in you. - मुझे आप पर विश्वास है।
25. You've got this. - आप यह कर सकते हैं।
26. Stay positive. - सकारात्मक रहें।
27. Everything will be fine. - सब ठीक हो जाएगा।
28. It was lovely meeting you. - आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा।
29. I hope to see you again. - उम्मीद है फिर मिलेंगे।
30. It's always a pleasure. - हमेशा खुशी होती है।
31. You made my day. - आपने मेरा दिन बना दिया।
32. I really enjoyed your company. - आपके साथ बहुत मज़ा आया।
33. You're always so kind. - आप हमेशा बहुत दयालु होते हैं।
34. You're too kind. - आप बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं।
35. That's very thoughtful of you. - यह आपकी बड़ी सोच है।
36. You shouldn't have. - आपको ज़रूरत नहीं थी।
37. This means a lot to me. - यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
38. I owe you one. - मैं आपका एहसानमंद हूँ।
39. You're a lifesaver. - आपने मेरी बड़ी मदद की।

40. I don't know what I'd do without you. - आपके बिना क्या करता।
41. You're the best. - आप सबसे अच्छे हैं।
42. Wake up! It's already morning. - उठो! सुबह हो गई।
43. Did you sleep well? - नींद अच्छी हुई?
44. It's time to wake up. - उठने का समय हो गया।
45. Don't be lazy. Get up. - आलस मत करो। उठो।
46. Have you brushed your teeth? - दाँत साफ़ किए?
47. Go wash your face. - जाओ मुँह धो लो।
48. Get ready quickly. - जल्दी तैयार हो जाओ।
49. Take a bath before eating. - खाने से पहले नहा लो।
50. Breakfast is ready. - नाश्ता तैयार है।
51. Come and have breakfast. - आओ नाश्ता करो।
52. Don't skip breakfast. - नाश्ता मत छोड़ो।
53. What do you want for breakfast? - नाश्ते में क्या चाहिए?
54. Have a glass of milk. - एक गिलास दूध पियो।
55. Lunch is on the table. - दोपहर का खाना मेज़ पर है।
56. Is dinner ready? - रात का खाना तैयार है?
57. What have you made for dinner? - रात के खाने में क्या बनाया?
58. The food smells delicious. - खाने की खुशबू बहुत अच्छी है।

59. This is very tasty. - यह बहुत स्वादिष्ट है।
60. Please pass the salt. - नमक देना।
61. Can I have more rice? - थोड़ा और चावल मिलेगा?
62. I'm full, thank you. - पेट भर गया, धन्यवाद।
63. I'm still hungry. - अभी भी भूख है।
64. Please clear the table. - मेज़ साफ़ कर दो।
65. Wash the dishes. - बर्तन धो दो।
66. Put the dishes away. - बर्तन रख दो।
67. The kitchen is dirty. - रसोई गंदी है।
68. Clean the kitchen. - रसोई साफ़ करो।
69. Don't waste food. - खाना बर्बाद मत करो।
70. Cover the food. - खाना ढक दो।
71. Keep the leftovers in the fridge. - बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दो।
72. Turn off the stove. - गैस बंद करो।
73. The milk is boiling. - दूध उबल रहा है।
74. Something is burning. - कुछ जल रहा है।
75. Add some more spices. - थोड़े और मसाले डालो।
76. The tea is getting cold. - चाय ठंडी हो रही है।
77. Make two cups of tea. - दो कप चाय बनाओ।

78. Make my tea without sugar. - मेरी चाय बिना चीनी के बनाओ।

79. Switch on the fan. - पंखा चालू करो।

80. Turn off the AC. - एसी बंद करो।

4. Office & Work — दफ़्तर और काम

1. Switch off the light. - लाइट बंद करो।

2. Don't leave the lights on. - लाइट जलती मत छोड़ो।

3. The electricity is gone. - बिजली चली गई।

4. When will the power come back? - बिजली कब आएगी?

5. The tap is leaking. - नल टपक रहा है।

6. The water is not coming. - पानी नहीं आ रहा।

7. Close the main door. - मुख्य दरवाज़ा बंद करो।

8. Lock the door before sleeping. - सोने से पहले दरवाज़ा बंद करो।

9. Who is at the door? - दरवाज़े पर कौन है?

10. Someone is ringing the bell. - कोई घंटी बजा रहा है।

11. Go and see who it is. - जाओ देखो कौन है।

12. Clean the room. - कमरा साफ़ करो।

13. Make the bed. - बिस्तर लगाओ।

14. Don't leave your clothes on the floor. - कपड़े फ़र्श पर मत छोड़ो।

15. Keep your things in place. - अपनी चीज़ें सही जगह रखो।
16. Your room is very messy. - तुम्हारा कमरा बहुत अस्त-व्यस्त है।
17. Sweep the floor. - फ़र्श झाड़ो।
18. Mop the floor. - फ़र्श पोंछो।
19. Dust the furniture. - फर्नीचर झाड़ो।
20. Take out the trash. - कूड़ा बाहर फेंको।
21. The bin is full. - डस्टबिन भर गया है।
22. Don't throw garbage here. - यहाँ कूड़ा मत डालो।
23. Wash the clothes. - कपड़े धो दो।
24. Hang the clothes to dry. - कपड़े सुखाने के लिए टाँगो।
25. The clothes are dry. Fold them. - कपड़े सूख गए। तह करो।
26. Iron my shirt. - मेरी शर्ट पर इस्त्री करो।
27. This shirt needs ironing. - इस शर्ट पर इस्त्री करनी है।
28. Where are my socks? - मेरे मोज़े कहाँ हैं?
29. I can't find my keys. - मुझे चाबियाँ नहीं मिल रहीं।
30. Where did I keep my phone? - मैंने फ़ोन कहाँ रखा था?
31. Have you seen my wallet? - क्या आपने मेरा बटुआ देखा?
32. Did you pay the electricity bill? - बिजली का बिल भरा?
33. The gas is getting over. - गैस ख़त्म हो रही है।

34. Order a new gas cylinder. - नया गैस सिलिंडर मँगवाओ।
35. We are out of vegetables. - सब्जियाँ खत्म हो गई हैं।
36. Please get some groceries. - कृपया कुछ किराना सामान लाओ।
37. Write a shopping list. - खरीदारी की सूची लिखो।
38. Don't forget to bring milk. - दूध लाना मत भूलना।
39. Buy some bread from the market. - बाज़ार से ब्रेड लाओ।
40. I need to go to the market. - मुझे बाज़ार जाना है।
41. Can you drop me at the market? - क्या आप मुझे बाज़ार छोड़ सकते हैं?
42. I'll be back in an hour. - मैं एक घंटे में वापस आऊँगा।
43. Call me if you need anything. - ज़रूरत हो तो फ़ोन करना।
44. Where is Papa? - पापा कहाँ हैं?
45. Mama is resting. - माँ आराम कर रही हैं।
46. Don't disturb her. - उन्हें परेशान मत करो।
47. Your grandfather is not well. - दादाजी की तबियत ठीक नहीं।
48. We should visit them. - हमें उनसे मिलने जाना चाहिए।
49. Call Dadi and ask how she is. - दादी को फ़ोन करो और पूछो कैसी हैं।
50. Have you talked to your brother lately? - क्या आपने हाल ही में भाई से बात की?
51. Your sister called. - तुम्हारी बहन ने फ़ोन किया था।

52. Call her back. - उसे वापस फ़ोन करो।
53. It's a family matter. - यह पारिवारिक मामला है।
54. Let's have dinner together. - चलो साथ में खाना खाते हैं।
55. Sunday is family day. - रविवार पारिवारिक दिन है।
56. Let's go out for a meal. - चलो बाहर खाना खाने चलते हैं।
57. We haven't gone out in a long time. - बहुत दिनों से बाहर नहीं गए।
58. It's my parents' anniversary. - आज मेरे माँ-पापा की सालगिरह है।
59. We should celebrate. - हमें जश्न मनाना चाहिए।
60. Plan something special. - कुछ खास योजना बनाओ।
61. Order a cake. - केक मँगवाओ।
62. Let's give them a surprise. - उन्हें सरप्राइज़ देते हैं।
63. Take good care of the kids. - बच्चों का अच्छे से खयाल रखो।
64. The kids are making noise. - बच्चे शोर मचा रहे हैं।
65. Tell the kids to be quiet. - बच्चों को शांत रहने के लिए कहो।
66. Has the child eaten? - बच्चे ने खाना खाया?
67. Put the baby to sleep. - बच्चे को सुला दो।
68. He is not sleeping. - वह सो नहीं रहा।
69. She is crying again. - वह फिर रो रही है।

70. Check if there's enough milk for the baby. - देखो बच्चे के लिए पर्याप्त दूध है क्या।

71. The baby needs a diaper change. - बच्चे का डायपर बदलना है।

72. Don't let the kids watch too much TV. - बच्चों को ज्यादा TV मत देखने दो।

73. It's their bedtime. - इनके सोने का समय हो गया।

74. Read them a bedtime story. - उन्हें सोने की कहानी सुनाओ।

75. Help your younger sibling. - अपने छोटे भाई-बहन की मदद करो।

76. Don't fight with each other. - आपस में झगड़ो मत।

77. Share your things. - अपनी चीजें बाँटो।

78. Respect your elders. - बड़ों का आदर करो।

79. Listen to what your parents say. - माँ-पापा की बात सुनो।

80. Don't argue with them. - उनसे बहस मत करो।

5. Shopping & Market — खरीदारी और बाज़ार

1. Say sorry and make up. - माफ़ी माँगो और मेल करो।

2. Family comes first. - परिवार सबसे पहले है।

3. We should spend more time together. - हमें साथ में ज्यादा समय बिताना चाहिए।

4. Turn off the TV and talk. - TV बंद करो और बात करो।

5. Let's play a board game tonight. - आज रात बोर्ड गेम खेलते हैं।
6. It's raining. Close the windows. - बारिश हो रही है। खिड़कियाँ बंद करो।
7. The room is cold. Close the door. - कमरे में ठंड है। दरवाजा बंद करो।
8. Put on a blanket. - कंबल ओढ़ लो।
9. It's very hot today. - आज बहुत गर्मी है।
10. Turn on the cooler. - कूलर चालू करो।
11. Water the plants. - पौधों को पानी दो।
12. The plants need water. - पौधों को पानी चाहिए।
13. Feed the dog. - कुत्ते को खाना दो।
14. Take the dog for a walk. - कुत्ते को टहलाने ले जाओ।
15. The cat is hungry. - बिल्ली भूखी है।
16. Fix the broken tap. - टूटा हुआ नल ठीक करवाओ।
17. Call the plumber. - प्लंबर को बुलाओ।
18. Call the electrician. - इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ।
19. The Wi-Fi is not working. - Wi-Fi काम नहीं कर रहा।
20. Restart the router. - राउटर रीस्टार्ट करो।
21. Has the newspaper come? - अखबार आया?
22. Has the postman come? - डाकिया आया?
23. Is there any mail for me? - मेरे लिए कोई चिट्ठी है?

24. Has the courier arrived? - कूरियर आया?
25. Sign the delivery receipt. - डिलीवरी रसीद पर दस्तखत करो।
26. Keep the parcel inside. - पार्सल अंदर रख दो।
27. Someone has come to meet you. - कोई आपसे मिलने आया है।
28. Send them in. - उन्हें अंदर भेजो।
29. Ask them to wait outside. - उन्हें बाहर इंतज़ार करने को कहो।
30. I'm not home right now. - मैं अभी घर पर नहीं हूँ।
31. Tell them I'll be back soon. - उन्हें बताओ मैं जल्द आऊँगा।
32. Can you keep a message? - क्या आप संदेश रख सकते हैं?
33. The house needs painting. - घर को रंग करवाने की ज़रूरत है।
34. Let's renovate the kitchen. - रसोई को नवीकरण करवाते हैं।
35. We should buy new furniture. - हमें नया फर्नीचर खरीदना चाहिए।
36. The sofa is old. Get a new one. - सोफा पुराना हो गया है। नया लाओ।
37. Clean the bathroom. - बाथरूम साफ़ करो।
38. There is no hot water. - गर्म पानी नहीं है।
39. The geyser is not working. - गीज़र काम नहीं कर रहा।
40. Don't use too much water. - ज़्यादा पानी बर्बाद मत करो।
41. Save electricity. - बिजली बचाओ।
42. Reduce the water bill. - पानी का बिल कम करो।

43. Pay the house rent. - घर का किराया भरो।
44. Rent has gone up again. - किराया फिर बढ़ गया।
45. We should move to a bigger house. - हमें बड़े घर में शिफ्ट होना चाहिए।
46. This house is too small for us. - यह घर हमारे लिए बहुत छोटा है।
47. I love our home. - मुझे हमारा घर बहुत पसंद है।
48. There's no place like home. - घर जैसी कोई जगह नहीं।
49. Get ready for school. - स्कूल के लिए तैयार हो जाओ।
50. Have you packed your bag? - बैग पैक किया?
51. Don't forget your books. - किताबें मत भूलना।
52. Where is your homework diary? - होमवर्क डायरी कहाँ है?
53. Did you do your homework? - होमवर्क किया?
54. Finish your homework first. - पहले होमवर्क पूरा करो।
55. Don't copy homework. - होमवर्क नकल मत करो।
56. The school bus has come. - स्कूल बस आ गई।
57. Hurry up! You'll miss the bus. - जल्दी करो! बस छूट जाएगी।
58. Be on time to school. - स्कूल समय पर पहुँचो।
59. Don't be late to class. - क्लास में देर से मत आओ।
60. What time does school start? - स्कूल कितने बजे शुरू होता है?
61. School is over at three. - स्कूल तीन बजे छूटता है।

62. Today is a holiday. - आज छुट्टी है।
63. School is closed today. - आज स्कूल बंद है।
64. Exams start next week. - अगले हफ़्ते से परीक्षा शुरू है।
65. Study hard for the exam. - परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ो।
66. How many subjects do you have? - तुम्हारे कितने विषय हैं?
67. Which subject do you like most? - तुम्हें कौन-सा विषय सबसे ज़्यादा पसंद है?
68. Maths is my favourite subject. - मेरा पसंदीदा विषय गणित है।
69. I find English difficult. - मुझे अंग्रेज़ी मुश्किल लगती है।
70. Ask the teacher if you don't understand. - समझ न आए तो शिक्षक से पूछो।
71. Pay attention in class. - कक्षा में ध्यान लगाओ।
72. Don't talk in class. - क्लास में बात मत करो।
73. Sit properly in your seat. - अपनी सीट पर सही से बैठो।
74. Raise your hand before speaking. - बोलने से पहले हाथ उठाओ।
75. Listen to the teacher carefully. - शिक्षक की बात ध्यान से सुनो।
76. Take notes in class. - क्लास में नोट्स बनाओ।
77. Do you understand the lesson? - क्या पाठ समझ आया?
78. Can you explain it again? - क्या आप फिर से समझाएँगे?
79. I didn't understand this topic. - मुझे यह विषय समझ नहीं आया।

80. Can I see the example? - क्या मैं उदाहरण देख सकता हूँ?

Nature & Weather — प्रकृति और मौसम

1. The sky is very clear today. — आज आकाश बहुत साफ़ है।
2. It looks like it might rain. — लगता है बारिश होगी।
3. The wind is blowing strongly. — तेज़ हवा चल रही है।
4. It's a beautiful morning. — यह एक सुंदर सुबह है।
5. The sun is very hot today. — आज धूप बहुत तेज़ है।
6. It's cloudy outside. — बाहर बादल छाए हुए हैं।
7. There's a storm coming. — तूफ़ान आने वाला है।
8. The weather is pleasant today. — आज मौसम बहुत सुहाना है।
9. It's freezing cold outside. — बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है।
10. The fog is very thick this morning. — आज सुबह कोहरा बहुत घना है।

11. The rainbow looks beautiful. — इंद्रधनुष बहुत सुंदर लग रहा है।
12. It's drizzling outside. — बाहर हल्की बूँदाबाँदी हो रही है।
13. The river is flowing fast. — नदी तेज़ बह रही है।
14. The mountains are covered in snow. — पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं।
15. The flowers have bloomed. — फूल खल गए हैं।
16. The leaves are falling. — पतियाँ झड़ रही हैं।
17. The birds are singing. — पक्षी गा रहे हैं।
18. The moon is very bright tonight. — आज रात चाँद बहुत चमकीला है।
19. There are so many stars in the sky. — आकाश में बहुत सारे तारे हैं।
20. The sunset is gorgeous. — सूर्यास्त बहुत खूबसूरत है।
21. The lake is very calm. — झील बहुत शांत है।
22. The forest looks dense. — जंगल बहुत घना लग रहा है।
23. Lightning struck nearby. — पास में बिजली गरी।

24. There was heavy rain last night. — कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई।
25. The air feels fresh after the rain. — बारिश के बाद हवा ताज़ी लग रही है।

Cooking & Kitchen — खाना पकाना और रसोई

26. Heat the oil in the pan. — तवे पर तेल गरम करो।
27. Chop the onions finely. — प्याज़ को बारीक काटो।
28. Add salt to taste. — स्वादानुसार नमक डालो।
29. The dal needs more water. — दाल में और पानी चाहिए।
30. Stir the curry gently. — सब्ज़ी को धीरे-धीरे हिलाओ।
31. Let it simmer for ten minutes. — इसे दस मिनट धीमी आँच पर पकने दो।
32. The rice is done. — चावल पक गए।
33. Preheat the oven. — ओवन पहले से गरम करो।

34. Add a pinch of turmeric. — एक चुटकी हल्दी डालो।
35. Grind the spices into a paste. — मसाले पीसकर पेस्ट बनाओ।
36. The batter is too thick. — घोल बहुत गाढ़ा है।
37. Add more water to the dough. — आटे में और पानी मलाओ।
38. Knead the dough well. — आटा अच्छे से गूँधो।
39. Roll the roti thin. — रोटी को पतला बेलो।
40. The sabzi is too spicy. — सब्जी बहुत तीखी है।
41. Add some cream to reduce the spice. — तीखापन कम करने के लिए मलाई डालो।
42. Fry it until golden. — सुनहरा होने तक तलो।
43. Drain the excess oil. — अतिरिक्त तेल निकाल दो।
44. Serve it hot. — इसे गरम परोसो।
45. Garnish with coriander leaves. — धनिया की पत्तियों से सजाओ।
46. The pressure cooker is whistling. — प्रेशर कुकर की सीटी आ रही है।
47. Let it cool before cutting. — काटने से पहले ठंडा होने दो।

48. This needs more salt. — इसमें और नमक चाहिए।
49. The tadka smells wonderful. — तड़के की खुशबू बहुत अच्छी है।
50. Mix it properly. — इसे ठीक से मलाओ।

Clothing & Appearance — कपड़े और रूप-रंग

51. What should I wear today? — आज क्या पहनूँ?
52. This shirt suits you very well. — यह शर्ट आप पर बहुत अच्छी लग रही है।
53. That color doesn't match. — वह रंग मेल नहीं खाता।
54. Your outfit looks very elegant. — आपका पहनावा बहुत सुंदर लग रहा है।
55. These shoes are too tight. — ये जूते बहुत तंग हैं।
56. I need to get my clothes tailored. — मुझे कपड़े सलवाने हैं।
57. This kurta looks traditional. — यह कुर्ता पारंपरिक लग रहा है।

58. I prefer wearing light colors. — मुझे हल्के रंग पहनना पसंद है।
59. Your hair looks nice today. — आज आपके बाल अच्छे लग रहे हैं।
60. Get a haircut this weekend. — इस सप्ताहांत बाल कटवाओ।
61. This saree is very beautiful. — यह साड़ी बहुत सुंदर है।
62. Where did you buy this jacket? — यह जैकेट कहाँ से खरीदी?
63. This fabric is very soft. — यह कपड़ा बहुत मुलायम है।
64. The zip is broken. — जिप टूटी हुई है।
65. This is too loose for me. — यह मेरे लिए बहुत ढीला है।
66. Can you stitch this button? — क्या आप यह बटन सल सकते हैं?
67. The collar is dirty. — कॉलर गंदा है।
68. This dress needs dry cleaning. — इस कपड़े को ड्राई क्लीनिंग चाहिए।

69. Wear something formal today. — आज कुछ औपचारिक पहनो।
70. Don't wear casuals to the wedding. — शादी में कैजुअल मत पहनो।

Sports & Games — खेल और खेलकूद

71. Let's go play cricket. — चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं।
72. Who won the match yesterday? — कल मैच कौन जीता?
73. Our team played really well. — हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला।
74. He scored a century. — उसने शतक लगाया।
75. The match was very exciting. — मैच बहुत रोमांचक था।
76. The referee blew the whistle. — रेफ़री ने सीटी बजाई।
77. It's a foul. — यह फाउल है।
78. The goalkeeper saved the shot. — गोलकीपर ने शॉट बचाया।

79. Practice your swing daily. — रोज़ अपनी स्विंग का अभ्यास करो।
80. He is a very fast runner. — वह बहुत तेज़ दौड़ता है।
81. She broke the national record. — उसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा।
82. The Olympics start next month. — अगले महीने ओलंपिक शुरू होगा।
83. Do you play badminton? — क्या आप बैड मंटन खेलते हैं?
84. I go swimming every morning. — मैं हर सुबह तैराकी करने जाता हूँ।
85. Chess is a game of strategy. — शतरंज रणनीति का खेल है।
86. I love watching football. — मुझे फुटबॉल देखना बहुत पसंद है।
87. He trains six days a week. — वह हफ़्ते में छह दिन अभ्यास करता है।
88. Teamwork is very important. — टीमवर्क बहुत ज़रूरी है।

89. Don't give up until the last moment. — आ खरी पल तक हार मत मानो।
90. Sports keep you healthy. — खेल आपको स्वस्थ रखता है।
91. He hurt his knee during the game. — उसके घुटने में खेल के दौरान चोट लगी।
92. Wear your sports gear properly. — अपना स्पोर्ट्स गयर ठीक से पहनो।
93. The stadium was completely full. — स्टे डियम पूरी तरह भरा हुआ था।
94. The crowd was cheering loudly. — भीड़ ज़ोर से ता लयाँ बजा रही थी।
95. We lost by just one goal. — हम सर्फ़ एक गोल से हार गए।

Transport & Vehicles — परिवहन और वाहन

96. The train is on time. — ट्रेन समय पर है।
97. Book two tickets to Delhi. — दिल्ली के लए दो टिकट बुक करो।

98. Which platform does the train leave from? — ट्रेन कस प्लेटफ़ॉर्म से जाएगी?
99. The bus is very crowded. — बस बहुत भीड़भाड़ वाली है।
100. I missed the last bus. — मेरी आ खरी बस छूट गई।
101. Call an auto-rickshaw. — ऑटो-रिक्शा बुलाओ।
102. How much will you charge to the airport? — एयरपोर्ट तक कतना लगे?
103. The petrol is getting low. — पेट्रोल कम हो रहा है।
104. Fill the tank completely. — टंकी पूरी भरवाओ।
105. The tire is punctured. — टायर पंचर हो गया है।
106. Call the mechanic. — मैकेनिक को बुलाओ।
107. The engine is making a strange noise. — इंजन से अजीब आवाज़ आ रही है।
108. Drive carefully on this road. — इस सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलाओ।
109. Follow the traffic rules. — यातायात नियमों का पालन करो।

110. Don't drive over the speed limit. — गति सीमा से ज़्यादा मत चलाओ।
111. Wear your seatbelt. — सीटबेल्ट पहनो।
112. The traffic light is red. — ट्रैफ़क लाइट लाल है।
113. Wait for the signal. — सग्नल का इंतज़ार करो।
114. Take the left turn here. — यहाँ बाएँ मुड़ो।
115. The road is under construction. — सड़क निर्माणाधीन है।
116. There is a lot of traffic on this route. — इस रास्ते पर बहुत ट्रैफ़क है।
117. Take the highway instead. — बजाय इसके हाईवे लो।
118. How far is the bus stand? — बस स्टैंड कतना दूर है?
119. The flight is delayed by two hours. — उड़ान दो घंटे देरी से है।
120. We need to reach the airport early. — हमें एयरपोर्ट जल्दी पहुँचना होगा।

121. Drink plenty of water every day. — हर दिन खूब पानी पयो।
122. Exercise at least thirty minutes daily. — रोज़ कम से कम तीस मिनट व्यायाम करो।
123. Eat more fruits and vegetables. — ज़्यादा फल और सब्ज़ियाँ खाओ।
124. Avoid junk food. — जंक फ़ूड से बचो।
125. Sleep for eight hours at night. — रात को आठ घंटे सोओ।
126. I have a fever since yesterday. — कल से बुखार है।
127. My throat is sore. — मेरे गले में दर्द है।
128. I have a cold and cough. — मुझे सर्दी और खाँसी है।
129. My stomach is hurting. — मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
130. I have been vomiting since morning. — सुबह से उल्टी हो रही है।
131. My back is aching badly. — मेरी पीठ में बहुत दर्द है।

132. I twisted my ankle. — मेरी टखने में मोच आ गई।
133. Please take me to a doctor. — कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले चलो।
134. What are the visiting hours? — मलने का समय क्या है?
135. I need to get a blood test done. — मुझे खून की जाँच करवानी है।
136. The report came out normal. — रिपोर्ट सामान्य आई।
137. Take this medicine after meals. — यह दवाई खाने के बाद लो।
138. Don't skip your medicines. — दवाइयाँ मत छोड़ो।
139. How many times a day should I take it? — दिन में कतनी बार लेनी है?
140. Rest as much as possible. — जितना हो सके आराम करो।
141. Avoid cold water for a few days. — कुछ दिनों तक ठंडा पानी मत पयो।
142. Your blood pressure is high. — आपका रक्तचाप अ धक है।

143. You need to reduce your stress. — आपको तनाव कम करना होगा।
144. Do yoga every morning. — हर सुबह योग करो।
145. Deep breathing helps with anxiety. — गहरी साँस लेने से घबराहट कम होती है।
146. Cut down on sugar. — चीनी कम करो।
147. Your cholesterol level is high. — आपका कोलेस्ट्रॉल अ धक है।
148. Walk for thirty minutes after dinner. — रात के खाने के बाद तीस मिनट टहलो।
149. Wash your hands before eating. — खाने से पहले हाथ धोओ।
150. Cover your mouth when you sneeze. — छींकते समय मुँह ढको।

Education & Learning — शक्षा और सीखना

151. Reading daily improves your vocabulary. — रोज़ पढ़ने से शब्द भंडार बढ़ता है।
152. Learn one new thing every day. — हर दिन एक नई चीज़ सीखो।

153. Online courses are very helpful. — ऑनलाइन कोर्स बहुत उपयोगी होते हैं।
154. I am learning a new language. — मैं एक नई भाषा सीख रहा हूँ।
155. Practice speaking English daily. — रोज़ अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास करो।
156. Watch educational videos online. — ऑनलाइन शैक्षणिक वीडियो देखो।
157. Join a skill development course. — कोई कौशल विकास कोर्स जॉइन करो।
158. Reading newspapers improves general knowledge. — अखबार पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है।
159. Curiosity is the best teacher. — जिज्ञासा सबसे अच्छी शिक्षिका है।
160. Ask questions whenever you don't understand. — जब समझ न आए तब सवाल पूछो।
161. Critical thinking is an important skill. — आलोचनात्मक सोच एक महत्वपूर्ण कौशल है।
162. Write a journal every evening. — हर शाम डायरी लखो।

163. Attend every class regularly. — हर कक्षा में नियम त रूप से जाओ।
164. Revision is the key to remembering. — दोहराई याद रखने की कुंजी है।
165. Use mind maps to organize notes. — नोट्स व्यवस्थित करने के लिए माइंड मैप बनाओ।
166. The library is a treasure house. — पुस्तकालय एक खजाने का घर है।
167. Group discussions help you think better. — समूह चर्चा से सोचने की क्षमता बढ़ती है।
168. Never be afraid of making mistakes. — गलतियाँ करने से कभी मत डरो।
169. Self-discipline leads to success. — आत्म-अनुशासन सफलता का मार्ग है।
170. Every expert was once a beginner. — हर विशेषज्ञ कभी शुरुआती था।
-

Work & Career — काम और करियर

171. I have a meeting at ten. — दस बजे मेरी बैठक है।

172. Please send me the report by evening. — कृपया शाम तक रिपोर्ट भेजो।
173. The project deadline is tomorrow. — प्रोजेक्ट की समयसीमा कल है।
174. We need to work as a team. — हमें टीम के रूप में काम करना होगा।
175. The client has approved the proposal. — ग्राहक ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया।
176. I need a day off tomorrow. — मुझे कल एक दिन की छुट्टी चाहिए।
177. I have applied for a new job. — मैंने नई नौकरी के लिए आवेदन किया है।
178. The interview went very well. — इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा।
179. I got a promotion last month. — पछले महीने मेरी पदोन्नति हुई।
180. My salary was credited today. — आज मेरी तनख्वाह आ गई।
181. Submit your work on time. — अपना काम समय पर जमा करो।
182. Don't procrastinate. — काम को टालो मत।

183. Focus on quality, not just speed. — सर्फ़ गति नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान दो।
184. Update your resume. — अपना रेज़्यूमे अपडेट करो।
185. Network with professionals in your field. — अपने क्षेत्र के पेशेवरों से संपर्क बनाओ।
186. Take initiative at work. — काम में पहल करो।
187. The company is doing very well this quarter. — कंपनी इस तिमाही में बहुत अच्छा कर रही है।
188. There will be a team lunch on Friday. — शुक्रवार को टीम लंच है।
189. Please reschedule the meeting. — कृपया बैठक का समय बदलो।
190. I am working from home today. — आज मैं घर से काम कर रहा हूँ।
191. The office is closed on account of the holiday. — छुट्टी के कारण दफ़्तर बंद है।
192. Give me a few minutes to finish this. — मुझे यह पूरा करने के लिए कुछ मिनट दो।
193. Can you cover for me today? — क्या आज आप मेरी जगह संभाल सकते हैं?

194. I need to make an important call. — मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है।
195. Please keep this information confidential. — कृपया यह जानकारी गोपनीय रखें।

Money & Finance — पैसा और वक्त

196. Save a portion of your salary every month. — हर महीने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा बचाओ।
197. Don't spend more than you earn. — जितना कमाओ उससे ज़्यादा मत खर्च करो।
198. Invest wisely for the future. — भविष्य के लिए समझदारी से निवेश करो।
199. The interest rate has gone up. — ब्याज दर बढ़ गई है।
200. I need to pay my EMI this week. — इस हफ़्ते मुझे EMI भरनी है।
201. Check your bank balance. — अपना बैंक बैलेंस जाँचो।
202. I need to withdraw some cash. — मुझे कुछ नक़द निकालना है।
203. The ATM is out of cash. — ATM में पैसे नहीं हैं।

204. Can I pay by UPI? — क्या मैं UPI से भुगतान कर सकता हूँ?
205. Please give me the bill. — कृपया बिल दीजिए।
206. The bill seems incorrect. — बिल ग़लत लग रहा है।
207. I want to open a savings account. — मैं बचत खाता खोलना चाहता हूँ।
208. Update your bank's KYC documents. — बैंक के KYC दस्तावेज़ अपडेट करो।
209. Apply for a credit card. — क्रे डिट कार्ड के लिए आवेदन करो।
210. Pay the credit card bill on time. — क्रे डिट कार्ड का बिल समय पर भरो।
211. Don't take unnecessary loans. — अनावश्यक कर्ज़ मत लो।
212. Make a monthly budget. — मासिक बजट बनाओ।
213. Track your daily expenses. — अपने रोज़ाना के खर्च का हिसाब रखो।
214. Avoid impulse buying. — बिना सोचे खरीदारी मत करो।

215. Shop during the sale season. — सेल के मौसम में खरीदारी करो।

Relationships & Social Life — रिश्ते और सामाजिक जीवन

216. Friends make life more beautiful. — दोस्त जीवन को और सुंदर बनाते हैं।

217. Always be there for your friends. — अपने दोस्तों के लिए हमेशा मौजूद रहो।

218. Trust is the foundation of any relationship. — वश्वास हर रिश्ते की नींव है।

219. Forgive and move on. — माफ़ करो और आगे बढ़ो।

220. Respect others' feelings. — दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो।

221. Be a good listener. — एक अच्छे श्रोता बनो।

222. Don't gossip about others. — दूसरों की चुगली मत करो।

223. Help others without expecting anything in return.
— बदले में कुछ उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करो।
224. Spend quality time with your loved ones. —
अपने प्रयजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताओ।
225. Celebrate each other's achievements. — एक-दूसरे की उपलब्धियाँ मनाओ।
226. Support each other in difficult times. — मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा बनो।
227. A good friend is a treasure. — एक अच्छा दोस्त एक खज़ाना है।
228. Make time for your old friends. — पुराने दोस्तों के लिए समय निकालो।
229. Don't let misunderstandings spoil relationships.
— गलतफहमियों को रिश्ते खराब मत करने दो।
230. Talk things out calmly. — शांति से बात करके सुलझाओ।

Festivals & Traditions — त्योहार और परंपराएँ

231. We celebrate Diwali with great joy. — हम दीपावली बड़ी खुशी से मनाते हैं।

232. Light the diyas in the evening. — शाम को दीये जलाओ।
233. Burst crackers carefully. — सावधानी से पटाखे जलाओ।
234. Wear new clothes on Eid. — ईद पर नए कपड़े पहनो।
235. Prepare sevaiyan for Eid. — ईद के लिए सेवइयाँ बनाओ।
236. Play Holi with colours and love. — रंगों और प्यार से होली खेलो।
237. Don't use harmful colours on Holi. — होली पर हानिकारक रंग इस्तेमाल मत करो।
238. Fast on auspicious occasions. — शुभ अवसरों पर उपवास करो।
239. Visit the temple during festivals. — त्योहारों के समय मंदिर जाओ।
240. Distribute sweets among the neighbours. — पड़ोसियों में मठाई बाँटो।
241. Decorate the house with flowers. — घर को फूलों से सजाओ।

242. Make rangoli at the entrance. — दरवाज़े पर रंगोली बनाओ।
243. Sing devotional songs together. — साथ मलकर भजन गाओ।
244. Invite friends and family to celebrate. — जश्न मनाने के लिए दोस्तों और परिवार को बुलाओ।
245. Send greetings to everyone. — सभी को बधाई संदेश भेजो।
-

Environment & Cleanliness — पर्यावरण और स्वच्छता

246. Plant more trees in your area. — अपने इलाके में और पेड़ लगाओ।
247. Don't cut trees unnecessarily. — पेड़ों को अनावश्यक रूप से मत काटो।
248. Use cloth bags instead of plastic. — प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करो।
249. Segregate your waste properly. — कचरे को सही तरीके से अलग करो।
250. Don't throw garbage on the road. — सड़क पर कूड़ा मत फेंको।

251. Save water, it is precious. — पानी बचाओ, यह बहुमूल्य है।
252. Turn off taps when not in use. — उपयोग में न हो तो नल बंद रखो।
253. Reduce your carbon footprint. — अपना कार्बन फुट प्रिंट कम करो।
254. Use public transport when possible. — जब संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करो।
255. Carpool to save fuel. — ईंधन बचाने के लिए कारपूल करो।
256. Recycle old newspapers and bottles. — पुराने अखबार और बोतलें रीसाइकल करो।
257. Switch to solar energy. — सौर ऊर्जा अपनाओ।
258. Keep the park clean. — पार्क को साफ़ रखो।
259. Join a local cleanliness drive. — स्थानीय स्वच्छता अभियान में शामिल हो।
260. Teach children the importance of conservation. — बच्चों को संरक्षण का महत्व सखाओ।

Technology & Internet — प्रौद्योगिकी और इंटरनेट

261. Update your software regularly. — अपना सॉफ़्टवेयर नियम रूप से अपडेट करो।
262. Use a strong password. — मज़बूत पासवर्ड इस्तेमाल करो।
263. Don't share your password with anyone. — अपना पासवर्ड किसी से साझा मत करो।
264. Enable two-factor authentication. — दो-चरणीय प्रमाणीकरण चालू करो।
265. Beware of online fraud. — ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहो।
266. Don't click on suspicious links. — संदिग्ध लिंक पर क्लिक मत करो।
267. Back up your data regularly. — अपना डेटा नियम रूप से बैकअप करो।
268. The internet connection is very slow. — इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीमा है।
269. My laptop battery is dying. — मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है।
270. The printer is not working. — प्रिंटर काम नहीं कर रहा।

271. Install the latest version of the app. — ऐप का नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करो।
272. Delete unnecessary files to free space. — जगह खाली करने के लिए अनावश्यक फ़ाइलें मटाओ।
273. Your screen brightness is too high. — आपकी स्क्रीन की चमक बहुत अधिक है।
274. Mute your phone during meetings. — बैठक के दौरान फ़ोन साइलेंट रखो।
275. Download the form from the website. — वेबसाइट से फ़ॉर्म डाउनलोड करो।
276. Submit the application online. — ऑनलाइन आवेदन जमा करो।
277. Use headphones while on a call. — कॉल के दौरान हेडफ़ोन इस्तेमाल करो।
278. The video call quality is very poor. — वीडियो कॉल की गुणवत्ता बहुत खराब है।
279. Your microphone is on mute. — आपका माइक्रोफ़ोन म्यूट है।
280. Take a screenshot and send it. — स्क्रीनशॉट लो और भेजो।
-

Food Preferences & Dining — खाने की पसंद और

खाना

281. I prefer home-cooked food. — मुझे घर का खाना ज्यादा पसंद है।
282. I don't eat meat. — मैं माँस नहीं खाता।
283. I am allergic to peanuts. — मुझे मूँगफली से एलर्जी है।
284. Can I have the menu please? — क्या मुझे मेन्यू मल सकता है?
285. What is the specialty of this restaurant? — इस रेस्तराँ की खासियत क्या है?
286. I would like to order first. — मैं पहले ऑर्डर देना चाहूँगा।
287. Can you recommend something? — क्या आप कुछ सुझाएँगे?
288. Is this dish very spicy? — क्या यह व्यंजन बहुत तीखा है?
289. Please make it less spicy. — कृपया इसे कम तीखा बनाएँ।

290. I want my steak medium well done. — मुझे स्टेक मी डयम वेल डन चाहिए।
291. Bring some extra chapatis please. — कृपया कुछ और चपातियाँ लाइए।
292. The food is taking too long. — खाने में बहुत समय लग रहा है।
293. This is not what I ordered. — यह मेरा ऑर्डर नहीं था।
294. The soup is too salty. — सूप बहुत नमकीन है।
295. The dessert was absolutely delicious. — मठाई बिल्कुल स्वादिष्ट थी।
296. Pack the leftovers, please. — कृपया बचा हुआ खाना पैक करो।
297. We need one more chair at the table. — मेज़ पर एक और कुर्सी चाहिए।
298. Split the bill equally. — बिल बराबर बाँट लो।
299. Add a ten percent tip. — दस प्रतिशत टिप जोड़ो।
300. The service here is excellent. — यहाँ की सेवा बहुत उत्कृष्ट है।

301. Wake up early every morning. — हर सुबह जल्दी उठो।
302. Start your day with gratitude. — अपना दिन कृतज्ञता से शुरू करो।
303. Set clear goals for yourself. — अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करो।
304. Break big goals into small steps. — बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में तोड़ो।
305. Celebrate small victories. — छोटी जीतें भी मनाओ।
306. Learn from your failures. — अपनी असफलताओं से सीखो।
307. Don't compare yourself to others. — दूसरों से अपनी तुलना मत करो।
308. Focus on your own journey. — अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान दो।
309. Read self-improvement books. — आत्म-सुधार की कताबें पढ़ो।
310. Develop a positive mindset. — सकारात्मक मान सकता वक सत करो।
311. Stop overthinking. — ज़्यादा सोचना बंद करो।

312. Take one step at a time. — एक समय में एक कदम उठाओ।
313. Be kind to yourself. — खुद के प्रति दयालु रहो।
314. Invest in your skills. — अपने कौशल में निवेश करो।
315. Get out of your comfort zone. — अपने आराम की सीमा से बाहर निकलो।
316. Surround yourself with positive people. — सकारात्मक लोगों के साथ रहो।
317. Practice mindfulness daily. — हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करो।
318. Reduce screen time before bed. — सोने से पहले स्क्रीन का समय कम करो।
319. Keep a to-do list. — दैनिक कार्यसूची बनाओ।
320. Prioritize your tasks. — अपने कार्यों को प्राथमिकता दो।

Expressing Opinions — राय और वचार

321. In my opinion, this is wrong. — मेरी राय में, यह गलत है।

322. I strongly agree with you. — मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ।
323. I respectfully disagree. — मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूँ।
324. That's an interesting point. — यह एक दिलचस्प बात है।
325. I never thought of it that way. — मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था।
326. You make a valid point. — आपकी बात सही है।
327. I see it differently. — मेरा नज़रिया अलग है।
328. Both sides have their merits. — दोनों पक्षों में अपनी-अपनी खूबियाँ हैं।
329. This topic needs more research. — इस वषय पर और शोध की ज़रूरत है।
330. Let's look at the facts first. — पहले तथ्यों पर नज़र डालते हैं।
331. Don't jump to conclusions. — जल्दबाज़ी में निष्कर्ष पर मत पहुँचो।
332. Think before you speak. — बोलने से पहले सोचो।
333. Everyone is entitled to their opinion. — हर कसी को अपनी राय रखने का अ धकार है।

334. I'm open to hearing your side. — मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ।
335. We can agree to disagree. — हम असहमत रहते हुए भी सम्मान कर सकते हैं।

Asking for Directions — रास्ता पूछना

336. Excuse me, where is the nearest hospital? — माफ़ कीजिए, सबसे नज़दीकी अस्पताल कहाँ है?
337. How do I get to the post office? — डाकघर कैसे जाऊँगा?
338. Is the market far from here? — क्या बाज़ार यहाँ से दूर है?
339. Can you show me on the map? — क्या आप मुझे नक्शे पर दिखाएँगे?
340. Go straight and then turn right. — सीधे जाओ और फिर दाएँ मुड़ो।
341. It's just around the corner. — यह बस कोने के पास ही है।
342. You can't miss it. — आप इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।

343. It's about two kilometres from here. — यह यहाँ से लगभग दो किलोमीटर है।
344. Cross the bridge and take the first left. — पुल पार करो और पहले बाएँ मुड़ो।
345. Is there a landmark nearby? — क्या पास में कोई पहचान की जगह है?
346. Go past the school and you'll find it. — स्कूल के आगे जाओ और मल जाएगा।
347. I'm a little lost. Can you help me? — मैं थोड़ा भटक गया हूँ। क्या आप मदद करेंगे?
348. Which road leads to the city centre? — शहर के केंद्र की ओर कौनसी सड़क जाती है?
349. Is this the right direction for the station? — क्या स्टेशन के लिए यही रास्ता सही है?
350. Thank you for your help. — आपकी मदद के लिए धन्यवाद।

Arguments & Conflict Resolution — ववाद और

समाधान

351. Calm down and let's talk. — शांत हो जाओ और बात करते हैं।
352. Let's not make this a big issue. — इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ।
353. I understand your frustration. — मैं आपकी निराशा समझता हूँ।
354. Let's find a middle ground. — आपसी सहमति का रास्ता निकालते हैं।
355. Don't raise your voice. — आवाज़ ऊँची मत करो।
356. Listen to what I have to say first. — पहले मेरी बात सुनो।
357. I didn't mean to hurt you. — मेरा आपको तकलीफ़ देने का इरादा नहीं था।
358. Let's start over. — फर से शुरू करते हैं।
359. I am willing to compromise. — मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ।
360. Can we talk about this later? — क्या हम यह बाद में बात कर सकते हैं?
361. Let's not involve others in this. — इसमें दूसरों को शा मल मत करो।

362. I value our friendship too much to fight. — हमारी दोस्ती मुझे लड़ाई से ज़्यादा प्यारी है।
363. Things said in anger are often regretted. — गुस्से में कही बातों पर अक्सर पछतावा होता है।
364. I should have handled this better. — मुझे इसे बेहतर तरीके से सँभालना चाहिए था।
365. Let's shake hands and move forward. — हाथ मलाओ और आगे बढ़ते हैं।

Weather-related Conversations — मौसम से जुड़ी बातें

366. Take an umbrella, it might rain. — छाता लो, बारिश हो सकती है।
367. It's too humid today. — आज बहुत उमस है।
368. The heatwave is unbearable. — गर्मी की लहर असहनीय है।
369. Wear a sweater, it's chilly outside. — स्वेटर पहनो, बाहर ठंड है।
370. The temperature has dropped. — तापमान गर गया है।

371. The storm damaged many trees. — तूफ़ान ने कई पेड़ उखाड़ दिए।
372. It's a perfect day for a picnic. — यह पकनिक के लिए एकदम सही दिन है।
373. The sun sets early in winter. — सर्दियों में सूरज जल्दी ढलता है।
374. Wear sunscreen in this heat. — इस गर्मी में सनस्क्रीन लगाओ।
375. There was hail last night. — कल रात ओले पड़े।

Shopping Conversations — खरीदारी की बातें

376. What is the price of this? — इसकी क्या कीमत है?
377. Do you have a discount on this? — क्या इस पर कोई छूट है?
378. Can I try this on? — क्या मैं यह पहनकर देख सकता हूँ?
379. Do you have this in a smaller size? — क्या यह छोटे साइज़ में है?
380. This is too expensive. — यह बहुत महँगा है।

381. Can you lower the price a little? — क्या थोड़ा कम कर सकते हो?
382. I'll think about it. — मैं सोचूँगा।
383. I'll take two of these. — मैं इनमें से दो लूँगा।
384. Is this product genuine? — क्या यह उत्पाद असली है?
385. Do you accept returns? — क्या आप वापसी स्वीकार करते हैं?
386. The product is defective. — उत्पाद में खराबी है।
387. I want a replacement. — मुझे बदलाव चाहिए।
388. Do you have this in another colour? — क्या यह कसी और रंग में है?
389. Pack it nicely please. — कृपया इसे अच्छे से पैक करो।
390. Give me the bill. — बिल दीजिए।

Compliments & Encouragement — तारीफ़ और प्रोत्साहन

391. You have a wonderful smile. — आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है।

392. You are very talented. — आप बहुत प्रतिभाशाली हैं।
393. Your singing is beautiful. — आपका गाना बहुत सुंदर है।
394. You cook amazingly well. — आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं।
395. I admire your patience. — मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ।
396. You always know the right thing to say. — आपको हमेशा सही बात कहना आता है।
397. You are such a caring person. — आप बहुत खयाल रखने वाले इंसान हैं।
398. Your presentation was outstanding. — आपकी प्रस्तुति शानदार थी।
399. You're doing a fantastic job. — आप बेहतरीन काम कर रहे हैं।
400. I knew you could do it. — मुझे पता था आप यह कर सकते हैं।

Apologies & Forgiveness — माफ़ी और क्षमा

401. I'm truly sorry for what I said. — मैं जो बोला उसके लिए सच में माफ़ी चाहता हूँ।
402. Please forgive me. — कृपया मुझे माफ़ करो।
403. I made a mistake, I admit it. — मैंने गलती की, मैं मानता हूँ।
404. It was entirely my fault. — यह पूरी तरह मेरी गलती थी।
405. I promise it won't happen again. — मैं वादा करता हूँ यह दोबारा नहीं होगा।
406. I should have been more careful. — मुझे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था।
407. I understand if you're angry. — मैं समझता हूँ अगर आप नाराज़ हैं।
408. I'll make it up to you. — मैं इसकी भरपाई करूँगा।
409. Thank you for forgiving me. — मुझे माफ़ करने के लिए शुक्रिया।
410. Let's put this behind us. — इसे पीछे छोड़ते हैं।

Invitations & Plans — निमंत्रण और योजनाएँ

411. You're invited to my birthday party. — आपको मेरी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया है।
412. Please come to our home for dinner. — कृपया रात के खाने के लिए हमारे घर आइए।
413. We are having a small gathering. — हम एक छोटी सी बैठक रख रहे हैं।
414. Can you make it on Saturday? — क्या आप शनिवार को आ सकते हैं?
415. The function starts at seven. — समारोह सात बजे शुरू होगा।
416. Dress code is formal. — ड्रेस कोड औपचारिक है।
417. Don't forget to RSVP. — RSVP देना मत भूलना।
418. We'd love to have you join us. — हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हों।
419. It will be a fun evening. — यह एक मजेदार शाम होगी।
420. Bring the family along. — परिवार को साथ लाइए।

Describing Places — जगहों का वर्णन

421. This city is very lively. — यह शहर बहुत जीवंत है।
422. The market is very crowded today. — आज बाज़ार में बहुत भीड़ है।
423. This park is beautifully maintained. — यह पार्क बहुत खूबसूरती से संरक्षित है।
424. The beach is absolutely stunning. — समुद्र तट बिल्कुल शानदार है।
425. This is a very old monument. — यह एक बहुत पुरानी इमारत है।
426. The view from the top is breathtaking. — ऊपर से शय अद्भुत है।
427. The hotel has very nice facilities. — होटल में बहुत अच्छी सुवधाएँ हैं।
428. This is a very quiet neighbourhood. — यह बहुत शांत इलाका है।
429. The roads here are very well maintained. — यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी तरह बनी हैं।
430. This village is very peaceful. — यह गाँव बहुत शांतिपूर्ण है।
-

Describing People — लोगों का वर्णन

431. She is a very kind-hearted person. — वह बहुत दयालु इंसान है।
432. He is very hardworking and dedicated. — वह बहुत मेहनती और समर्पित है।
433. She speaks very confidently. — वह बहुत आत्म विश्वास से बोलती है।
434. He is very funny and entertaining. — वह बहुत मजेदार और मनोरंजक है।
435. She is very responsible and mature. — वह बहुत जिम्मेदार और परिपक्व है।
436. He is someone you can always rely on. — वह एक ऐसा इंसान है जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है।
437. She always sees the good in people. — वह हमेशा लोगों में अच्छाई देखती है।
438. He is very creative and imaginative. — वह बहुत रचनात्मक और कल्पनाशील है।
439. She is a natural leader. — वह एक स्वाभाविक नेता है।

440. He is very humble despite his success. —
सफलता के बाद भी वह बहुत वनम्र है।

Time & Scheduling — समय और समय-सारणी

441. What time does it start? — यह कतने बजे शुरू होता है?

442. I'll be there by nine sharp. — मैं ठीक नौ बजे पहुँचूँगा।

443. The meeting has been postponed. — बैठक स्थगित हो गई है।

444. Can we reschedule for tomorrow? — क्या हम इसे कल के लिए रख सकते हैं?

445. I have back-to-back meetings today. — आज मेरी एक के बाद एक बैठकें हैं।

446. Block this time in your calendar. — अपने कैलेंडर में यह समय सुरक्षित कर लो।

447. Let me check my availability. — मैं अपनी उपलब्धता जाँचता हूँ।

448. I'm free after three o'clock. — मैं तीन बजे के बाद खाली हूँ।

449. Don't be late, it's important. — देर मत करना, यह जरूरी है।

450. Time is very precious. — समय बहुत कीमती है।

Describing Feelings More Deeply — भावनाओं

का गहरा वर्णन

451. I feel overwhelmed right now. — मैं अभी बहुत दबाव महसूस कर रहा हूँ।

452. I'm feeling very lonely these days. — मैं इन दिनों बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ।

453. Something is bothering me. — कुछ मुझे परेशान कर रहा है।

454. I can't explain this feeling. — मैं इस भावना को समझा नहीं सकता।

455. I feel so grateful for everything. — मैं हर चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूँ।

456. I'm nervous about the interview. — इंटरव्यू के बारे में घबरा रहा हूँ।

457. I feel so proud of what I've achieved. — मैंने जो हासिल किया उस पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ।

458. I'm feeling much better now. — मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ।
459. I was very disappointed by the result. — परिणाम से मुझे बहुत निराशा हुई।
460. I feel at peace when I'm in nature. — प्रकृति में रहने से मुझे शांति मिलती है।

Humor & Light-Hearted Talk — हास्य और हल्की बातें

461. You always make me laugh. — तुम हमेशा मुझे हँसाते हो।
462. That joke was hilarious! — वह चुटकुला बहुत मजेदार था!
463. Stop making me laugh, I'll cry. — मुझे हँसाना बंद करो, मैं रो दूँगा।
464. You're a complete joker. — तुम तो पूरे मसखरे हो।
465. I can't keep a straight face. — मैं गंभीर चेहरा नहीं रख पा रहा।

466. Did you just make that up? — क्या तुमने यह अभी बनाया?
467. That was the worst joke I've ever heard. — यह सबसे बेकार चुटकुला था जो मैंने सुना।
468. You had me fooled for a second. — एक पल के लिए तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया।
469. I needed a good laugh today. — मुझे आज एक अच्छी हँसी की ज़रूरत थी।
470. Laughter is the best medicine. — हँसी सबसे अच्छी दवाई है।

Giving Advice — सलाह देना

471. You should talk to someone about this. — आपको इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए।
472. Don't make hasty decisions. — जल्दबाजी में फ़ैसले मत करो।
473. Think twice before you act. — कुछ करने से पहले दो बार सोचो।
474. Follow your heart but use your mind. — दिल की सुनो पर दिमाग का भी इस्तेमाल करो।

475. Trust your instincts. — अपनी प्रवृत्त पर भरोसा रखो।
476. Take a break if you feel burned out. — अगर थका हुआ महसूस करो तो ब्रेक लो।
477. Talk to someone you trust. — कसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिस पर भरोसा हो।
478. Don't bottle up your emotions. — अपनी भावनाओं को दबाओ मत।
479. Seek professional help if needed. — जरूरत हो तो पेशेवर मदद लो।
480. Everything happens for a reason. — हर चीज़ कसी कारण से होती है।

Hobbies & Interests — शौक और रुचियाँ

481. I love painting in my free time. — खाली समय में मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है।
482. I enjoy gardening on weekends. — सप्ताहांत में मुझे बागवानी करना पसंद है।
483. Photography is my passion. — फ़ोटोग्राफी मेरा जुनून है।

484. I've recently started learning guitar. — मैंने हाल ही में गटार सीखना शुरू किया है।
485. I enjoy going for long walks. — मुझे लंबी सैर करना पसंद है।
486. Cooking is both an art and a hobby. — खाना पकाना एक कला और शौक दोनों है।
487. I collect stamps as a hobby. — मेरा शौक डाक टिकट इकट्ठा करना है।
488. Reading mystery novels relaxes me. — रहस्य उपन्यास पढ़ना मुझे आराम देता है।
489. I love traveling to new places. — मुझे नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद है।
490. Birdwatching is a very calming hobby. — पक्षी-निरीक्षण बहुत शांतिदायक शौक है।

Visiting Someone — कसी से मलने जाना

491. I'm coming to visit you this Sunday. — मैं इस र ववार आपसे मलने आऊँगा।
492. Please let me know if it's a good time. — कृपया बताएँ अगर समय ठीक हो।

493. I brought some sweets for everyone. — मैं सभी के लिए मठाई लाया हूँ।
494. Your house looks lovely. — आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है।
495. I hope I'm not disturbing you. — उम्मीद है मैं आपको परेशान नहीं कर रहा।
496. Please don't go to any trouble. — कृपया कोई तकलीफ़ मत उठाइए।
497. We had a lovely time at your place. — आपके घर बहुत अच्छा समय बिताया।
498. Thank you for the warm hospitality. — गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद।
499. We must do this again soon. — हमें जल्द ही फिर ऐसा करना चाहिए।
500. It was wonderful being here. — यहाँ आना बहुत अच्छा लगा।

Describing Daily Routine — दैनिक दिनचर्या

501. I wake up before sunrise. — मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ।

502. I meditate for fifteen minutes every morning. —
मैं हर सुबह पंद्रह मिनट ध्यान करता हूँ।
503. I go for a jog in the park. — मैं पार्क में जॉ गंग
करने जाता हूँ।
504. I prepare my own breakfast. — मैं खुद अपना
नाश्ता बनाता हूँ।
505. I leave for work at eight. — मैं आठ बजे काम के
लिए निकलता हूँ।
506. I take a short nap after lunch. — मैं दोपहर के
खाने के बाद थोड़ी झपकी लेता हूँ।
507. I listen to music on my way home. — घर आते
समय मैं संगीत सुनता हूँ।
508. I cook dinner every evening. — मैं हर शाम रात
का खाना बनाता हूँ।
509. I read a book before going to bed. — मैं सोने से
पहले किताब पढ़ता हूँ।
510. I sleep by ten every night. — मैं हर रात दस बजे
तक सो जाता हूँ।

Phone Conversations — फ़ोन पर बातें

511. Hello, who is speaking? — हेलो, कौन बोल रहा है?
512. Can you hear me clearly? — क्या आप मुझे साफ़ सुन सकते हैं?
513. The call is breaking up. — कॉल टूट रही है।
514. Can you call me back? — क्या आप मुझे वापस फ़ोन कर सकते हैं?
515. I'll call you in ten minutes. — मैं दस मिनट में फ़ोन करता हूँ।
516. I'm in a meeting, can't talk now. — मैं बैठक में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता।
517. Send me a message instead. — बजाय इसके संदेश भेजो।
518. I missed your call, sorry. — आपका फ़ोन छूट गया, माफ़ी।
519. The number you dialled is switched off. — आपका डायल किया नंबर बंद है।
520. Please leave a voicemail. — कृपया वॉइसमेल छोड़ें।
521. I have a poor signal here. — यहाँ नेटवर्क कमज़ोर है।

522. Let me step outside to take this call. — मुझे इस कॉल के लिए बाहर जाना होगा।

523. You're on speaker. — आप स्पीकर पर हैं।

524. Can I put you on hold for a minute? — क्या मैं आपको एक मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ?

525. Let me transfer you to the right person. — मैं आपको सही व्यक्ति से जोड़ता हूँ।

Emotions — Deeper Vocabulary — भावनाएँ —

गहरे शब्द

526. I feel genuinely happy for you. — मैं आपके लिए सच में खुश हूँ।

527. I'm filled with gratitude. — मेरा मन कृतज्ञता से भरा है।

528. I feel betrayed. — मुझे विश्वासघात महसूस हो रहा है।

529. I'm at a loss for words. — मेरे पास शब्द नहीं हैं।

530. I'm bursting with excitement. — मैं उत्साह से भरा हूँ।

531. I feel completely drained. — मैं पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा हूँ।
532. I'm anxious about the future. — मैं भविष्य को लेकर चिंतित हूँ।
533. I feel inspired by your story. — आपकी कहानी से मुझे प्रेरणा मिलती है।
534. I'm relieved it worked out. — मुझे राहत है कि यह ठीक हो गया।
535. I feel hopeful about tomorrow. — मुझे कल के बारे में उम्मीद है।

Hospitals & Medical — अस्पताल और चिकित्सा

536. I need to see a doctor urgently. — मुझे तुरंत डॉक्टर से मिलना है।
537. Book an appointment for tomorrow. — कल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करो।
538. The doctor is on rounds. — डॉक्टर राउंड पर हैं।
539. Please fill out this form. — कृपया यह फॉर्म भरें।
540. When was your last check-up? — आपकी आखरी जाँच कब थी?

541. I have diabetes and hypertension. — मुझे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है।
542. The X-ray report is normal. — एक्स-रे रिपोर्ट सामान्य है।
543. You need surgery. — आपको सर्जरी की ज़रूरत है।
544. The patient is out of danger. — मरीज़ खतरे से बाहर है।
545. Take the medicine for five days. — पाँच दिनों तक दवाई लो।
546. Apply this ointment twice a day. — यह मरहम दिन में दो बार लगाओ।
547. Come back for a follow-up next week. — अगले हफ़्ते फ़ॉलो-अप के लिए आना।
548. The ward is on the second floor. — वार्ड दूसरी मंजिल पर है।
549. Visiting hours are from four to six. — मलने का समय चार से छह बजे है।
550. The patient needs complete bed rest. — मरीज़ को पूरी बेड रेस्ट की ज़रूरत है।
-

Agriculture & Village Life — खेती और गाँव का जीवन

551. The crops are ready for harvest. — फ़सल कटाई के लिए तैयार है।
552. It hasn't rained enough this season. — इस मौसम में पर्याप्त बारिश नहीं हुई।
553. The soil is very fertile here. — यहाँ की मट्टी बहुत उपजाऊ है।
554. Farmers work very hard every day. — किसान हर दिन बहुत कठिन परिश्रम करते हैं।
555. The well has dried up. — कुआँ सूख गया है।
556. We need to irrigate the fields. — हमें खेतों में संचाई करनी है।
557. The mango trees are full of fruits. — आम के पेड़ फलों से भरे हैं।
558. The village fair is on this weekend. — इस सप्ताहांत गाँव का मेला है।
559. Life in the village is simple and peaceful. — गाँव का जीवन सरल और शांतिपूर्ण है।

560. The village has no electricity at night. — गाँव में रात को बिजली नहीं होती।

Weddings & Celebrations — शादी और जश्न

561. The wedding is next month. — अगले महीने शादी है।

562. Have you received the wedding invitation? — क्या शादी का निमंत्रण मला?

563. What gift should we take? — हम क्या उपहार ले जाएँ?

564. The wedding venue is very beautiful. — शादी का स्थान बहुत सुंदर है।

565. The bride looked absolutely stunning. — दुल्हन बिल्कुल अद्भुत लग रही थी।

566. The groom was very nervous. — दूल्हा बहुत घबराया हुआ था।

567. The wedding food was delicious. — शादी का खाना बहुत स्वादिष्ट था।

568. The music was fantastic. — संगीत शानदार था।

569. Congratulations to the happy couple. — जोड़े को बधाई हो।

570. Wishing them a lifetime of happiness. — उन्हें जीवनभर की खुशी की शुभकामनाएँ।

Travel Planning — यात्रा की योजना

571. Let's plan a trip this summer. — इस गर्मियों में एक यात्रा की योजना बनाते हैं।

572. Where do you want to travel? — आप कहाँ यात्रा करना चाहते हैं?

573. Book the train tickets early. — ट्रेन की टिकट जल्दी बुक करो।

574. Make hotel reservations in advance. — पहले से होटल बुक करो।

575. Don't forget to pack essentials. — ज़रूरी सामान पैक करना मत भूलना।

576. Carry your ID proof. — अपना पहचान प्रमाण साथ रखो।

577. Make a list of places to visit. — घूमने की जगहों की सूची बनाओ।

578. Try local food wherever you go. — जहाँ भी जाओ, स्थानीय खाना खाओ।

579. Don't over-pack your luggage. — सामान ज़्यादा मत भरो।

580. Travel broadens the mind. — यात्रा सोच का दायरा बढ़ाती है।

Describing Experiences — अनुभवों का वर्णन

581. It was the best experience of my life. — यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव था।

582. I will never forget this moment. — मैं यह पल कभी नहीं भूलूँगा।

583. It was a life-changing experience. — यह एक जीवन बदलने वाला अनुभव था।

584. I was speechless when I saw it. — जब मैंने इसे देखा तो बोल नहीं सका।

585. The concert was absolutely amazing. — कॉन्सर्ट बिल्कुल अद्भुत था।

586. That road trip was unforgettable. — वह रोड ट्रिप अ वस्मरणीय था।

587. The sunrise from the mountain top was magical. — पहाड़ की चोटी से सूर्योदय जादुई था।

588. Meeting that author changed my perspective. —
उस लेखक से मिलने ने मेरा नज़रिया बदल दिया।
589. The museum visit was very educational. —
संग्रहालय की यात्रा बहुत शैक्षणिक थी।
590. That was an experience I'd love to repeat. — वह
एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं दोहराना चाहूँगा।

Grammar Practice Sentences — व्याकरण

अभ्यास वाक्य

591. She has been working here for five years. — वह
पाँच सालों से यहाँ काम कर रही है।
592. They had already left before I arrived. — वे मेरे
पहुँचने से पहले ही चले गए थे।
593. He will have finished by tomorrow morning. —
वह कल सुबह तक पूरा कर लेगा।
594. I am going to visit Jaipur next week. — मैं अगले
सप्ताह जयपुर जाने वाला हूँ।
595. She was reading a novel when I called. — जब
मैंने फ़ोन किया वह उपन्यास पढ़ रही थी।
596. Could you please pass me the water? — क्या आप
कृपया मुझे पानी दे सकते हैं?

597. I wish I had studied harder. — काश मैंने और मेहनत से पढ़ा होता।
598. If it rains, we will cancel the trip. — अगर बारिश हुई तो हम यात्रा रद्द कर देंगे।
599. He speaks as if he knows everything. — वह ऐसे बोलता है जैसे सब कुछ जानता हो।
600. The book was written by a famous author. — यह कताब एक प्रसिद्ध लेखक ने लखी थी।

Office Small Talk — दफ्तर की सामान्य बातें

601. Did you watch the match last night? — क्या आपने कल रात मैच देखा?
602. The office pantry has new coffee. — दफ्तर की पेंटी में नई कॉफी आई है।
603. It's been such a busy week. — यह बहुत व्यस्त हफ़ता रहा।
604. Do you want to grab lunch together? — क्या साथ में लंच करेंगे?
605. The conference room is already booked. — कॉन्फ्रेंस रूम पहले से बुक है।

606. There's a team outing planned next month. —
अगले महीने टीम आउटिंग की योजना है।
607. Have you heard the news about the new project?
— क्या आपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सुना?
608. The manager was very happy with our work. —
मैनेजर हमारे काम से बहुत खुश थे।
609. It's someone's birthday today in the office. —
आज दफ़्तर में कसी का जन्मदिन है।
610. Let's order cake for the celebration. — जश्न के
लिए केक मँगवाते हैं।

Motivational & Philosophical — प्रेरणादायक और दार्शनिक

611. Life is what you make of it. — जिंदगी वही है जो
आप बनाते हैं।
612. Every day is a new opportunity. — हर दिन एक
नया अवसर है।
613. The struggle makes you stronger. — संघर्ष
आपको मज़बूत बनाता है।
614. Success is a journey, not a destination. —
सफलता एक यात्रा है, मंज़िल नहीं।

615. Small steps lead to great heights. — छोटे-छोटे कदम बड़ी ऊँचाइयों तक ले जाते हैं।
616. Never stop dreaming. — सपने देखना कभी मत छोड़ो।
617. Patience is a virtue. — धैर्य एक गुण है।
618. Change is the only constant. — परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है।
619. Actions speak louder than words. — कर्म शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं।
620. The best time to start is now. — शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है।
621. Failure is the stepping stone to success. — असफलता सफलता की सीढ़ी है।
622. Your attitude determines your direction. — आपका रवैया आपकी दिशा तय करता है।
623. Don't wait for the perfect moment. — सही पल का इंतज़ार मत करो।
624. Be the change you wish to see. — वह बदलाव बनो जो आप देखना चाहते हो।
625. Great things take time. — महान चीज़ें समय लेती हैं।

Social Media & Online — सोशल मीडिया और ऑनलाइन

626. Did you see my post on Instagram? — क्या आपने Instagram पर मेरी पोस्ट देखी?
627. I got so many likes on that photo. — उस फ़ोटो पर बहुत सारे लाइक मले।
628. Follow my page for daily updates. — रोज़ाना अपडेट के लिए मेरा पेज फ़ॉलो करो।
629. Share this with your friends. — इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
630. I went live on YouTube last night. — कल रात मैं YouTube पर लाइव गया।
631. That video went viral. — वह वीडियो वायरल हो गई।
632. Don't believe everything you read online. — ऑनलाइन पढ़ी हर बात पर भरोसा मत करो।
633. Fake news spreads very fast. — फर्जी खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं।
634. Report the spam message. — स्पैम संदेश रिपोर्ट करो।

635. Block that account immediately. — उस अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करो।

Science & General Knowledge — वज्ञान और सामान्य ज्ञान

636. The earth revolves around the sun. — पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।

637. Water is made of hydrogen and oxygen. — पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है।

638. Light travels faster than sound. — प्रकाश ध्वनि से तेज़ चलता है।

639. The human body has 206 bones. — मानव शरीर में 206 हड्डियाँ हैं।

640. Plants make their own food through photosynthesis. — पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं।

641. The moon is a natural satellite of earth. — चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है।

642. Gravity holds everything to the ground. — गुरुत्वाकर्षण सब कुछ ज़मीन से जोड़े रखता है।

643. Electricity flows through conductors. — बिजली चालकों के through प्रवाहित होती है।
644. Antibiotics fight bacterial infections. — एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से लड़ते हैं।
645. Dinosaurs went extinct millions of years ago. — डायनासोर लाखों साल पहले विलुप्त हो गए।

Expressing Surprise — हैरानी जताना

646. I can't believe my eyes! — मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा!
647. This is beyond my imagination. — यह मेरी कल्पना से परे है।
648. I had no idea this would happen. — मुझे नहीं पता था यह होगा।
649. You never cease to amaze me. — आप मुझे हमेशा चकित करते रहते हैं।
650. I'm completely stunned. — मैं पूरी तरह स्तब्ध हूँ।

Expressing Agreement — सहमति जताना

651. Absolutely, I agree with you completely. —
बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ।
652. You're right, that's a great point. — आप सही हैं,
यह एक अच्छी बात है।
653. I think so too. — मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ।
654. That's exactly what I was thinking. — यही मैं
सोच रहा था।
655. We're on the same page. — हम एक ही पृष्ठ पर
हैं।

Expressing Disagreement — असहमति जताना

656. I'm not sure I agree with that. — मुझे नहीं लगता
मैं इससे सहमत हूँ।
657. That's not how I see it. — मैं इसे इस तरह नहीं
देखता।
658. I beg to differ. — मैं इससे असहमत हूँ।
659. With all due respect, that's incorrect. — पूरे
सम्मान के साथ, यह ग़लत है।
660. I see your point, but I disagree. — मैं आपकी बात
समझता हूँ, ले कन मैं असहमत हूँ।

Numbers & Quantities — संख्या और मात्रा

661. Give me two dozen bananas. — मुझे दो दर्जन केले दो।
662. There are fifty students in the class. — कक्षा में पचास छात्र हैं।
663. Add five hundred rupees to the account. — खाते में पाँच सौ रुपये जमा करो।
664. The building has twelve floors. — इमारत में बारह मंजिलें हैं।
665. I need three kilograms of flour. — मुझे तीन किलोग्राम आटा चाहिए।
666. The train arrives at platform number four. — ट्रेन चार नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी।
667. There are seven days in a week. — सप्ताह में सात दिन होते हैं।
668. The temperature today is forty degrees. — आज तापमान चालीस डग्री है।
669. I need one hundred sheets of paper. — मुझे एक सौ कागज़ के पन्ने चाहिए।

670. Call me at extension number two twenty five. —
मुझे एक्सटेंशन नंबर दो सौ पच्चीस पर फ़ोन करो।

Legal & Civic — कानून और नागरिक

671. Every citizen has the right to vote. — हर नागरिक
को मतदान का अ धकार है।

672. You should register to vote. — आपको मतदाता
पंजीकरण कराना चाहिए।

673. Obey the law at all times. — हर समय कानून का
पालन करो।

674. Report any crime immediately. — कसी भी
अपराध की तुरंत सूचना दो।

675. Everyone is equal before the law. — कानून के
सामने सभी बराबर हैं।

676. Pay your taxes on time. — समय पर कर जमा
करो।

677. You have the right to remain silent. — आपको
चुप रहने का अ धकार है।

678. Contact a lawyer if needed. — ज़रूरत हो तो
वकील से संपर्क करो।

679. File an FIR at the police station. — पु लस थाने
में FIR दर्ज करो।

680. Keep your documents safe. — अपने दस्तावेज़
सुर क्षत रखो।

Art & Culture — कला और संस्कृति

681. India has a very rich cultural heritage. — भारत
की बहुत समृद्ध सांस्कृतिक वरासत है।

682. Classical music is very soothing. — शास्त्रीय
संगीत बहुत सुकून देता है।

683. I love watching classical dance performances. —
मुझे शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन देखना बहुत पसंद है।

684. This painting has deep meaning. — इस पेंटिंग का
गहरा अर्थ है।

685. Folk art reflects local traditions. — लोक कला
स्थानीय परंपराओं को दर्शाती है।

686. The sculpture is very intricate. — मूर्तिकला बहुत
जटिल है।

687. Literature preserves history. — साहित्य इतिहास
को संरक्षित करता है।

688. Cinema is a powerful medium of expression. —
सनेमा अ भव्यक्ति का शक्तिशाली माध्यम है।
689. Theatre teaches us empathy. — रंगमंच हमें
सहानुभूति सखाता है।
690. Every language has its own beauty. — हर भाषा
की अपनी सुंदरता होती है।

Animals & Pets — जानवर और पालतू पशु

691. My dog follows me everywhere. — मेरा कुत्ता हर
जगह मेरे पीछे आता है।
692. The parrot can speak a few words. — तोता कुछ
शब्द बोल सकता है।
693. Cows are sacred in India. — भारत में गाय प वत्र
मानी जाती है।
694. The cat is sleeping on the sofa. — बिल्ली सोफे
पर सो रही है।
695. Feed the fish twice a day. — मछली को दिन में
दो बार खाना दो।
696. That dog is very friendly. — वह कुत्ता बहुत
मलनसार है।

697. Don't go near the stray dog. — आवारा कुत्ते के पास मत जाओ।
698. The zoo has over two hundred species. — च इयाघर में दो सौ से अधिक प्रजातियाँ हैं।
699. Birds migrate in winter. — पक्षी सर्दियों में प्रवास करते हैं।
700. Wild animals should not be kept as pets. — जंगली जानवरों को पालतू नहीं रखना चाहिए।

Law Enforcement & Emergency — पुलिस और आपात

701. Call the police immediately. — तुरंत पुलिस को बुलाओ।
702. There has been an accident here. — यहाँ एक दुर्घटना हुई है।
703. An ambulance is needed urgently. — तुरंत एम्बुलेंस की ज़रूरत है।
704. Fire! Everyone get out quickly! — आग! सभी जल्दी बाहर निकलो!
705. Call the fire brigade. — अग्निशमन विभाग को बुलाओ।

706. Don't panic. Stay calm. — घबराओ मत। शांत रहो।
707. My bag has been stolen. — मेरा बैग चोरी हो गया।
708. A child is missing. — एक बच्चा गुम है।
709. The road is blocked due to flooding. — बाढ़ के कारण सड़क बंद है।
710. Evacuate the building immediately. — इमारत तुरंत खाली करो।

Education System — शिक्षा प्रणाली

711. Government schools need more resources. — सरकारी स्कूलों को और संसाधनों की ज़रूरत है।
712. Mid-day meals help keep kids in school. — मध्याह्न भोजन बच्चों को स्कूल में रखने में मदद करता है।
713. Scholarships help deserving students. — छात्रवृत्त योग्य छात्रों की मदद करती है।
714. Digital education is the future. — डिजिटल शिक्षा भविष्य है।

715. Every child deserves quality education. — हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।
716. Girls' education is very important. — लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है।
717. Dropout rates must be reduced. — स्कूल छोड़ने की दर कम होनी चाहिए।
718. Teachers are the builders of the nation. — शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं।
719. Vocational training builds practical skills. — व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यावहारिक कौशल बनाता है।
720. Higher education opens more opportunities. — उच्च शिक्षा अधिक अवसर खोलती है।

Health Tips — स्वास्थ्य सुझाव

721. Eat a balanced diet every day. — हर दिन संतुलित आहार लो।
722. Limit your intake of oily food. — तैलीय खाने की मात्रा कम करो।
723. Avoid smoking and alcohol. — धूम्रपान और शराब से बचो।

724. Get regular health check-ups done. — नियम मत स्वास्थ्य जाँच करवाओ।
725. Wear sunscreen before going outdoors. — बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाओ।
726. Stay hydrated throughout the day. — पूरे दिन पानी पीते रहो।
727. Stretching in the morning prevents injury. — सुबह स्ट्रेचिंग चोट से बचाती है।
728. Don't ignore early warning signs. — शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज़ मत करो।
729. Mental health is just as important. — मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है।
730. Take care of your teeth. — अपने दाँतों का ध्यान रखो।

Reading & Books — पढ़ाई और कताबें

731. What book are you reading these days? — आप इन दिनों कौनसी कताब पढ़ रहे हैं?
732. This novel is very gripping. — यह उपन्यास बहुत रोचक है।

733. I couldn't put the book down. — मैं कताब रखना नहीं चाहता था।
734. The author has a brilliant writing style. — लेखक की शैली बहुत शानदार है।
735. I prefer non-fiction books. — मुझे गैर-काल्पनिक कताबें ज़्यादा पसंद हैं।
736. This biography is very inspiring. — यह जीवनी बहुत प्रेरणादायक है।
737. Have you read any books by Premchand? — क्या आपने प्रेमचंद की कोई कताब पढ़ी है?
738. I have a large collection of books. — मेरे पास कताबों का बड़ा संग्रह है।
739. Buy a new book for the journey. — यात्रा के लिए एक नई कताब खरीदो।
740. E-books are very convenient. — ई-बुक्स बहुत सुवधाजनक हैं।

Workplace Politeness — कार्यस्थल पर शष्ठाचार

741. Please knock before entering. — अंदर आने से पहले दस्तक दें।

742. I'm sorry to interrupt, but this is urgent. — बाधा के लिए खेद है, लेकिन यह जरूरी है।
743. Thank you for your patience. — आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।
744. I'll get back to you on this. — मैं इस पर आपको वापस जानकारी दूँगा।
745. Please copy me in on that email. — उस ईमेल में मुझे भी CC करें।
746. Can you clarify what you mean? — क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं आपका क्या मतलब है?
747. I'll handle this personally. — मैं इसे खुद संभाल लूँगा।
748. Please keep me updated. — कृपया मुझे अपडेट रखें।
749. Good work deserves recognition. — अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए।
750. Let's debrief after the presentation. — प्रस्तुति के बाद मिलकर समीक्षा करते हैं।

751. Would you mind helping me with this? — क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे?
752. Could you speak a little slower? — क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं?
753. May I borrow your pen? — क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ?
754. Would it be possible to meet tomorrow? — क्या कल मिलना संभव होगा?
755. Please let me know in advance. — कृपया पहले से बताएँ।
756. Could you please repeat that? — क्या आप कृपया दोहराएँगे?
757. Would you like some water? — क्या आप कुछ पानी लेंगे?
758. Do you mind if I open the window? — क्या आपको आप त है अगर मैं खड़की खोलूँ?
759. Is it okay if I leave early today? — क्या आज जल्दी जाना ठीक होगा?
760. Could you pass this message along? — क्या आप यह संदेश आगे पहुँचा सकते हैं?
-

Expressing Quantity — मात्रा बताना

761. There's a little left, not much. — थोड़ा बचा है, ज्यादा नहीं।
762. I have plenty of time. — मेरे पास काफ़ी समय है।
763. There's not enough sugar in the tea. — चाय में पर्याप्त चीनी नहीं है।
764. We need a lot more people for this project. — इस परियोजना के लिए हमें और लोग चाहिए।
765. Just a little bit, thank you. — बस थोड़ा सा, धन्यवाद।
766. There's too much salt in the food. — खाने में बहुत ज्यादा नमक है।
767. Half of it will be enough. — आधा काफ़ी होगा।
768. Take as much as you need. — जितना चाहिए उतना ले लो।
769. It's more than enough. — यह काफ़ी से ज्यादा है।
770. Give me a small portion. — मुझे छोटी मात्रा दो।

Health & Wellbeing — स्वास्थ्य और भलाई

771. Don't skip meals. — खाना छोड़ो मत।
772. Eat slowly and chew well. — धीरे-धीरे खाओ और अच्छे से चबाओ।
773. Avoid eating late at night. — रात को देर से खाना खाने से बचो।
774. Walk after every meal. — हर खाने के बाद टहलो।
775. Reduce your caffeine intake. — कैफ़ीन का सेवन कम करो।
776. Spend time outdoors every day. — हर दिन बाहर समय बिताओ।
777. Connect with nature for peace of mind. — मन की शांति के लिए प्रकृति से जुड़ो।
778. Talk to a friend when you feel low. — जब मन उदास हो तो कसी दोस्त से बात करो।
779. Laugh every day for good health. — अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर दिन हँसो।
780. Self-care is not selfish. — खुद का खयाल रखना स्वार्थ नहीं है।
-

National Pride & Culture — राष्ट्रीय गर्व और संस्कृति

781. India is a land of diversity. — भारत व वधताओं की भूमि है।
782. Our national language is Hindi. — हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है।
783. The Taj Mahal is a wonder of the world. — ताजमहल दुनिया का अजूबा है।
784. We are proud of our rich history. — हमें अपने समृद्ध इतिहास पर गर्व है।
785. Unity in diversity is our strength. — व वधता में एकता हमारी शक्ति है।
786. Our soldiers protect the nation. — हमारे सैनिक राष्ट्र की रक्षा करते हैं।
787. The national flag represents our pride. — राष्ट्रीय ध्वज हमारे गर्व का प्रतीक है।
788. Republic Day is celebrated on January 26th. — गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है।
789. Independence Day fills us with patriotism. — स्वतंत्रता दिवस हममें देशभक्ति भरता है।

790. We should respect our constitution. — हमें अपने संवधान का सम्मान करना चाहिए।

Weather Conversation Continuation —

मौसम की बातें जारी

791. Carry a raincoat just in case. — सावधानी के लिए रेनकोट साथ रखो।

792. The humidity makes it feel much hotter. — उमस से गर्मी और ज़्यादा लगती है।

793. It snowed heavily in the mountains. — पहाड़ों में बहुत बर्फ़बारी हुई।

794. Wear warm clothes in this cold. — इस ठंड में गर्म कपड़े पहनो।

795. The roads are slippery after rain. — बारिश के बाद सड़कें फसलन भरी हैं।

Giving Instructions — निर्देश देना

796. Follow the instructions carefully. — निर्देशों का ध्यान से पालन करो।

797. Read the manual before using. — उपयोग से पहले मैनुअल पढो।
798. Fill in all the required fields. — सभी ज़रूरी स्थान भरो।
799. Press the button on the left. — बाईं ओर का बटन दबाओ।
800. Wait for the confirmation message. — पुष्टि संदेश का इंतज़ार करो।
801. Click on the submit button. — सब मट बटन पर क्लिक करो।
802. Enter your date of birth. — अपनी जन्मति थ दर्ज करो।
803. Select the correct option. — सही विकल्प चुनो।
804. Sign at the bottom of the page. — पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर करो।
805. Attach the required documents. — ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करो।

Curiosity & Wonder — जिज्ञासा और वस्मय

806. How does this work? — यह कैसे काम करता है?

807. Why is the sky blue? — आकाश नीला क्यों है?
808. What makes a rainbow form? — इंद्रधनुष कैसे बनता है?
809. I wonder what lies beyond the stars. — मैं सोचता हूँ तारों के परे क्या है।
810. Isn't it amazing how nature works? — क्या यह अद्भुत नहीं क प्रकृति कैसे काम करती है?
811. I find history very fascinating. — मुझे इतिहास बहुत रोचक लगता है।
812. Why do we dream when we sleep? — सोते समय हम सपने क्यों देखते हैं?
813. How deep is the ocean? — समुद्र कतना गहरा है?
814. What is the universe made of? — ब्रह्मांड कससे बना है?
815. I love learning about ancient civilizations. — मुझे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानना बहुत पसंद है।

Congratulations & Milestones — बधाई और उपलब्धियाँ

816. Congratulations on your graduation! — स्नातक पर बधाई!
817. You've done something truly remarkable. — आपने वाकई कुछ उल्लेखनीय किया है।
818. I'm so proud of how far you've come. — आप कतनी दूर आए हैं इस पर मुझे गर्व है।
819. This is just the beginning for you. — यह तो आपके लिए बस शुरुआत है।
820. Your hard work has finally paid off. — आपकी मेहनत आखरकार रंग लाई।
821. You deserved this more than anyone. — आप इसके सबसे ज्यादा हकदार थे।
822. May you achieve even greater things ahead. — आगे आप और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करें।
823. The team is proud of what you've accomplished. — टीम को आपकी उपलब्धि पर गर्व है।
824. Your dedication is truly inspiring. — आपकी लगन वाकई प्रेरणादायक है।
825. Three cheers for the winner! — विजेता के लिए तीन जयकार!

Household Shopping — घरेलू खरीदारी

826. We've run out of cooking oil. — खाना पकाने का तेल खत्म हो गया है।
827. Get a big bag of rice. — चावल का बड़ा थैला लाओ।
828. Buy fresh vegetables from the market. — बाज़ार से ताज़ी सब्ज़ियाँ लाओ।
829. We need a new mop for the floor. — फ़र्श के लिए नया पोंछा चाहिए।
830. Get some washing powder. — कुछ वॉशिंग पाउडर लाओ।
831. Buy a new toothbrush. — नया टूथब्रश खरीदो।
832. We need a fresh bar of soap. — नई साबुन की बट्टी चाहिए।
833. Don't forget the matchboxes. — मा चस लाना मत भूलना।
834. Pick up two litres of milk. — दो लीटर दूध लाओ।
835. Get some fresh fruit for the kids. — बच्चों के लिए ताज़े फल लाओ।

836. Spring is the season of flowers. — बसंत फूलों का मौसम है।
837. Summer is very harsh this year. — इस साल गर्मी बहुत कठोर है।
838. Monsoon brings relief from the heat. — मानसून गर्मी से राहत दिलाता है।
839. Autumn is beautiful with golden leaves. — सुनहरी पत्तियों से शरद ऋतु सुंदर होती है।
840. Winter nights are very long. — सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं।
841. The fragrance of soil after rain is lovely. — बारिश के बाद मट्टी की खुशबू बहुत अच्छी होती है।
842. The hills look misty in winter. — सर्दियों में पहाड़ियाँ धुंधली दिखती हैं।
843. The river overflowed this monsoon. — इस मानसून नदी ने तट तोड़ दिए।
844. Migratory birds arrived last week. — प्रवासी पक्षी पछले हफ्ते आए।
845. The fields are green after the rain. — बारिश के बाद खेत हरे-भरे हैं।
-

Parenting — माता- पता बनना

846. Children learn what they see at home. — बच्चे घर में जो देखते हैं वही सीखते हैं।
847. Spend quality time with your children. — बच्चों के साथ अच्छा समय बिताओ।
848. Listen to what your child is saying. — अपने बच्चे की बात सुनो।
849. Praise your child's efforts, not just results. — बच्चे के प्रयास की तारीफ करो, सर्फ नतीजों की नहीं।
850. Teach children the value of money. — बच्चों को पैसे की कीमत सखाओ।
851. Let children make some decisions themselves. — बच्चों को कुछ फैसले खुद लेने दो।
852. Don't compare siblings with each other. — भाई-बहनों की आपस में तुलना मत करो।
853. Encourage creativity in children. — बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा दो।
854. Read stories to children every night. — हर रात बच्चों को कहानियाँ पढो।
855. Children need love more than anything. — बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है।

Expressing Preferences — पसंद बताना

856. I prefer tea over coffee. — मुझे कॉफी से ज़्यादा चाय पसंद है।
857. I'd rather stay home today. — मैं आज घर पर रहना पसंद करूँगा।
858. I like mornings better than evenings. — मुझे शाम से ज़्यादा सुबह पसंद है।
859. I enjoy silence while working. — काम करते समय मुझे शांति पसंद है।
860. I prefer walking to driving short distances. — छोटी दूरी के लिए मैं गाड़ी की जगह पैदल चलना पसंद करता हूँ।
861. I like things to be organized. — मुझे चीज़ें व्यवस्थित रखना पसंद है।
862. I'd prefer a window seat. — मैं खड़की के पास वाली सीट पसंद करूँगा।
863. I like sweet things more than savoury. — मुझे नमकीन से ज़्यादा मीठा पसंद है।
864. I find nature more relaxing than cities. — मुझे शहर से ज़्यादा प्रकृति आरामदायक लगती है।

865. I'd choose experience over things any day. — मैं हमेशा वस्तुओं की जगह अनुभव चुनूँगा।

Describing Objects — वस्तुओं का वर्णन

866. This chair is very comfortable. — यह कुर्सी बहुत आरामदायक है।

867. The bag is made of genuine leather. — बैग असली चमड़े का बना है।

868. This pen writes very smoothly. — यह पेन बहुत अच्छे से लिखता है।

869. The lamp gives a warm light. — लैंप गर्म रोशनी देता है।

870. This table is very sturdy. — यह मेज़ बहुत मज़बूत है।

871. The frame is cracked. — फ्रेम में दरार आ गई है।

872. The lid doesn't fit properly. — ढक्कन ठीक से नहीं लगता।

873. The clock has stopped working. — घड़ी काम करना बंद हो गई है।

874. The screen has a scratch on it. — स्क्रीन पर एक खरोंच है।

875. This knife is very sharp. — यह चाकू बहुत तेज़ है।

Dreams & Aspirations — सपने और इच्छाएँ

876. I dream of starting my own business. — मैं अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता हूँ।

877. I want to travel the whole world. — मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ।

878. My goal is to make my parents proud. — मेरा लक्ष्य माता-पिता को गर्वित करना है।

879. I hope to write a book someday. — मुझे उम्मीद है कि एक दिन किताब लिखूँगा।

880. I want to make a difference in the world. — मैं दुनिया में बदलाव लाना चाहता हूँ।

881. She dreams of becoming a great scientist. — वह एक महान वैज्ञानिक बनने का सपना देखती है।

882. I aspire to be financially independent. — मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ।

883. He wants to build a school in his village. — वह अपने गाँव में एक स्कूल बनाना चाहता है।
884. I'd love to learn to play the piano. — मैं पयानो बजाना सीखना चाहूँगा।
885. Dreaming big is the first step to achieving. — बड़े सपने देखना सफलता का पहला कदम है।

Random Useful Sentences — उपयोगी व वध वाक्य

886. Could you write that down for me? — क्या आप वह मेरे लए लख देंगे?
887. I'll confirm once I check. — जाँचने के बाद पुष्टि करूँगा।
888. Let me double-check this. — मुझे इसे दोबारा जाँचने दो।
889. I think there's been a misunderstanding. — मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है।
890. Let me explain it differently. — मैं इसे अलग तरह से समझाता हूँ।
891. Can we start from the beginning? — क्या हम शुरू से शुरू कर सकते हैं?

892. Give me a moment to think. — मुझे सोचने का एक पल दो।
893. That's a very tough question. — यह बहुत कठिन सवाल है।
894. I don't have a definite answer yet. — मेरे पास अभी कोई निश्चित जवाब नहीं है।
895. Let's take this one step at a time. — एक-एक कदम करके आगे बढ़ते हैं।

More Daily Conversations — अ धक दैनिक बातचीत

896. What's for dinner tonight? — आज रात के खाने में क्या है?
897. Shall we watch a movie tonight? — क्या आज रात फ़िल्म देखें?
898. Which channel should we watch? — हम कौनसा चैनल देखें?
899. The internet is too slow for streaming. — स्ट्री मिंग के लिए इंटरनेट बहुत धीमा है।

900. Can you lower the volume? — क्या आप आवाज़ कम कर सकते हैं?
901. This show is very boring. — यह शो बहुत उबाऊ है।
902. This movie got very good reviews. — इस फ़िल्म को बहुत अच्छी समीक्षाएँ मलीं।
903. Let's plan a movie night this Friday. — इस शुक्रवार मूवी नाइट की योजना बनाते हैं।
904. I fell asleep in the middle of the film. — फ़िल्म के बीच में मुझे नींद आ गई।
905. The ending was completely unexpected. — अंत पूरी तरह से अप्रत्याशित था।

Saying Goodbye — वदाई

906. It was really great meeting you today. — आज आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा।
907. I'll miss you when you're gone. — जब आप चले जाएँगे तो मुझे आपकी याद आएगी।
908. Travel safe and stay in touch. — सुरक्षित यात्रा करो और संपर्क में रहो।

909. We'll meet again very soon. — हम जल्द ही फर
मलेंगे।
910. It was a pleasure spending time with you. —
आपके साथ समय बिताना बहुत सुखद था।
911. Wishing you all the best for the future. — आपके
भ वष्य के लए शुभकामनाएँ।
912. Don't be a stranger. — दूरी मत बनाओ।
913. Come back soon. — जल्दी वापस आओ।
914. We'll always remember this time together. — हम
हमेशा इस साथ बिताए समय को याद करेंगे।
915. Until we meet again, take care. — जब तक
दोबारा मलें, अपना खयाल रखो।

Civic Responsibility — नागरिक जिम्मेदारी

916. Vote in every election. — हर चुनाव में मतदान
करो।
917. Don't litter in public places. — सार्वजनिक स्थानों
पर कूड़ा मत फेंको।
918. Respect public property. — सार्वजनिक संपत्त का
सम्मान करो।

919. Stand in the queue properly. — कतार में सही से खड़े रहो।
920. Help elderly people cross the road. — बुजुर्गों को सड़क पार करने में मदद करो।
921. Be a responsible citizen. — एक जिम्मेदार नागरिक बनो।
922. Spread awareness, not rumors. — अफ़वाहें नहीं, जागरूकता फैलाओ।
923. Follow all COVID and health guidelines. — सभी स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करो।
924. Participate in community development. — सामुदायिक विकास में भाग लो।
925. Keep public toilets clean. — सार्वजनिक शौचालयों को साफ़ रखो।

More Motivational Sentences — अ धक

प्रेरणादायक वाक्य

926. Your best is always good enough. — आपका सर्वश्रेष्ठ हमेशा काफी होता है।
927. Progress, not perfection, is the goal. — लक्ष्य पूर्णता नहीं, प्रगति है।

928. Keep pushing, you're almost there. — लगे रहो,
आप लगभग पहुँच गए हो।
929. The hardest battles make the strongest warriors.
— सबसे कठिन लड़ाइयाँ सबसे मज़बूत योद्धा बनाती
हैं।
930. One day you'll look back and smile. — एक दिन
आप पीछे मुड़कर मुस्कुराएँगे।
931. You are capable of more than you know. — आप
जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कर सकते हैं।
932. Don't let fear stop you. — डर को आपको रोकने
मत दो।
933. The world needs what you have to offer. —
दुनिया को आपसे कुछ मलने वाला है।
934. Your story isn't over yet. — आपकी कहानी अभी
खत्म नहीं हुई।
935. Rise every time you fall. — हर बार जब गरो,
उठ जाओ।

Final Set of Unique Sentences — अंतिम अनोखे

वाक्य

936. The library closes at eight tonight. — पुस्तकालय आज रात आठ बजे बंद होगी।
937. Kindness costs nothing but means everything. — दयालुता में कोई कीमत नहीं, पर यह सब कुछ मायने रखती है।
938. She finished the marathon despite the pain. — दर्द के बावजूद उसने मैराथन पूरी की।
939. The teacher inspired generations of students. — शिक्षक ने छात्रों की पीढ़ियों को प्रेरित किया।
940. We should help those less fortunate. — हमें कम भाग्यशाली लोगों की मदद करनी चाहिए।
941. Little acts of kindness go a long way. — दयालुता के छोटे कार्य बहुत काम आते हैं।
942. The pen is mightier than the sword. — कलम तलवार से ताकतवर होती है।
943. A picture is worth a thousand words. — एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है।
944. Time once gone never comes back. — गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
945. Respect is earned, not demanded. — सम्मान माँगा नहीं जाता, कमाया जाता है।

946. Never judge a book by its cover. — कसी को ऊपरी रूप से मत आँको।
947. A stitch in time saves nine. — समय पर कया काम बड़ा काम बचाता है।
948. Honesty is the best policy. — ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
949. Where there is a will, there is a way. — जहाँ चाह वहाँ रह।
950. All that glitters is not gold. — जो चमकता है वह सोना नहीं होता।
951. An empty vessel makes the most noise. — खाली बर्तन सबसे ज़्यादा शोर करता है।
952. United we stand, divided we fall. — एकता में बल है, बिखरने में पतन।
953. The early bird catches the worm. — जो जल्दी उठता है, वह सफल होता है।
954. Too many cooks spoil the broth. — ज़्यादा राय से काम बिगड़ता है।
955. Blood is thicker than water. — खून पानी से गाढ़ा होता है।

956. Every cloud has a silver lining. — हर मुश्किल में उम्मीद की करण होती है।
957. Look before you leap. — करने से पहले सोच लो।
958. Don't count your chickens before they hatch. — मुर्गी के अंडे सेने से पहले हिसाब मत लगाओ।
959. Necessity is the mother of invention. — आवश्यकता आ वष्कार की जननी है।
960. Actions have consequences. — कर्मों के परिणाम होते हैं।
961. Charity begins at home. — परोपकार की शुरुआत घर से होती है।
962. Fortune favors the brave. — भाग्य साहसी का साथ देता है।
963. Old habits die hard. — पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटतीं।
964. You reap what you sow. — जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
965. There is no shortcut to success. — सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं।
966. Health is wealth. — स्वास्थ्य ही संपत्ति है।
967. Time is money. — समय ही धन है।

968. No pain, no gain. — बिना मेहनत के फल नहीं मलता।
969. Better late than never. — देर से आना न आने से बेहतर है।
970. Knowledge is the greatest wealth. — ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है।
971. A friend in need is a friend indeed. — मुश्किल में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त है।
972. The journey of a thousand miles begins with one step. — हजार मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है।
973. You cannot please everyone. — आप सभी को खुश नहीं कर सकते।
974. What you resist persists. — जिससे भागते हो वह पीछा करता है।
975. Where focus goes, energy flows. — जहाँ ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा जाती है।
976. The present moment is a gift. — वर्तमान पल एक उपहार है।
977. Gratitude turns what you have into enough. — कृतज्ञता जो है उसे पर्याप्त बना देती है।

978. Silence is sometimes the best answer. — कभी-कभी चुप्पी सबसे अच्छा जवाब होता है।
979. Your words have power. — आपके शब्दों में शक्ति है।
980. Choose kindness always. — हमेशा दयालुता चुनो।
981. A smile can change someone's day. — एक मुस्कान कसी का दिन बदल सकती है।
982. The world becomes better with every good deed. — हर अच्छे काम से दुनिया बेहतर होती है।
983. Don't wait for permission to be great. — महान बनने के लिए कसी की अनुमति का इंतज़ार मत करो।
984. Teach what you know. — जो जानते हो वह सखाओ।
985. Help someone today without reason. — बिना वजह आज कसी की मदद करो।
986. Leave every place better than you found it. — जहाँ जाओ वहाँ से बेहतर छोड़ कर आओ।
987. Your energy affects everyone around you. — आपकी ऊर्जा आपके आसपास के सभी को प्रभावित करती है।

988. Live fully, love deeply, laugh freely. — पूरी तरह जियो, गहराई से प्यार करो, खुलकर हँसो।
989. Life is too short for regrets. — जीवन पछतावे के लिए बहुत छोटा है।
990. Make memories, not just moments. — पल नहीं, यादें बनाओ।
991. The best investment is in yourself. — सबसे अच्छा निवेश खुद में है।
992. Keep your promises. — अपने वादे निभाओ।
993. Do what you love, love what you do. — जो पसंद हो वह करो, जो करो उसे पसंद करो।
994. Be the reason someone smiles today. — आज कसी की मुस्कान का कारण बनो।
995. Count your blessings every day. — हर दिन अपनी नेमतें गनो।
996. Kindness is a language everyone understands. — दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे सब समझते हैं।
997. The greatest glory is in rising every time we fall. — सबसे बड़ी महिमा हर बार गिरकर उठने में है।
998. You are enough just as you are. — आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं।

999. Live today like it's the best day of your life. —
आज इस तरह जियो जैसे यह आपके जीवन का सबसे
अच्छा दिन है।

1000. Every morning is a chance to begin again. — हर
सुबह एक बार फर शुरू करने का मौका है।

Famous Hindi Movie Dialogue Style — मशहूर

हिंदी फ़िल्मी अंदाज़

1. Don't be afraid of the world, make the world afraid of you. — दुनिया से मत डरो, दुनिया को डराओ।
2. Whoever has met fate has always lost, I make my own destiny. — जो क़स्मत से मला है उसने हमेशा हारा है, मैं अपनी तक्दीर खुद बनाता हूँ।
3. The one who falls and rises again is the real winner. — जो ग़रता है और फ़र उठता है, वही असली वजेता है।
4. Don't underestimate me — even the smallest spark can burn an empire. — मुझे हल्का मत समझो — एक छोटी सी चंगारी भी साम्राज्य जला सकती है।
5. Some stories don't need an ending, they just need to be felt. — कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होतीं, बस महसूस की जाती हैं।

6. I didn't come this far to only come this far. — मैं इतनी दूर इस लिए नहीं आया क बस यहीं रुक जाऊँ।
7. Love isn't blind — it just chooses to see differently. — प्यार अंधा नहीं होता — वह बस अलग नज़रिए से देखता है।
8. The distance between a dream and reality is called action. — सपने और हकीकत के बीच की दूरी को कहते हैं — कर्म।
9. People may leave, but the memories they gave never do. — लोग चले जाते हैं, ले कन उनकी दी हुई यादें कभी नहीं जातीं।
10. What others call impossible is just my starting point. — जिसे लोग नामुम कन कहते हैं, वह मेरी शुरुआत है।
11. If you have fire in your eyes, no darkness can stop you. — अगर आँखों में आग है, तो कोई अंधेरा नहीं रोक सकता।
12. Time changes everything except the truth. — वक्त सब कुछ बदल देता है, सवाय सच के।
13. A person who fears losing has already lost. — जो हारने से डरता है, वह पहले ही हार चुका है।

14. My silence is not my weakness — it is my patience. — मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं — मेरा धैर्य है।
15. Every scar on my body tells a story of survival. — मेरे हर जखम में जीने की एक कहानी है।
16. Real strength is not in the fist — it is in the heart. — असली ताकत मुट्ठी में नहीं — दिल में होती है।
17. When the whole world closes its doors, a mother's arms are always open. — जब पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, माँ की बाहें हमेशा खुली रहती हैं।
18. The game isn't over until I decide it's over. — खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं यह न तय करूँ।
19. I have never needed luck — I carry my own light. — मुझे कभी कस्मत की ज़रूरत नहीं रही — मेरे पास अपनी रोशनी है।
20. You called me worthless — watch me build an empire. — तुमने मुझे बेकार कहा था — देखो मैं साम्राज्य बना रहा हूँ।
21. Friendships forged in hard times last a lifetime. — मुश्किल वक्त में बनी दोस्ती उम्रभर टिकती है।

22. Money comes and goes, but character defines forever. — पैसा आता-जाता है, पर करदार हमेशा के लिए होता है।
23. I was broken, but I never begged. — मैं टूटा था, लेकिन कभी गड़ गड़ाया नहीं।
24. My story begins where yours ended. — मेरी कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ तुम्हारी खत्म हुई।
25. Heroes aren't born — they are built in the furnace of struggle. — नायक पैदा नहीं होते — वे संघर्ष की आग में बनते हैं।
26. The richest man is one who needs nothing. — सबसे अमीर वह है जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं।
27. She walked into the room and changed the gravity. — वह कमरे में आई और माहौल बदल गया।
28. I fought alone, and I won alone — that's the beauty of my story. — मैं अकेले लड़ा, अकेले जीता — यही मेरी कहानी की खूबसूरती है।
29. Not every wound bleeds — some just ache inside. — हर ज़ख्म से खून नहीं बहता — कुछ सिर्फ अंदर से दर्द करते हैं।
30. Those who laughed at my beginning will applaud my ending. — जो मेरी शुरुआत पर हँसे, वे मेरे अंजाम पर ताली बजाएँगे।

Roadside & Street Conversations — सड़क

कनारे और गली की बातें

31. Hey, watch where you're going! — अरे, देखकर चलो!
32. Excuse me, can you move your vehicle? — माफ़ कीजिए, अपनी गाड़ी हटाएँगे?
33. The road is jammed from that side. — उस तरफ से रास्ता बंद है।
34. Don't honk so much, it's not helping. — इतना हॉर्न मत बजाओ, कोई फ़ायदा नहीं।
35. Take the inner lane, the outer one is broken. — अंदर वाली लेन लो, बाहर वाली टूटी है।
36. Bhai, how far is the chowk from here? — भाई, यहाँ से चौक कतनी दूर है?
37. There's a pothole right ahead, slow down. — आगे गड़ढा है, धीरे चलो।
38. The street vendors are blocking the path. — रेहड़ी वाले रास्ता रोक रहे हैं।
39. It's peak hour, every road will be packed. — यह पीक टाइम है, हर सड़क भरी होगी।

40. Turn off the high beam, it's blinding everyone. —
हाई बीम बंद करो, सबको परेशानी हो रही है।
41. This footpath is dug up again. — यह फुटपाथ
फर से खोदा हुआ है।
42. Walk on the left side of the road. — सड़क के बाईं
तरफ चलो।
43. Don't cross here, use the zebra crossing. — यहाँ
मत पार करो, जेब्रा क्रॉसिंग से जाओ।
44. There's a policeman up ahead at the signal. —
आगे सिग्नल पर पुलिसवाला है।
45. These speed breakers are way too high. — ये
स्पीड ब्रेकर बहुत ऊँचे हैं।
46. Someone's tyre burst in the middle of the road. —
कसी का टायर सड़क के बीच में फट गया।
47. There's water logging after the flyover. —
फ्लाईओवर के बाद पानी भरा है।
48. Push the cart to the side, don't block traffic. —
ठेले को कनारे करो, ट्रैफिक मत रोको।
49. The road is under repair, take the diversion. —
सड़क मरम्मत में है, डायवर्जन लो।
40. It's a one-way street, you can't go that side. — यह
वन-वे गली है, उस तरफ नहीं जा सकते।
-

Market & Vendor Talk — बाज़ार और दुकानदार की बातें

51. Bhaiya, what's the rate for tomatoes today? —
भैया, आज टमाटर का भाव क्या है?
52. Give me two kilos, but only the fresh ones. — दो
किलो दो, ले कन सर्फ ताज़े वाले।
53. These are a bit overripe, do you have better ones?
— ये थोड़े ज़्यादा पके हैं, अच्छे वाले हैं?
54. Don't mix the old stock with the new. — पुराना
माल नए में मत मलाओ।
55. Give me a bit extra, I'm a regular customer. —
थोड़ा ज़्यादा दो, मैं रोज़ का ग्राहक हूँ।
56. Last time the onions were half rotten. — पछली
बार प्याज़ आधे सड़े हुए थे।
57. What's the rate for a dozen bananas? — एक
दर्जन केले का क्या रेट है?
58. I'll take mangoes only if they're sweet. — आम
तभी लूँगा जब मीठे हों।
59. Measure it properly, don't cheat on the weight. —
ठीक से तोलो, वज़न में कमी मत करो।
60. Give me change, I don't have small notes. —
छुट्टे दो, मेरे पास छोटे नोट नहीं।

61. Do you have a polythene bag? — क्या पॉलीथीन बैग है?
62. Add a little coriander on top, free of charge. — ऊपर से थोड़ा धनिया डालो, मुफ्त में।
63. Is the fish fresh or from yesterday? — मछली ताज़ी है या कल की?
64. The price has jumped again this week. — इस हफ़्ते फर से भाव बढ़ गया।
65. Sell me at wholesale rate, I buy in bulk. — थोक रेट पर दो, मैं एक साथ ज़्यादा लेता हूँ।
66. Do you home deliver? — क्या घर पर डलीवरी होती है?
67. I'll come back tomorrow for potatoes. — आलू के लिए कल आऊँगा।
68. Your shop is closed on Sundays? — आपकी दुकान र ववार को बंद रहती है?
69. Give me the bill, I need it for accounts. — बिल दो, मुझे हिसाब में चाहिए।
70. Everything has become expensive these days. — आजकल सब कुछ महँगा हो गया है।
-

Auto & Taxi Conversations — ऑटो और टैक्सी की बातें

71. Will you go to Civil Lines? — क्या आप स वल लाइंस चलेंगे?
72. How much for Sector 12? — सेक्टर 12 तक कतना लोके?
73. Don't overcharge, I know the rate. — ज़्यादा मत माँगे, मुझे रेट पता है।
74. Run the meter please, I don't want to bargain. — मीटर चलाओ, मैं मोलभाव नहीं करना चाहता।
75. Can you go a bit faster? I'm running late. — थोड़ा तेज़ जाओगे? मुझे देरी हो रही है।
76. Drop me just before the signal, not after. — सग्नल से पहले उतारना, बाद में नहीं।
77. Do you know the shortcut through Purani Basti? — पुरानी बस्ती से शॉर्टकट जानते हो?
78. This route has too much traffic, try another. — इस रास्ते पर बहुत ट्रैफ़िक है, दूसरा रास्ता लो।
79. I'll share the auto if the rate is right. — रेट सही हो तो ऑटो शेयर करूँगा।
80. Stop here, I'll walk the rest. — यहीं रोको, बाकी पैदल जाऊँगा।

81. My bag is in the back, wait before you leave. — मेरा बैग पीछे है, जाने से पहले रुको।
82. Please drive slowly, the road is broken. — धीरे चलाओ, सड़क टूटी हुई है।
83. The AC isn't working in this cab. — इस कैब में AC काम नहीं कर रहा।
84. Can you cancel and rebook? The route is wrong. — क्या रद्द करके फर बुक करोगे? रूट ग़लत है।
85. I already paid through the app. — मैंने ऐप से पहले ही भुगतान कर दिया।
86. Give me the receipt, I need it for reimbursement. — रसीद दो, मुझे रिइम्बर्समेंट के लिए चाहिए।
87. Don't go through the toll, I'll pay extra. — टोल से मत जाओ, मैं अलग से दूँगा।
88. I'm getting a call, just a minute. — फ़ोन आ रहा है, एक मिनट।
89. Is parking allowed at the destination? — मंजिल पर पार्किंग है?
90. Drop me at the main gate, not the side entrance. — मुख्य गेट पर उतारो, साइड एंट्रेंस पर नहीं।
-

Train Station & Bus Stand — रेलवे स्टेशन और बस

अड्डा

91. Which platform does the Rajdhani leave from?
— राजधानी कस प्लेटफॉर्म से जाती है?
92. Has the train already departed? — क्या ट्रेन जा चुकी है?
93. I need a waitlist ticket, can I board? — मेरे पास वेट लस्ट टिकट है, चढ़ सकता हूँ?
94. The coach number is written on the chart. — डब्बे का नंबर चार्ट पर लिखा है।
95. Keep your luggage under the seat. — सामान सीट के नीचे रखो।
96. Don't lean out of the window. — खड़की से बाहर मत झुको।
97. The pantry car is four coaches ahead. — पैंट्री कार चार डब्बे आगे है।
98. How many stops until Lucknow? — लखनऊ तक कतने स्टॉप हैं?
99. Wake me up when we reach Allahabad. — जब इलाहाबाद आए तब उठाना।

100. The train is running two hours behind schedule. — ट्रेन दो घंटे लेट चल रही है।
101. There's a long queue at the ticket counter. — टिकट काउंटर पर लंबी लाइन है।
102. Book online next time, it's much easier. — अगली बार ऑनलाइन बुक करो, बहुत आसान है।
103. The bus to Agra leaves every half hour. — आगरा की बस हर आधे घंटे में जाती है।
104. Hold the railing, the bus brakes suddenly. — रे लंग पकड़ो, बस अचानक ब्रेक लगाती है।
105. Give up your seat for the elderly passenger. — बुजुर्ग यात्री के लिए अपनी सीट छोड़ो।
106. The cloak room is near the waiting area. — क्लोक रूम प्रतीक्षा क्षेत्र के पास है।
107. Don't miss the announcement on the speaker. — स्पीकर पर होने वाली घोषणा मत छोड़ो।
108. The general compartment is too crowded. — जनरल डब्बा बहुत भीड़भाड़ वाला है।
109. Get a coolie to help with the heavy luggage. — भारी सामान के लिए कुली लो।
110. Where is the prepaid taxi booth? — प्रीपेड टैक्सी बूथ कहाँ है?
-

Chai Stall & Dhaba Conversations — चाय की दुकान और ढाबे की बातें

111. Bhaiya, one cutting chai, less sugar. — भैया, एक कटिंग चाय, कम चीनी।
112. Make it strong, I'm feeling very sleepy. — कड़क बनाओ, बहुत नींद आ रही है।
113. Give me two biscuits with the tea. — चाय के साथ दो बिस्कुट दो।
114. Is the paratha made with pure ghee? — पराठा शुद्ध घी का बना है?
115. Pack four parathas for the road. — रास्ते के लिए चार पराठे बाँध दो।
116. What curry do you have today? — आज कौनसी सब्जी है?
117. Give me an extra serving of dal. — दाल की एक स र्वग और दो।
118. The lassi here is absolutely brilliant. — यहाँ की लस्सी बेहद लाजवाब है।
119. How much for one full plate? — एक फुल थाली कतने की है?

120. The roti is soft, just how I like it. — रोटी नर्म है,
जैसी मुझे पसंद है।
121. Add more achaar on the side. — बगल में और
अचार डालो।
122. Bring water too, the food is spicy. — पानी भी
लाओ, खाना तीखा है।
123. This dhaba serves the best chicken in town. —
इस ढाबे का चकन शहर में सबसे अच्छा है।
124. The maggi here has a special masala. — यहाँ की
मैगी में खास मसाला पड़ता है।
125. Don't forget the green chutney. — हरी चटनी मत
भूलना।
126. Bhaiya, the bill please, we're getting late. — भैया,
बिल लाओ, देर हो रही है।
127. Keep the change. — बाकी रख लो।
128. Your chai is famous in the whole area. — आपकी
चाय पूरे इलाके में मशहूर है।
129. We'll come back again for sure. — हम ज़रूर
दोबारा आएँगे।
130. How long have you been running this dhaba? —
आप यह ढाबा कब से चला रहे हैं?

Movie Dialogue Inspired Wisdom — फ़िल्मी

अंदाज़ से प्रेरित ज्ञान

131. You might break my bones, but you'll never break my spirit. — हड़ डयाँ तोड़ सकते हो, हौसला नहीं।
132. A tiger never announces its arrival. — शेर आने से पहले आवाज़ नहीं लगाता।
133. I don't follow the rules, I make them. — मैं नियमों को नहीं मानता, मैं बनाता हूँ।
134. When life pushes you down, push back harder. — जब जिंदगी गराए, उससे ज़्यादा जोर से उठो।
135. Some people are born in storms to become the calm others need. — कुछ लोग तूफ़ान में पैदा होते हैं ता क दूसरों को शांति दे सकें।
136. The ones who betray you teach you the most valuable lesson — self-reliance. — जो धोखा देते हैं, वे सबसे बड़ा सबक सखाते हैं — खुद पर भरोसा।
137. My roots are humble but my ambitions touch the sky. — मेरी जड़ें साधारण हैं पर मेरे इरादे आसमान छूते हैं।

138. Call me what you want — my actions will speak for themselves. — जो चाहो कहो — मेरे काम खुद बोलेंगे।
139. Even broken clocks are right twice a day. — टूटी घड़ी भी दिन में दो बार सही होती है।
140. Life gave me thorns — I learned to walk on them without bleeding. — जिंदगी ने काँटे दिए — मैंने बिना खून बहाए उन पर चलना सीखा।
141. They said I had nothing. I said watch me build everything. — उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कहा — देखते रहो।
142. My father's sacrifice is the foundation of my success. — मेरे पता की कुर्बानी मेरी सफलता की नींव है।
143. I have been hungry before — now I am unstoppable. — मैं पहले भूखा रहा हूँ — अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
144. A wound heals but a warrior never forgets the battle. — जख्म भर जाता है पर योद्धा लड़ाई नहीं भूलता।
145. The biggest revenge is becoming the person they never thought you'd be. — सबसे बड़ा बदला यह है क वह बन जाओ जो उन्होंने सोचा नहीं था।

146. Not all storms come to destroy you — some come to clear your path. — सभी तूफान तबाही के लए नहीं आते — कुछ रास्ता साफ़ करने आते हैं।
147. You gave up on me — that was your biggest mistake. — तुमने मुझ पर भरोसा छोड़ा — यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी।
148. I never asked for applause — I only asked for a chance. — मैंने कभी ता लयाँ नहीं माँगीं — बस एक मौका माँगा था।
149. The world bows to those who refuse to bow to the world. — दुनिया उनके सामने झुकती है जो दुनिया के सामने झुकने से इनकार करते हैं।
150. My enemies sharpened me better than any friend ever could. — मेरे दुश्मनों ने मुझे कसी भी दोस्त से ज्यादा तेज़ किया।

Expert Level English Sentences — विशेषज्ञ स्तर के वाक्य

151. His demeanour exuded quiet confidence. — उसके व्यवहार में शांत आत्म विश्वास झलकता था।
152. The situation is far more nuanced than it appears. — स्थिति उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है।

153. She articulated her thoughts with remarkable clarity. — उसने अपने वचार बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किए।
154. His argument was compelling but flawed in execution. — उसका तर्क ज़बरदस्त था पर अमल में कमज़ोर।
155. The proposal requires further deliberation. — प्रस्ताव पर और वचार-वमर्श की ज़रूरत है।
156. She navigated the crisis with admirable composure. — उसने संकट को प्रशंसनीय संयम के साथ सँभाला।
157. This is an unprecedented development in the sector. — यह क्षेत्र में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम है।
158. The evidence is circumstantial at best. — सबूत ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितिजन्य हैं।
159. His conduct was deemed unprofessional by the committee. — स मति ने उसके आचरण को अव्यावसायिक माना।
160. The implications of this decision are far-reaching. — इस निर्णय के परिणाम दूरगामी हैं।
161. We need to reconcile the discrepancy in the accounts. — हमें खातों में असंगति को दूर करना होगा।

162. The methodology needs to be more rigorous. —
पद्धति को और अधिक कठोर होना चाहिए।
163. She challenged the prevailing narrative with hard data. — उसने ठोस डेटा से प्रचलित वर्णन को चुनौती दी।
164. The policy has been met with widespread opposition. — नीति को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा है।
165. Let's not conflate correlation with causation. — सहसंबंध और कारण को आपस में मत मिलाएँ।
166. This clause in the agreement is ambiguous and needs revision. — समझौते की यह धारा अस्पष्ट है और संशोधन माँगती है।
167. The delegation reached a consensus after hours of negotiation. — घंटों की वार्ता के बाद प्रतिनिधि मंडल सहमति पर पहुँचा।
168. His resilience in adversity earned him universal respect. — कष्ट में उसकी दृढ़ता ने उसे सर्वत्र सम्मान दिलाया।
169. The quarterly projections are optimistic but ambitious. — तिमाही अनुमान आशावादी पर महत्वाकांक्षी हैं।

170. The audit revealed several anomalies in the financial records. — ऑडिट में वृत्तीय अ भलेखों में कई वसंगतियाँ मलीं।

Neighbourhood & Colony Talk — मोहल्ले और कॉलोनी की बातें

171. The garbage truck hasn't come in three days. — तीन दिनों से कूड़े की गाड़ी नहीं आई।

172. Someone's dog keeps barking all night. — कसी का कुत्ता रात भर भौंकता रहता है।

173. The streetlight outside is broken since Monday. — सोमवार से बाहर की स्ट्रीट लाइट टूटी है।

174. Our water supply comes only for an hour in the morning. — हमारे यहाँ सुबह सर्फ़ एक घंटे पानी आता है।

175. The neighbour plays loud music every evening. — पड़ोसी हर शाम ज़ोर से संगीत बजाता है।

176. Someone has parked in front of my gate again. — कसी ने फर से मेरे गेट के आगे गाड़ी लगा दी।

177. The colony meeting is on Saturday evening. — शनिवार शाम को कॉलोनी की बैठक है।

178. We should raise this issue with the RWA. — हमें यह मुद्दा RWA के सामने उठाना चाहिए।
179. The street is broken near the old school. — पुराने स्कूल के पास सड़क टूटी है।
180. New families have moved into the corner house. — कोने वाले घर में नया परिवार आया है।
181. The local park needs more maintenance. — स्थानीय पार्क को अधिक रखरखाव चाहिए।
182. Children shouldn't play near that open drain. — बच्चों को उस खुले नाले के पास नहीं खेलना चाहिए।
183. The guard doesn't check IDs anymore. — चौकीदार अब ID नहीं जाँचता।
184. Security cameras should be installed at the gate. — गेट पर सुरक्षा कैमरे लगाने चाहिए।
185. There was a theft last night two streets away. — कल रात दो गलियाँ आगे चोरी हुई।
186. The electricity bill for common areas is pending. — सामान्य क्षेत्रों का बिजली बिल बकाया है।
187. Kids from the colony are playing cricket in the lane again. — कॉलोनी के बच्चे फर से गली में क्रिकेट खेल रहे हैं।
188. The cable guy will come tomorrow to fix the connection. — कल केबल वाला कनेक्शन ठीक करने आएगा।

189. Don't let unknown people inside the colony gate.
— अनजान लोगों को कॉलोनी के गेट से अंदर मत
आने दो।
190. There's a stray cow sitting in the middle of the
road again. — फर से आवारा गाय सड़क के बीच में
बैठी है।

More Movie Dialogue Inspired — और फ़िल्मी अंदाज़

191. Don't count me out — I'm just getting started. —
मुझे खत्म मत समझो — मैंने तो अभी शुरुआत की
है।
192. Every great story has a villain — welcome to
mine. — हर बड़ी कहानी में एक खलनायक होता है —
मेरी में आपका स्वागत है।
193. I found my strength in the darkest moment of my
life. — मैंने अपनी ताकत अपनी ज़िंदगी के सबसे
अंधेरे पल में पाई।
194. You trained me to fight, but forgot to teach me
how to lose. — तुमने मुझे लड़ना सखाया, हारना
सखाना भूल गए।

195. Destiny is just a word — the real work is done by hands. — तकदीर बस एक शब्द है — असली काम हाथों से होता है।
196. She didn't need saving — she needed space to save herself. — उसे बचाने की ज़रूरत नहीं थी — बस खुद को बचाने की जगह चाहिए थी।
197. My love is not a weakness — it is my greatest armour. — मेरा प्यार कमज़ोरी नहीं — मेरी सबसे बड़ी ढाल है।
198. Even the darkest night must bow before the dawn. — सबसे काली रात को भी सुबह के सामने झुकना पड़ता है।
199. I lost everything and found myself. — मैंने सब कुछ खोया और खुद को पाया।
200. We don't say goodbye — we say until next time. — हम अल वदा नहीं कहते — हम कहते हैं, फर मलेंगे।

Clever & Witty Expressions — चतुर और तेज़ अ भव्यक्तियाँ

201. Don't mistake my kindness for weakness. — मेरी दयालुता को कमज़ोरी मत समझो।

202. I speak less because I think more. — मैं कम बोलता हूँ क्यों क ज़्यादा सोचता हूँ।
203. My memory is long and my patience is short. — मेरी याददाश्त लंबी है और सब्र कम।
204. I don't argue with people who don't value logic. — मैं उन लोगों से बहस नहीं करता जो तर्क की परवाह नहीं करते।
205. Tell me your habits and I'll tell you your future. — अपनी आदतें बताओ, मैं तुम्हारा भ वष्य बताऊँगा।
206. Those who mind don't matter, those who matter don't mind. — जो बुरा मानते हैं उनसे काम नहीं, जिनसे काम है वे बुरा नहीं मानते।
207. The less you talk, the more people wonder. — जितना कम बोलो, उतना ज़्यादा लोग सोचते हैं।
208. Not reacting is also a powerful reaction. — प्रति क्रिया न देना भी एक ताकतवर प्रति क्रिया है।
209. I chose peace over proving myself to everyone. — मैंने सबको साबित करने की जगह शांति चुनी।
210. Smart people build bridges, foolish people burn them. — समझदार लोग पुल बनाते हैं, मूर्ख लोग जलाते हैं।
211. Your criticism is proof that you're watching me closely. — तुम्हारी आलोचना इस बात का सबूत है क तुम मुझे ध्यान से देख रहे हो।

212. Don't tell me about your plans — show me your results. — मुझे अपनी योजनाएँ मत बताओ — नतीजे दिखाओ।
213. Respect is not given, it's mirrored. — सम्मान दिया नहीं जाता, लौटाया जाता है।
214. The way you treat others is the way you feel about yourself. — आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वह आपकी अंदरूनी भावना है।
215. Never negotiate your self-worth. — अपनी कीमत पर कभी समझौता मत करो।

Advanced Grammar & Structure — उन्नत व्याकरण और संरचना

216. Had I known earlier, I would have acted differently. — अगर मुझे पहले पता होता, तो मैं अलग तरह से काम करता।
217. Despite the setbacks, she persevered admirably. — बाधाओं के बावजूद उसने प्रशंसनीय ढंग दिखाई।
218. The more you practise, the more natural it becomes. — जितना ज़्यादा अभ्यास करो, उतना ही स्वाभाविक होता जाता है।

219. Not only did he finish first, but he also broke the record. — उसने न केवल पहले स्थान पर आया, बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ा।
220. Should you need assistance, feel free to ask. — अगर आपको मदद चाहिए, तो बे झझक पूछें।
221. It wasn't until I failed that I truly understood success. — जब तक मैं असफल नहीं हुआ, सफलता की असली समझ नहीं थी।
222. The project, though complex, was completed on time. — परियोजना, हालाँ क जटिल थी, समय पर पूरी हो गई।
223. He spoke as though he had witnessed it firsthand. — वह ऐसे बोला जैसे उसने खुद यह देखा हो।
224. No sooner had she left than the phone rang. — वह गई नहीं क फ़ोन बज उठा।
225. I would rather fail trying than succeed without effort. — मैं को शश करके असफल होना पसंद करूँगा, बिना मेहनत सफल होने से।
226. The findings, while promising, need further validation. — निष्कर्ष, हालाँ क आशाजनक हैं, और सत्यापन चाहते हैं।
227. Were I in your position, I would reconsider. — अगर मैं आपकी जगह होता, तो दोबारा सोचता।

228. Such is the nature of ambition — it never truly rests. — महत्वाकांक्षा की प्रकृति ही ऐसी है — वह कभी नहीं रुकती।

229. The sooner we address this, the better the outcome will be. — जितनी जल्दी इसे सुलझाएँगे, नतीजा उतना बेहतर होगा।

230. All things considered, the decision was justified. — सब कुछ ध्यान में रखते हुए, निर्णय उचित था।

Describing Character & Personality — चरित्र और व्यक्तित्व

231. He is the kind of person who lifts others while climbing. — वह उस कस्म का इंसान है जो खुद ऊपर चढ़ते हुए दूसरों को उठाता है।

232. Her integrity is her most defining quality. — उसकी ईमानदारी उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है।

233. He never takes credit for others' work. — वह कभी दूसरों का श्रेय नहीं लेता।

234. She leads by example, not by command. — वह आदेश से नहीं, उदाहरण से नेतृत्व करती है।

235. He is fiercely loyal to those who stand by him. —
जो उसके साथ खड़े होते हैं, उनके प्रति वह बेहद
वफादार है।
236. She has an uncanny ability to read people. —
उसके पास लोगों को पढ़ने की अद्भुत क्षमता है।
237. He carries himself with effortless dignity. — वह
बिना कसी प्रयास के शान से चलता है।
238. She doesn't seek validation from anyone. — वह
कसी से अनुमोदन नहीं ढूँढती।
239. His generosity is matched only by his humility.
— उसकी उदारता केवल उसकी वनम्रता से मेल खाती
है।
240. She turns every challenge into an opportunity. —
वह हर चुनौती को अवसर में बदल देती है।

Professional Communication — व्यावसायिक

संचार

241. Please find the attached report for your reference.
— कृपया संदर्भ के लिए संलग्न रिपोर्ट देखें।
242. I'd like to bring this matter to your attention. — मैं
इस वषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

243. As per our previous discussion, the deadline is Friday. — हमारी पछली चर्चा के अनुसार, समयसीमा शुक्रवार है।
244. I'm following up on the email I sent last week. — मैं पछले हफ़ते भेजे ईमेल के बारे में अनुसरण कर रहा हूँ।
245. Please let me know if you require any clarifications. — यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो कृपया बताएँ।
246. We regret the inconvenience caused. — हमें असु वधा के लए खेद है।
247. I'd like to schedule a call at your earliest convenience. — मैं आपकी सु वधानुसार जल्दी एक कॉल तय करना चाहूँगा।
248. This is to confirm our meeting at three tomorrow. — यह कल तीन बजे हमारी बैठक की पुष्टि के लए है।
249. Your feedback is greatly appreciated. — आपकी प्रति क्रया की हम बहुत सराहना करते हैं।
250. Please revert at your earliest. — कृपया जल्द से जल्द जवाब दें।

251. This is a gentle reminder regarding the pending submission. — यह लंबित प्रस्तुति के बारे में एक सौम्य अनुस्मारक है।
252. We look forward to a productive collaboration. — हम एक उत्पादक सहयोग की उम्मीद रखते हैं।
253. Kindly acknowledge receipt of this email. — कृपया इस ईमेल की प्राप्ति स्वीकार करें।
254. The matter is being escalated to the senior team. — इस मामले को वरिष्ठ टीम तक पहुँचाया जा रहा है।
255. We shall revert with a formal response shortly. — हम जल्द ही औपचारिक जवाब देंगे।

Hospital & Emergency Advanced — अस्पताल और आपात — उन्नत

256. The patient's vitals are stable now. — मरीज़ के प्राणसूचक संकेत अब स्थिर हैं।
257. He needs to be kept under observation for 48 hours. — उसे 48 घंटे निगरानी में रखना होगा।
258. The MRI report shows no abnormality. — MRI रिपोर्ट में कोई असामान्यता नहीं है।
259. The surgery was successful and the patient is recovering. — सर्जरी सफल रही और मरीज़ ठीक हो रहा है।

260. A second opinion from a specialist is advisable.
— विशेषज्ञ से दूसरी राय लेना उचित है।
261. The ward is in the east wing of the hospital. —
वार्ड अस्पताल के पूर्वी हिस्से में है।
262. Please avoid bringing food from outside. —
कृपया बाहर से खाना लाने से बचें।
263. The ICU allows only one attendant per patient.
— ICU में प्रति मरीज़ केवल एक परिचर की अनुमति है।
264. Fill out the consent form before the procedure. —
प्रक्रिया से पहले सहमति फ़ॉर्म भरें।
265. The discharge summary will be ready by evening.
— छुट्टी का सारांश शाम तक तैयार हो जाएगा।

Nature Walk & Outdoor Talk — प्रकृति भ्रमण और बाहरी बातें

266. Listen — the birds sound different in this forest.
— सुनो — इस जंगल में पक्षियों की आवाज़ अलग है।
267. Walk slowly, the trail is slippery. — धीरे चलो,
रास्ता फसलन भरा है।
268. This waterfall is hidden from the main road. —
यह झरना मुख्य सड़क से छुपा हुआ है।

269. Set up camp before it gets dark. — अँधेरा होने से पहले श वर लगाओ।
270. Don't leave trash here, respect nature. — यहाँ कूड़ा मत छोड़ो, प्रकृति का सम्मान करो।
271. The trail map shows a shortcut through the valley. — ट्रेल मैप में घाटी से होकर एक शॉर्टकट है।
272. We'll reach the summit by afternoon if we keep this pace. — इसी रफ़्तार से चलें तो दोपहर तक चोटी पर पहुँच जाएँगे।
273. Fill up your water bottle at the stream. — झरने से पानी की बोतल भरो।
274. Wild animals have been spotted on this trail. — इस रास्ते पर जंगली जानवर देखे गए हैं।
275. The sunrise from here will be worth every step. — यहाँ से सूर्योदय हर कदम का मेहनताना है।

Negotiation & Bargaining — वार्ता और मोलभाव

276. Your initial offer is too low for consideration. — आपका शुरुआती प्रस्ताव वचार के लिए बहुत कम है।
277. We're willing to meet halfway. — हम बीच का रास्ता निकालने को तैयार हैं।

278. This price doesn't justify the value we bring. — यह कीमत हमारे मूल्य को सही नहीं ठहराती।
279. Can we revisit the payment terms? — क्या हम भुगतान की शर्तें दोबारा देख सकते हैं?
280. Let's both walk away with something. — चलो दोनों कुछ न कुछ लेकर जाएँ।
281. A deal that benefits only one side doesn't last long. — जो समझौता केवल एक पक्ष के लिए हो, वह टिकता नहीं।
282. I'm open to negotiation, not desperation. — मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ, बेबसी के लिए नहीं।
283. Our quality justifies the premium. — हमारी गुणवत्ता इस अतिरिक्त कीमत को सही ठहराती है।
284. We can offer a volume discount on bulk orders. — हम थोक ऑर्डर पर मात्रा छूट दे सकते हैं।
285. Let's put this in writing before we proceed. — आगे बढ़ने से पहले इसे लिखत में कर लेते हैं।

Unique Situational Sentences — अनोखे

परिस्थितिजन्य वाक्य

286. The kite got stuck in the tree again. — पतंग फर से पेड़ में फँस गई।

287. The cricket ball broke the neighbour's window.
— क्रकेट की गेंद से पड़ोसी का शीशा टूट गया।
288. Put on mosquito repellent before going to the ground. — मैदान पर जाने से पहले मच्छर भगाने वाला लगाओ।
289. The monkey snatched the bag from outside the temple. — मंदिर के बाहर से बंदर ने थैला छीन लिया।
290. The wedding band has stopped right in our lane.
— शादी की बारात हमारी गली में ही रुक गई है।
291. The pressure cooker lid flew off and landed near the sink. — प्रेशर कुकर का ढक्कन उड़कर संक के पास जा गया।
292. The electricity board van is outside, they're checking meters. — बाहर बिजली बोर्ड की गाड़ी है, मीटर जाँच रहे हैं।
293. The morning newspaper had an article about our colony. — सुबह के अखबार में हमारी कॉलोनी के बारे में लेख था।
294. The temple bell can be heard all the way from our terrace. — मंदिर की घंटी हमारी छत तक सुनाई देती है।

295. The summer school break has made the colony very noisy. — ग र्मर्यों की छुट्टियों से कॉलोनी बहुत शोरगुल वाली हो गई है।
296. They're building a new mall where the old factory stood. — जहाँ पुरानी फैक्टरी थी वहाँ नया मॉल बन रहा है।
297. The municipal corporation painted the walls but left the roads. — नगर निगम ने दीवारें रंग दीं पर सड़कें छोड़ दीं।
298. My landlord raised the rent again with no notice. — मकान मालक ने बिना सूचना के फर कराय़ा बढ़ा दिया।
299. The wedding DJ is still playing at two in the morning. — शादी का DJ रात के दो बजे भी बज रहा है।
300. Our area gets flooded every single monsoon without fail. — हमारे इलाके में हर मानसून में बिना नागा बाढ़ आती है।

Describing Taste & Food Experience — स्वाद

और खाने के अनुभव

301. This biryani has just the right amount of spice. —
इस बिरयानी में मसाला एकदम सही है।
302. The sweetness in this kheer is subtle and perfect.
— इस खीर की मठास सौम्य और एकदम सही है।
303. The crust of this bread is beautifully crisp. — इस
रोटी की परत खूबसूरती से कुरकुरी है।
304. This pickle has a tangy kick that lingers. — इस
अचार में एक तीखापन है जो देर तक रहता है।
305. The masala chai had a perfect balance of ginger
and cardamom. — मसाला चाय में अदरक और
इलायची का संतुलन एकदम सही था।
306. This dal makhani tastes like it's been slow-
cooked for hours. — यह दाल मखनी ऐसी लगती है
जैसे घंटों धीमी आँच पर पकी हो।
307. The sweetness of the jalebi was offset beautifully
by the salty lassi. — जलेबी की मठास नमकीन लस्सी
से खूबसूरती से संतुलित थी।
308. This samosa filling has a wonderful blend of peas
and spices. — इस समोसे की भरावन में मटर और
मसालों का अद्भुत मश्रण है।
309. The aroma of freshly made ghee on hot rotis is
irresistible. — गरम रोटियों पर ताज़े घी की खुशबू
अनूठी होती है।

310. This mithai melts in the mouth without being overly sweet. — यह मठाई मुँह में घुल जाती है, ज्यादा मीठी हुए बिना।

Philosophical & Deep Thought — दार्शनिक और गहरे वचार

311. The mind that is at peace has no enemies. — जिस मन में शांति है उसका कोई दुश्मन नहीं।

312. We see the world not as it is, but as we are. — हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे हम हैं।

313. Wisdom is knowing when to speak and when to be silent. — बुद्धि धमानी यह है क कब बोलें और कब चुप रहें।

314. The greatest prison is the one we build in our own minds. — सबसे बड़ी जेल वह है जो हम खुद अपने मन में बनाते हैं।

315. Fear of loss is greater than the joy of gain. — खोने का डर पाने की खुशी से बड़ा होता है।

316. We carry our past in our habits and our future in our choices. — हम अपना अतीत अपनी आदतों में और भविष्य अपने फैसलों में ढोते हैं।

317. Ego is the enemy of growth. — अहंकार वकास का दुश्मन है।
318. True power lies in the ability to choose your response. — असली शक्ति अपनी प्रति क्रिया चुनने की क्षमता में है।
319. A life examined is a life well-lived. — जो ज़िंदगी सोच-समझकर जी जाए, वही अच्छी ज़िंदगी है।
320. Compassion without boundaries is the highest form of intelligence. — बिना सीमाओं की करुणा सबसे उच्च बुद्धिमत्ता है।

Streetside Barber & Tailor — नाई और दर्जी की दुकान

321. Give me a clean fade on the sides. — साइड पर क्लीन फेड दो।
322. Don't cut too much from the top. — ऊपर से ज्यादा मत काटो।
323. Just a trim, nothing drastic. — बस थोड़ा ट्रिम करो, ज्यादा नहीं।
324. Blend the beard with the hair. — दाढ़ी को बाल से मलाओ।

325. How much for a shave too? — शेव का भी कतना लगे?
326. Make the neck line sharp. — गर्दन की रेखा तेज़ रखो।
327. The last time you cut it too short. — पछली बार बहुत छोटे काट दिए थे।
328. Use the scissor, not just the machine. — सर्फ़ मशीन नहीं, कैंची भी इस्तेमाल करो।
329. I need the collar taken in by an inch. — कॉलर एक इंच अंदर करना है।
330. Stitch this button properly this time. — इस बार बटन ठीक से सलो।
331. The hem is uneven, fix it. — कनारा टेढ़ा है, ठीक करो।
332. Add a pocket to this kurta. — इस कुर्ते में एक जेब लगाओ।
333. When will the suit be ready? — सूट कब तक तैयार होगा?
334. I need it for the function this Friday. — मुझे इस शुक्रवार के समारोह के लिए चाहिए।

335. Loosen the waist a little, it's too tight. — कमर थोड़ी ढीली करो, बहुत तंग है।

Common Errors in English — Corrected —

अंग्रेजी की आम गलतियाँ सुधरी

336. Say "I am going" not "I am go". — कहो "I am going", न क "I am go"।

337. Say "He doesn't know" not "He don't know". — कहो "He doesn't know", न क "He don't know"।

338. Say "She has many friends" not "She have many friends". — कहो "She has many friends", न क "She have many friends"।

339. Say "I would like" not "I am wanting". — कहो "I would like", न क "I am wanting"।

340. Say "Yesterday I went" not "Yesterday I have gone". — कहो "Yesterday I went", न क "Yesterday I have gone"।

341. Say "Much water" for uncountable, "Many bottles" for countable. — गनने वाले के लिए "many", न गनने वाले के लिए "much"।

342. Say "The news is interesting" not "The news are interesting". — कहो "The news is interesting", न क "The news are"।
343. Say "Do you mind if I sit?" not "Do you mind if I seat?". — "Sit" बैठना है, "seat" एक जगह है।
344. Say "I look forward to meeting you" not "I look forward to meet". — "Look forward to" के बाद "-ing" आता है।
345. Say "I apologize for the delay" not "I apologize for delay". — "Delay" से पहले "the" लगाओ।
346. Say "advice" for the noun and "advise" for the verb. — संज्ञा के लिए "advice", क्रिया के लिए "advise"।
347. Say "affect" when it's a verb and "effect" when it's a noun. — क्रिया में "affect", संज्ञा में "effect"।
348. Say "I am interested in" not "I am interested for". — "Interested" के बाद "in" आता है, "for" नहीं।
349. Say "I'm bored" not "I'm boring" when you feel bored yourself. — खुद ऊब महसूस करने पर "I'm bored" कहो, "boring" नहीं।
350. Say "It depends on" not "It depends of". — "Depends" के बाद "on" आता है।
-

Advanced Vocabulary in Context — उन्नत

शब्दावली सन्दर्भ में

351. His speech was eloquent and deeply moving. —
उसका भाषण वाक्पटु और गहराई से मार्मिक था।
352. The landscape was breathtaking in its vastness.
— परिश्रय अपनी विशालता में अद्भुत था।
353. She had an insatiable curiosity about everything.
— उसके मन में हर चीज़ के बारे में अतृप्त जिज्ञासा
थी।
354. The decision was controversial but ultimately
pragmatic. — निर्णय विवादास्पद था पर अंततः
व्यावहारिक।
355. He was known for his impeccable attention to
detail. — वह हर विवरण पर अचूक ध्यान के लिए
जाना जाता था।
356. The community rallied together in solidarity. —
समुदाय एकजुटता के साथ एक साथ आया।
357. Her perseverance in the face of adversity was
awe-inspiring. — वह तब भी उसकी दृढ़ता विस्मयकारी
थी।
358. The narrative was riddled with inconsistencies.
— कथा में असंगतियाँ भरी पड़ी थीं।

359. His explanation was succinct yet comprehensive.
— उसकी व्याख्या संक्षिप्त थी पर भी व्यापक।
360. The repercussions of that policy are still being felt today. — उस नीति के परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं।
361. She demonstrated an unparalleled command over the subject. — उसने विषय पर अद्वितीय महारत का प्रदर्शन किया।
362. The allegations were vehemently denied. — आरोपों का जोरदार खंडन किया गया।
363. This arrangement is mutually beneficial. — यह व्यवस्था परस्पर लाभकारी है।
364. The ceremony was conducted with great solemnity. — समारोह बड़ी गंभीरता से आयोजित हुआ।
365. His candid admission surprised everyone in the room. — उसके खुले स्वीकारोक्ति ने कमरे में सबको चौंका दिया।

Spiritual & Inner Peace — आध्यात्मिक और आंतरिक
शांति

366. Let go of what no longer serves you. — जो अब काम का नहीं, उसे जाने दो।
367. Peace begins the moment you accept the present. — शांति उसी पल शुरू होती है जब आप वर्तमान को स्वीकार करते हैं।
368. The soul that is at peace shines through the eyes. — जिस आत्मा में शांति है, वह आँखों से चमकती है।
369. You cannot pour from an empty cup — fill yourself first. — खाली गलास से नहीं डाल सकते — पहले खुद को भरो।
370. Surrender is not weakness — it is wisdom. — समर्पण कमजोरी नहीं — बुद्धि धमानी है।
371. Breathe deeply — this moment is all you truly have. — गहरी साँस लो — यह पल ही आपके पास असल में है।
372. Forgiveness is the gift you give to yourself. — क्षमा वह उपहार है जो आप खुद को देते हैं।
373. When the mind is still, clarity arrives effortlessly. — जब मन शांत होता है, स्पष्टता अपने आप आती है।
374. The universe responds to energy, not words. — ब्रह्मांड ऊर्जा का जवाब देता है, शब्दों का नहीं।
375. Gratitude is the highest form of prayer. — कृतज्ञता प्रार्थना का सबसे ऊँचा रूप है।
-

Expressing Emphasis — ज़ोर देना

376. I'm not just saying this — I absolutely mean it. —
मैं बस कह नहीं रहा — मेरा सच मैं यही मतलब है।
377. This is, without question, the most important
decision. — यह, बिना कसी सवाल के, सबसे
महत्वपूर्ण निर्णय है।
378. Mark my words — this will change everything.
— मेरी बात याद रखो — यह सब कुछ बदल देगा।
379. I cannot stress this enough — punctuality
matters. — मैं इसे जितना भी ज़ोर दूँ कम है —
समय की पाबंदी मायने रखती है।
380. This is, by far, the best work you've ever done. —
यह, अब तक, आपका सबसे अच्छा काम है।
381. Under no circumstances should this be shared. —
कसी भी परिस्थिति में यह साझा नहीं होना चाहिए।
382. I say this with complete and utter conviction. —
मैं यह पूरी और अटूट ढ़ता के साथ कह रहा हूँ।
383. This is non-negotiable, and I mean that firmly. —
यह गैर-परक्राम्य है, और मेरा मतलब ढ़ है।
384. Of all the choices, this is clearly the wisest. —
सभी वकल्पों में से, यह स्पष्ट रूप से सबसे
बुद् धमानीपूर्ण है।
385. Let there be absolutely no doubt about this. —
इस बारे में बिल्कुल कोई संदेह न हो।

Desi Street Food Conversations — देसी स्ट्रीट फूड की बातें

386. Bhaiya, one plate of pani puri — spicy! — भैया, एक प्लेट पानी पूरी — तीखी!
387. Fill it up, don't give half empty ones. — पूरा भरो, आधे खाली मत दो।
388. Add some extra saunth chutney. — थोड़ी और सौंठ की चटनी डालो।
389. The aloo tikki here is the crispiest in the city. — यहाँ की आलू टिक्की शहर में सबसे कुरकुरी है।
390. One plate of chole bhature, well fried. — एक प्लेट छोले भटूरे, अच्छे से तले हुए।
391. How many golgappas for twenty rupees? — बीस रुपये में कतने गोलगप्पे मलेंगे?
392. This chaat has the perfect sweet and tangy balance. — इस चाट में मीठा और खट्टापन एकदम सही है।
393. Give me the dahi wala papdi chaat. — दही वाली पापड़ी चाट दो।

394. Do you also have Raj Kachori? — क्या राज कचोरी भी मलती है?
395. Pack two plates for home too. — घर के लए भी दो प्लेट पैक करो।
396. The vada pav here is exactly like Mumbai's. — यहाँ का वडा पाव एकदम मुंबई जैसा है।
397. Add butter to the pav, don't be shy with it. — पाव पर मक्खन लगाओ, कंजूसी मत करो।
398. One sugarcane juice — half ginger, half lemon. — एक गन्ने का रस — आधा अदरक, आधा नींबू।
399. The papaya slices with masala are a must here. — यहाँ मसाले वाले पपीते के टुकड़े जरूर खाने चाहिए।
400. Bhaiya, your stall has been here for twenty years? — भैया, आपका ठेला यहाँ बीस साल से है?

Office Gossip & Corridor Conversations — दफ़्तर की ग लयारे वाली बातें

401. Did you hear about the new transfer orders? — क्या नए तबादले के आदेशों के बारे में सुना?
402. They say the boss is in a bad mood today. — कहते हैं आज बॉस का मूड खराब है।

403. The appraisal cycle starts next month. —
मूल्यांकन चक्र अगले महीने शुरू होता है।
404. I heard there might be layoffs. — सुना है क
छुटनी हो सकती है।
405. Don't believe everything the grapevine says. —
जो सुनी-सुनाई हो उस पर भरोसा मत करो।
406. The new policy has everyone confused. — नई
नीति ने सबको उलझन में डाल दिया है।
407. The pantry has run out of coffee again. — पेंट्री में
फर से कॉफी खत्म हो गई है।
408. The printer on the third floor is working finally.
— तीसरी मंजिल का प्रिंटर आ खरकार काम कर रहा
है।
409. Someone left their lunch in the microwave again.
— कसी ने फर से माइक्रोवेव में खाना छोड़ दिया।
410. The Friday meeting has been cancelled —
celebrate! — शुक्रवार की बैठक रद्द हो गई — जश्न
मनाओ!

**More Movie Dialogue — Climax Style — और फ़िल्मी
संवाद — क्लाइमैक्स अंदाज़**

411. This isn't the end. This is where I truly begin. —
यह अंत नहीं है। यहीं से मैं असल में शुरू होता हूँ।
412. I forgive you — not for you, but for myself. — मैं
तुम्हें माफ़ करता हूँ — तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए।
413. Everything you took from me made me
everything I am today. — तुमने जो कुछ मुझसे छीना
उसी ने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूँ।
414. The difference between us is that you fight for
power, I fight for people. — हम दोनों में फ़र्क यह है
— तुम ताकत के लिए लड़ते हो, मैं लोगों के लिए।
415. I didn't survive this long to bow at the very end.
— मैं इतने लंबे समय तक इस लिए नहीं बचा क
आ खर में झुक जाऊँ।
416. You want the throne — I want the truth. — तुम्हें
तख्त चाहिए — मुझे सच।
417. Wealth without wisdom is just a beautiful cage.
— बिना बुद्ध के धन सुनहरा पंजरा है।
418. The day you stopped believing in me was the day
I started believing in myself. — जिस दिन तुमने मुझ
पर भरोसा छोड़ा, उसी दिन मैंने खुद पर करना शुरू
किया।
419. A crown doesn't make a king — a spine does. —
ताज राजा नहीं बनाता — हिम्मत बनाती है।

420. I chose the harder path — and that made all the difference. — मैंने कठिन रास्ता चुना — और इसी ने सब कुछ बदल दिया।

Describing Smells & Senses — गंध और इंद्रियाँ

421. The smell of petrichor after rain is my favourite. — बारिश के बाद मट्टी की खुशबू मेरी सबसे पसंदीदा है।

422. The incense from the temple fills the whole street. — मंदिर की अगरबत्ती पूरी गली में फैल जाती है।

423. The freshly ground spices smell incredible. — ताज़े पसे मसाले की खुशबू अद्भुत है।

424. Camphor and marigold are the scents of every Indian festival. — कपूर और गेंदे का फूल हर भारतीय त्योहार की खुशबू है।

425. That old bookshop has a smell I could never describe. — उस पुरानी कताबों की दुकान की खुशबू मैं शब्दों में नहीं बता सकता।

426. The sea air hits you the moment you arrive at the coast. — समुद्री हवा तट पर पहुँचते ही आपको छूती है।

427. There's something about the smell of burning leaves in autumn. — शरद ऋतु में जलती पत्तियों की गंध में कुछ अलग होता है।
428. The aroma of freshly baked bread is universally comforting. — ताज़ी बेक हुई रोटी की खुशबू सबको सुकून देती है।
429. Haldi and kumkum have a scent that takes me to my grandmother's home. — हल्दी और कुमकुम की खुशबू मुझे दादी के घर ले जाती है।
430. The monsoon smell tells you summer is finally over. — मानसून की खुशबू बताती है कि गर्मी आ खरकार गई।

Public Behaviour & Etiquette — सार्वजनिक शष्टाचार

431. Switch your phone to silent mode in the cinema. — सनेमा में फ़ोन साइलेंट मोड पर करो।
432. Don't cut the queue — wait your turn. — लाइन मत तोड़ो — अपनी बारी का इंतज़ार करो।
433. Speak softly in the library. — पुस्तकालय में धीरे बोलो।

434. Hold the elevator door for others. — दूसरों के लिए लफ़्ट का दरवाज़ा रोको।
435. Don't talk over others in a meeting. — बैठक में दूसरों की बात के बीच में मत बोलो।
436. Say thank you to the waiter and the driver. — वेटर और ड्राइवर को धन्यवाद कहो।
437. Offer your seat to pregnant women on public transport. — सार्वजनिक परिवहन में गर्भवती महिलाओं को सीट दो।
438. Don't spit on the road — it's unhygienic and disrespectful. — सड़क पर थूको मत — यह अस्वास्थ्यकर और अनादरजनक है।
439. Greet the security guard when you enter a building. — इमारत में घुसते समय सुरक्षा गार्ड को नमस्ते करो।
440. Be patient with service staff — they're doing their best. — सेवा कर्मचारियों के साथ धैर्य रखो — वे अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं।

Unique Idioms Explained — अनोखे मुहावरे समझाए गए

441. "Hit the nail on the head" means you got it exactly right. — "Hit the nail on the head" मतलब आपने बिल्कुल सही बात कही।
442. "Bite the bullet" means to endure something painful. — "Bite the bullet" मतलब दर्दनाक चीज़ को सहना।
443. "Beat around the bush" means avoiding the main point. — "Beat around the bush" मतलब मुद्दे से बचना।
444. "Burn the midnight oil" means to work very late. — "Burn the midnight oil" मतलब देर रात तक काम करना।
445. "Break the ice" means to start a conversation in a tense situation. — "Break the ice" मतलब तनावपूर्ण स्थिति में बातचीत शुरू करना।
446. "Spill the beans" means to reveal a secret. — "Spill the beans" मतलब राज़ उजागर करना।
447. "Under the weather" means feeling slightly ill. — "Under the weather" मतलब थोड़ा अस्वस्थ महसूस करना।
448. "The ball is in your court" means it's now your decision. — "The ball is in your court" मतलब अब आपकी बारी है।

449. "Once in a blue moon" means something that rarely happens. — "Once in a blue moon" मतलब कभी-कभार होने वाली बात।
450. "Back to square one" means starting over from the beginning. — "Back to square one" मतलब फर से शुरुआत से।
-

Advanced Storytelling Sentences — उन्नत कथन वाक्य

451. The room fell silent the moment she walked in. — जैसे ही वह कमरे में आई, सन्नाटा छा गया।
452. Years had passed, but the wound was still fresh. — साल बीत गए, पर ज़ख्म अभी भी ताज़ा था।
453. He stood at the crossroads of everything he had ever wanted. — वह उन सब चीज़ों के चौराहे पर खड़ा था जो उसने चाहा था।
454. The storm came without warning, like all the important things in life. — तूफ़ान बिना चेतावनी आया, जैसे ज़िंदगी की सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं।
455. She smiled, but her eyes told a different story. — वह मुस्कुराई, पर उसकी आँखें एक अलग कहानी कह रही थीं।

456. That night changed everything — and nothing would ever be the same. — उस रात सब कुछ बदल गया — और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा।
457. He had walked this street a thousand times, but never like this. — वह इस गली से हजार बार गुजरा था, पर इस तरह कभी नहीं।
458. She left without a word — and that silence was louder than any goodbye. — वह बिना एक शब्द बोले चली गई — और वह खामोशी कसी भी वदाई से ऊँची थी।
459. The letter had been sitting unopened for three years. — वह चट्ठी तीन साल से बिना खुले पड़ी थी।
460. When they finally met again, there were no words — just understanding. — जब वे अंततः फर मले, कोई शब्द नहीं थे — बस समझ थी।
-

Generational Wisdom — पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान

461. My grandmother always said that patience outlasts everything. — मेरी दादी हमेशा कहती थीं क धैर्य सब पर भारी पड़ता है।

462. The elders say that a good name is worth more than gold. — बड़े कहते हैं क अच्छा नाम सोने से भी कीमती है।
463. Old wisdom: don't count your troubles, count your blessings. — पुराना ज्ञान: अपनी तकलीफें नहीं, नेमतेँ गनो।
464. They used to say that a meal shared doubles the joy. — वे कहते थे क साझा भोजन खुशी को दोगुना करता है।
465. Grandpa's rule was simple — work hard and speak less. — दादाजी का नियम सरल था — खूब काम करो और कम बोलो।
466. In our family, respecting elders was never optional. — हमारे परिवार में बड़ों का सम्मान कभी वैकल्पिक नहीं था।
467. They built empires without smartphones — remember that. — उन्होंने स्मार्टफोन के बिना साम्राज्य बनाए — यह याद रखो।
468. The value of simplicity was something only age could teach. — सादगी की कीमत उम्र ही सखाती है।
469. A generation that forgets its roots will lose its wings. — जो पीढ़ी अपनी जड़ें भूलती है, अपने पंख खो देती है।

470. The best inheritance is a good upbringing. —
सबसे अच्छी वरासत एक अच्छी परवरिश है।

City Life Conversations — शहरी जीवन की बातें

471. Rush hour in this city is absolutely brutal. — इस
शहर में पीक आवर बेहद भयंकर होता है।

472. The metro is the fastest way to beat the traffic. —
मेट्रो ट्रे फ़क से बचने का सबसे तेज़ रास्ता है।

473. There's a new cafe that opened near the office. —
दफ़्तर के पास एक नया कैफ़े खुला है।

474. Rents have shot up dramatically this year. — इस
साल कराया बहुत तेज़ी से बढ़ा है।

475. The city never really sleeps — there's always
something open. — शहर वाकई कभी सोता नहीं —
कुछ न कुछ हमेशा खुला रहता है।

476. Finding parking in this area is a nightmare. — इस
इलाके में पार्किंग ढूँढना एक सपना है।

477. The new flyover has reduced travel time
significantly. — नए फ्लाईओवर ने यात्रा का समय
काफी घटाया है।

478. There's a massive sale at the mall this weekend.
— इस सप्ताहांत मॉल में बड़ी बिक्री है।

479. The city's night market is absolutely worth visiting. — शहर का नाइट मार्केट देखने लायक है।
480. Living in the city is expensive but exciting. — शहर में रहना महँगा है, पर रोमांचक भी।
-

Arguments — Staying Composed — शांत रहकर बहस

481. I hear what you're saying, and I respect your perspective. — मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और आपके ष्टिकोण का सम्मान करता हूँ।
482. Let's separate the facts from the emotions here. — यहाँ तथ्यों और भावनाओं को अलग करते हैं।
483. We can disagree without being disagreeable. — हम असहमत हो सकते हैं बिना अ प्रय हुए।
484. I'm not here to win an argument — I'm here to find the truth. — मैं बहस जीतने नहीं — सच ढूँढने आया हूँ।
485. Your point is valid, but it doesn't tell the whole story. — आपकी बात सही है, पर यह पूरी कहानी नहीं है।
486. Before we escalate this, let's take a moment. — इसे बढ़ाने से पहले एक पल रुकते हैं।

487. I'd rather reach an understanding than win a fight.
— मैं लड़ाई जीतने से ज़्यादा समझ बनाना पसंद करूँगा।
488. Let me think about what you've said before I respond. — जवाब देने से पहले मैं आपकी बात पर सोचता हूँ।
489. You may be right — let me reconsider my position. — आप सही हो सकते हैं — मैं अपना पक्ष दोबारा सोचता हूँ।
490. A wise person knows when to stop arguing and start listening. — बुद्धिमान वह है जो बहस रोककर सुनना शुरू कर दे।

Cricket & Sports Street Talk — क्रिकेट और खेल की गली की बातें

491. That last over was absolutely nail-biting. — वह आखरी ओवर बेहद रोमांचक था।
492. He smashed the ball right out of the ground. — उसने गेंद को मैदान के बाहर पटक दिया।
493. Our team was robbed by the umpire's decision. — हमारी टीम को अंपायर के फैसले ने नुकसान पहुँचाया।

494. The pitch was doing a lot for the fast bowlers. —
पच तेज़ गेंदबाज़ों को काफ़ी मदद कर रही थी।
495. He played a blinder under pressure. — उसने
दबाव में शानदार पारी खेली।
496. That was an absolute worldie of a catch. — वह
बिल्कुल शानदार कैच था।
497. They need ten runs off the last two balls. —
अंतिम दो गेंदों में दस रन चाहिए।
498. The match turned on that dropped catch in the
40th over. — मैच 40वें ओवर के उस छूटे कैच पर
पलट गया।
499. He's been in the form of his life this season. —
वह इस सीज़न अपने सर्वश्रेष्ठ फ़ॉर्म में है।
500. Don't count us out — we've won from worse
situations. — हमें हारा हुआ मत समझो — हम इससे
बुरी स्थिति से भी जीते हैं।

More Movie Magic Dialogues — और जादुई फ़िल्मी संवाद

501. I didn't come here to be comfortable. I came here
to be great. — मैं यहाँ आराम के लिए नहीं आया। मैं
महान बनने आया।

502. The only opinion that matters about my life is mine. — मेरी जिंदगी के बारे में बस मेरी राय मायने रखती है।
503. I was shattered, but even broken glass catches the light. — मैं टूट गया था, पर टूटा हुआ काँच भी रोशनी पकड़ता है।
504. You gave me a wound. I turned it into a weapon. — तुमने मुझे ज़ख्म दिया। मैंने उसे हथियार बना लिया।
505. Some people come into your life as blessings, others as lessons. — कुछ लोग आशीर्वाद बनकर आते हैं, कुछ सबक बनकर।
506. I don't want applause. I want impact. — मुझे ता लयाँ नहीं चाहिए। मुझे असर चाहिए।
507. Love doesn't make you weak — it gives you a reason to be strong. — प्यार कमज़ोर नहीं बनाता — यह मज़बूत रहने का कारण देता है।
508. The price of freedom is everything — and it's always worth it. — आज़ादी की कीमत सब कुछ है — और वह हमेशा चुकाने लायक है।
509. He who plants trees knowing he'll never sit under their shade — that is success. — जो जानते हुए पेड़

लगाए क उसकी छाँव में कभी नहीं बैठेगा — वही सफलता है।

510. I am not what happened to me — I am what I chose to become. — मैं वह नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ — मैं वह हूँ जो मैंने बनना चुना।

Job Interview Sentences — नौकरी के इंटरव्यू के वाक्य

511. I have always been passionate about this field. — मैं हमेशा इस क्षेत्र के प्रति जुनूनी रहा हूँ।

512. My greatest strength is my ability to stay calm under pressure. — मेरी सबसे बड़ी ताकत दबाव में शांत रहने की क्षमता है।

513. I thrive in environments that challenge me. — मैं चुनौतीपूर्ण माहौल में सबसे अच्छा काम करता हूँ।

514. I am a quick learner and highly adaptable. — मैं जल्दी सीखने वाला और अत्य धक अनुकूलनीय हूँ।

515. I handled a team of fifteen people in my previous role. — मेरी पछली भू मका में मैंने पंद्रह लोगों की टीम संभाली।

516. I am looking for a role that aligns with my long-term goals. — मैं एक ऐसी भूमिका की तलाश में हूँ जो मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाए।
517. I see a great deal of potential in this organization. — मुझे इस संगठन में बहुत संभावना दिखती है।
518. I am open to feedback and believe in continuous improvement. — मैं फीडबैक के लिए खुला हूँ और निरंतर सुधार में विश्वास रखता हूँ।
519. My five-year goal is to grow into a leadership position. — मेरा पाँच साल का लक्ष्य नेतृत्व की स्थिति में बढ़ना है।
520. I bring both technical skill and strong communication to the table. — मैं तकनीकी कौशल और मज़बूत संचार दोनों लाता हूँ।
-

Words that Collocate — शब्द जो साथ चलते हैं

521. Make a decision — never "do" a decision. — "Make a decision" कहो — कभी "do a decision" नहीं।
522. Take a photo — never "make" a photo. — "Take a photo" कहो — "make a photo" नहीं।

523. Do your homework — never "make" your homework. — "Do your homework" कहो — "make your homework" नहीं।
524. Make a mistake — never "do" a mistake. — "Make a mistake" कहो — "do a mistake" नहीं।
525. Pay attention — not "give" attention in formal English. — औपचारिक अंग्रेज़ी में "pay attention" कहो।
526. Have a meeting — never "make" a meeting unless scheduling. — बैठक करने के लिए "have a meeting" कहो।
527. Raise a concern — not "tell" a concern. — चिंता जाहिर करने के लिए "raise a concern" कहो।
528. Run a business — not "do" a business. — व्यवसाय चलाने के लिए "run a business" कहो।
529. Make progress — not "do" progress. — प्रगति के लिए "make progress" कहो।
530. Set a goal — not "put" a goal. — लक्ष्य के लिए "set a goal" कहो।

Life Lessons from Experience — अनुभव से जीवन के सबक

531. Not every friend who smiles at you has your best interests at heart. — हर वह दोस्त जो मुस्कुराता है जरूरी नहीं क आपका हित चाहता हो।
532. The people who stay when things get hard are the real ones. — जो मुश्किल वक्त में रुकते हैं, वही असली लोग हैं।
533. Invest your energy in people who invest in you. — उन लोगों में ऊर्जा लगाओ जो आप में लगाते हैं।
534. Not everything that hurts you is destroying you. — जो दर्द दे वह सब कुछ नष्ट नहीं करता।
535. The version of you that faces the storm will be stronger than the one who avoided it. — जो संस्करण तूफान का सामना करता है वह उससे मज़बूत होगा जो उससे बचता है।
536. Growth is often disguised as discomfort. — विकास अक्सर असु वधा के रूप में छुपा होता है।
537. Some chapters of your life are meant to be lessons, not memories. — आपकी ज़िंदगी के कुछ अध्याय यादें नहीं, सबक होने के लिए हैं।
538. The right timing and the wrong person still result in a wrong situation. — सही समय और गलत इंसान फर भी गलत स्थिति बनाते हैं।

539. Your consistency will outlast anyone's doubts about you. — आपकी निरंतरता आपके बारे में कसी के भी संदेह को पीछे छोड़ देगी।
540. Healing isn't linear — some days you'll feel like you've gone backward. — उपचार एकरेखीय नहीं है — कुछ दिन लगेगा जैसे पीछे चले गए।

More Street Conversations — और सड़क की बातें

541. Move aside, the ambulance needs to pass. —
कनारे हो जाओ, एम्बुलेंस को जाना है।
542. Why is there a crowd gathered there? — वहाँ भीड़ क्यों जमी है?
543. There's been a minor accident near the crossing.
— चौराहे के पास एक छोटी दुर्घटना हुई है।
544. Someone's phone just fell down the drain. —
कसी का फ़ोन नाले में गर गया।
545. The election van is making too much noise. —
चुनावी वैन बहुत शोर मचा रही है।
546. There's a water tanker blocking the entire lane. —
पूरी गली में एक पानी का टैंकर रुका है।

547. The hawker is selling fantastic jackfruit near the temple. — मंदिर के पास एक हॉकर शानदार कटहल बेच रहा है।
548. Someone lost their purse near the bus stop. — बस स्टॉप के पास कसी का पर्स खो गया।
549. Is the ATM in the market working today? — क्या बाज़ार का ATM आज काम कर रहा है?
550. The vegetable prices shot up after the rains. — बारिश के बाद सब्जियों के दाम बढ़ गए।
-

Movie Romance Dialogue Style — फ़िल्मी रोमांटिक संवाद अंदाज़

551. I didn't choose to love you — it just happened, like breathing. — मैंने तुमसे प्यार करने का फैसला नहीं किया — यह बस हुआ, साँस लेने की तरह।
552. With you, even ordinary moments feel extraordinary. — तुम्हारे साथ, साधारण पल भी असाधारण लगते हैं।
553. I'd rather be lost with you than found without you. — तुम्हारे साथ खोना, तुम्हारे बिना मिलने से बेहतर है।

554. Distance means nothing when someone means everything. — दूरी का कोई मतलब नहीं जब कोई सब कुछ मायने रखे।
555. You are the reason I learned to be brave. — तुम ही वह वजह हो जिसने मुझे हिम्मत करना सखाया।
556. In another life, I would find you. In this one, I won't let go. — कसी और ज़िंदगी में भी तुम्हें ढूँढता। इस ज़िंदगी में छोड़ूँगा नहीं।
557. She didn't need a hero — she needed someone who stayed. — उसे नायक नहीं चाहिए था — उसे कोई ऐसा चाहिए था जो रहे।
558. I wrote letters I never sent — each one was addressed to you. — मैंने चट्ठियाँ लखीं जो कभी नहीं भेजीं — हर एक तुम्हारे नाम थी।
559. You walked into my story and suddenly it made sense. — तुम मेरी कहानी में आए और अचानक सब समझ आ गया।
560. Even in a room full of people, I will always find my way to you. — लोगों से भरे कमरे में भी मैं हमेशा तुम तक पहुँचूँगा।

561. Mental health deserves the same respect as physical health. — मान सक स्वास्थ्य को उतना ही सम्मान मलना चाहिए जितना शारीरिक स्वास्थ्य को।
562. No one should be bullied into silence. — कसी को भी चुप कराने के लए धमकाया नहीं जाना चाहिए।
563. Equality is not about giving everyone the same — it's about giving everyone what they need. — समानता सबको एक जैसा देना नहीं — सबको वह देना है जिसकी उन्हें जरूरत है।
564. Speak up when you witness injustice. — जब अन्याय देखो तो आवाज़ उठाओ।
565. Kindness toward strangers costs nothing. — अजनबियों के प्रति दयालुता में कोई कीमत नहीं।
566. Every child deserves to feel safe at school. — हर बच्चे को स्कूल में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है।
567. Domestic abuse has no justification — none. — घरेलू हिंसा का कोई औचित्य नहीं — बिल्कुल नहीं।
568. The first step to solving a problem is admitting it exists. — समस्या हल करने का पहला कदम यह मानना है क वह है।

569. Inclusivity makes every space stronger. —
समावे शता हर जगह को मज़बूत बनाती है।
570. Empathy is a skill — and it can be learned and
practised. — सहानुभूति एक कौशल है — और इसे
सीखा और अभ्यास किया जा सकता है।
-

Unique One-Liners — अनोखी एक-पंक्तियाँ

571. My schedule is full but my spirit is free. — मेरा
कार्यक्रम भरा है पर मेरी आत्मा आज़ाद है।
572. Overthinking is just borrowing tomorrow's
problems today. — ज़्यादा सोचना कल की समस्याएँ
आज उधार लेना है।
573. Confidence is not about having all the answers —
it's about being okay with the questions. —
आत्म विश्वास सभी जवाब जानने में नहीं — सवालों के
साथ ठीक रहने में है।
574. Not all those who wander are lost. — सभी
भटकने वाले खोए नहीं होते।
575. Dare to begin. The rest will follow. — शुरुआत
करने की हिम्मत करो। बाकी अपने आप होगा।

576. Be so good they can't ignore you. — इतने अच्छे बनो क कोई नज़रअंदाज़ न कर सके।

577. I am not lucky — I am consistent. — मैं भाग्यशाली नहीं — मैं निरंतर हूँ।

578. Done is better than perfect. — पूरा हुआ काम परिपूर्ण काम से बेहतर है।

579. Ask for help — it's a sign of intelligence, not weakness. — मदद माँगो — यह बुद्धिमान की निशानी है, कमजोरी की नहीं।

580. Build habits, not excuses. — आदतें बनाओ, बहाने नहीं।

Tense Practice Advanced — काल अभ्यास उन्नत

581. By the time you read this, everything will have changed. — जब तक तुम यह पढ़ोगे, सब कुछ बदल चुका होगा।

582. I have been waiting for three hours — where have you been? — मैं तीन घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ — तुम कहाँ थे?

583. She will be presenting her research when you arrive. — जब आप आँगे तब वह अपना शोध प्रस्तुत कर रही होगी।
584. They had been arguing long before anyone realized. — कसी के ध्यान देने से पहले वे काफ़ी देर से बहस कर रहे थे।
585. If you had told me earlier, I could have helped. — अगर तुमने पहले बताया होता, तो मैं मदद कर सकता था।
586. She hasn't been feeling well since last Tuesday. — वह पछले मंगलवार से ठीक नहीं है।
587. By next year, I will have completed ten years in this job. — अगले साल तक इस नौकरी में मेरे दस साल पूरे हो जाँगे।
588. He was about to leave when the call came. — वह जाने ही वाला था क फ़ोन आया।
589. They should have arrived by now. — उन्हें अब तक पहुँच जाना चाहिए था।
590. We had barely sat down when the power went out. — हम मुश्किल से बैठे थे क बिजली चली गई।

Winning Mindset — जीतने की मान सकता

591. Discipline will take you where motivation alone cannot. — अनुशासन आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ अकेली प्रेरणा नहीं ले जा सकती।
592. The champions train when they don't feel like it. — वजेता तब भी अभ्यास करते हैं जब मन नहीं करता।
593. Make peace with the process, not just the outcome. — परिणाम के साथ नहीं, प्रक्रिया के साथ शांति बनाओ।
594. Winners make it happen — losers let it happen. — जीतने वाले इसे करते हैं — हारने वाले होने देते हैं।
595. Commit to the identity before the results arrive. — नतीजे आने से पहले पहचान के प्रति समर्पित रहो।
596. Your habits are a vote for the person you're becoming. — आपकी आदतें उस व्यक्ति के लिए वोट हैं जो आप बन रहे हैं।
597. Pain is temporary — but quitting lasts forever. — दर्द अस्थायी है — पर छोड़ना हमेशा के लिए रहता है।
598. Show up every day, even when the results aren't visible yet. — हर दिन आओ, चाहे नतीजे अभी दिखाई न दें।

599. Be the hardest working person in the room — every room. — हर कमरे में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले बनो।
600. The work you do in private is the success you earn in public. — निजी में जो काम करते हो वही सार्वजनिक में सफलता बनता है।
-

Real Conversations at Home — घर पर असली बातचीत

601. What do you want to watch tonight — movie or series? — आज रात क्या देखना है — फ़िल्म या सीरीज़?
602. The remote is stuck between the sofa cushions again. — रिमोट फर से सोफे के गद्दों के बीच फँसा है।
603. Who finished all the chips without telling anyone? — कसने सबको बताए बिना सारे चप्स खाए?
604. The geyser was on all night — electricity will go through the roof. — रात भर गीज़र चला — बिजली का बिल आसमान छुएगा।
605. Can you call the building watchman? — क्या आप बिल्डिंग के चौकीदार को बुला सकते हैं?

606. There's a lizard in the bathroom again. — बाथरूम में फर से छिपकली आ गई है।
607. The mixer is making a weird noise. — मक्सर से अजीब आवाज़ आ रही है।
608. Did you recharge the DTH? — क्या DTH रिचार्ज किया?
609. The gas lighter isn't working, use matchsticks. — गैस लाइटर काम नहीं कर रहा, मा चस से जलाओ।
610. Who left the bathroom light on all day? — दिन भर बाथरूम की लाइट कौन जलाकर गया?
-

Describing Goals & Future Plans — लक्ष्य और भ वष्य की योजनाएँ

611. My plan for this year is to read twenty four books. — इस साल मेरी योजना चौबीस कताबें पढ़ने की है।
612. I want to save enough to buy my own home in five years. — मैं पाँच सालों में अपना घर खरीदने के लिए पर्याप्त बचाना चाहता हूँ।

613. This year I will focus on building my skills, not just my salary. — इस साल मैं सर्फ तनख्वाह नहीं, कौशल बनाने पर ध्यान दूँगा।
614. I intend to travel to at least three new places this year. — मैं इस साल कम से कम तीन नई जगहों पर जाना चाहता हूँ।
615. By thirty, I want to be completely debt-free. — तीस साल की उम्र तक मैं पूरी तरह कर्ज-मुक्त होना चाहता हूँ।
616. I'm planning to start my own YouTube channel. — मैं अपना YouTube चैनल शुरू करने की योजना बना रहा हूँ।
617. My goal is to run a half marathon by December. — मेरा लक्ष्य दिसंबर तक हाफ मैराथन दौड़ने का है।
618. I'll be applying for my master's degree next semester. — मैं अगले सेमेस्टर में मास्टर्स के लिए आवेदन करूँगा।
619. I want to learn to speak three languages fluently. — मैं तीन भाषाएँ धाराप्रवाह बोलना सीखना चाहता हूँ।
620. I'm building a routine that will support my biggest goals. — मैं एक दिनचर्या बना रहा हूँ जो मेरे सबसे बड़े लक्ष्यों को सहारा देगी।
-

**Final 80 — Peak Level English — अंतिम 80 — शीर्ष स्तर
की अंग्रेजी**

621. The trajectory of your life changes when your daily habits change. — जब रोजमर्रा की आदतें बदलती हैं, जिंदगी की दिशा बदलती है।
622. Surround yourself with people who fan your flame, not smother it. — उन लोगों के साथ रहो जो आपकी लौ जलाते हैं, बुझाते नहीं।
623. Authenticity is rarer than talent. — प्रामाणिकता प्रतिभा से दुर्लभ है।
624. The depth of your hunger determines the height of your success. — आपकी भूख की गहराई आपकी सफलता की ऊँचाई तय करती है।
625. Don't just chase the dream — build the infrastructure to sustain it. — सपना सर्फ़ ढूँढो मत — उसे बनाए रखने की संरचना बनाओ।
626. Character is built in the moments no one is watching. — करदार उन पलों में बनता है जब कोई नहीं देख रहा।
627. The quality of your questions determines the quality of your life. — आपके सवालों की गुणवत्ता आपकी जिंदगी की गुणवत्ता तय करती है।

628. Resilience is not about bouncing back — it's about bouncing forward. — ढ़ता पीछे उछलना नहीं — आगे उछलना है।
629. Every sacrifice you make today is an investment your future self will thank you for. — आज की हर कुर्बानी एक निवेश है जिसके लए आपका भ वष्य का स्वयं आभारी होगा।
630. The version of you who succeeds is already inside you — waiting to be chosen. — जो संस्करण सफल होता है वह पहले से आपके अंदर है — चुने जाने की प्रतीक्षा में।
631. Speak with purpose, act with intention, live with conviction. — उद्देश्य से बोलो, इरादे से काम करो, वश्वास से जियो।
632. The world gives its best opportunities to those who are prepared. — दुनिया अपने सर्वश्रेष्ठ अवसर उन्हें देती है जो तैयार हैं।
633. Silence in the face of injustice is the loudest betrayal. — अन्याय के सामने चुप्पी सबसे बड़ा वश्वासघात है।
634. A mind stretched by a new idea never returns to its original shape. — नए वचार से खंचा मन कभी मूल रूप में नहीं लौटता।

635. Genius is simply sustained attention on one thing.
— प्रतिभा बस एक चीज़ पर टिकाई गई ध्यान है।
636. The gap between who you are and who you want to be is called daily effort. — आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं उसके बीच की खाई को कहते हैं — रोज़ाना प्रयास।
637. Nothing about your past determines your future unless you let it. — आपके भूतकाल की कोई भी बात आपका भव्य नहीं तय करती जब तक आप न करने दें।
638. The secret to getting ahead is getting started. — आगे जाने का राज़ शुरुआत करने में है।
639. Excellence is not a destination — it is a continuous journey. — उत्कृष्टता एक मंज़िल नहीं — एक निरंतर यात्रा है।
640. Be stubborn about your goals and flexible about your methods. — अपने लक्ष्यों के बारे में ज़िद्दी रहो और तरीकों के बारे में लचीले।
641. The graveyard is full of indispensable people. — कब्रिस्तान अपरिहार्य लोगों से भरा है।
642. You are the author of your story — stop letting others write your chapters. — आप अपनी कहानी के

- लेखक हो — दूसरों को अपने अध्याय लखने देना बंद करो।
643. Every master was once a disaster. — हर उस्ताद कभी तबाही था।
644. Don't wait for the right moment — create it. — सही पल का इंतज़ार मत करो — उसे बनाओ।
645. Reputation is what others think of you — character is what you are when no one thinks of you. — प्रतिष्ठा वह है जो दूसरे सोचते हैं — करदार वह है जो आप हैं जब कोई नहीं सोचता।
646. Learn from everyone, follow no one, watch for patterns, work like hell. — सबसे सीखो, कसी को मत अपनाओ, पैटर्न देखो, कड़ी मेहनत करो।
647. A river doesn't ask the ocean for permission to flow. — नदी समुद्र से बहने की अनुमति नहीं माँगती।
648. The version of yourself that you show on your best day — become that every day. — जो संस्करण आप अपने सर्वश्रेष्ठ दिन दिखाते हो — वही हर दिन बनो।
649. Struggle is just strength asking you to grow. — संघर्ष बस ताकत का यह कहना है क बढ़ो।

650. The person who reads will always lead the person who doesn't. — जो पढ़ता है वह हमेशा उसे आगे ले जाएगा जो नहीं पढ़ता।
651. Trust the process even when you can't see the progress. — प्र क्रिया पर भरोसा रखो, चाहे प्रगति दिखाई न दे।
652. Your comfort zone is the most dangerous place to stay. — आपका आराम क्षेत्र रहने की सबसे खतरनाक जगह है।
653. If you want something you've never had, do something you've never done. — अगर वह चाहते हो जो कभी नहीं मला, तो वह करो जो कभी नहीं किया।
654. Motivation gets you started — discipline keeps you going. — प्रेरणा शुरू कराती है — अनुशासन चलाता रहता है।
655. It's not about how hard you hit — it's about how hard you can get hit and keep moving. — यह इस बारे में नहीं क आप कतने जोर से मारते हो — यह इस बारे में है क आप कतनी चोट खाकर भी आगे बढ़ सकते हो।
656. Your only competition is who you were yesterday. — आपकी एकमात्र प्रतियो गता कल का आपका स्वयं है।

657. Success is not final — failure is not fatal — it's the courage to continue that counts. — सफलता अंतिम नहीं — असफलता घातक नहीं — जो मायने रखता है वह है जारी रखने की हिम्मत।
658. The most powerful weapon you own is your focused mind. — आपके पास सबसे शक्तिशाली हथियार आपका केंद्रित मन है।
659. He who plants the seed in darkness trusts the light will come. — जो अंधेरे में बीज बोता है वह भरोसा रखता है कि रोशनी आएगी।
660. The loudest person in the room is usually the one with the least to say. — कमरे में सबसे जोर से बोलने वाला आमतौर पर वह होता है जिसके पास सबसे कम कहने को होता है।
661. Great decisions are made in moments of clarity, not crisis. — महान निर्णय संकट में नहीं, स्पष्टता के पलों में लिए जाते हैं।
662. You don't rise to the occasion — you fall to the level of your preparation. — आप अवसर पर नहीं उठते — आप अपनी तैयारी के स्तर पर गिरते हैं।
663. Mastery is not about perfection — it is about commitment to growth. — महारत परिपूर्णता नहीं — विकास के प्रति प्रतिबद्धता है।

664. An investment in learning always pays the best interest. — सीखने में कया निवेश हमेशा सबसे अच्छा ब्याज देता है।
665. Build your empire quietly — let success make the noise. — चुपचाप साम्राज्य बनाओ — सफलता को शोर मचाने दो।
666. The mind is everything — what you think, you become. — मन ही सब कुछ है — जैसा सोचते हो, वैसे बन जाते हो।
667. Be the change you want to see — but first, become the person who can make that change. — वह बदलाव बनो जो देखना चाहते हो — पर पहले वह इंसान बनो जो यह बदलाव ला सके।
668. True intelligence is knowing how much you don't know. — असली बुद्धिमत्ता यह जानना है क आप कतना नहीं जानते।
669. The warrior who wins is not the strongest — it is the one who never stops. — जो योद्धा जीतता है वह सबसे शक्तिशाली नहीं — वह है जो कभी नहीं रुकता।
670. Every single day is a dress rehearsal for the person you are becoming. — हर दिन उस इंसान के लिए एक पूर्वाभ्यास है जो आप बन रहे हैं।

671. The ones who changed the world were told it couldn't be done. — जिन्होंने दुनिया बदली उन्हें कहा गया था क यह नहीं हो सकता।
672. Integrity means doing the right thing even when it costs you. — ईमानदारी का मतलब है सही काम करना, चाहे कीमत चुकानी पड़े।
673. Your story isn't over — it's just getting to the good part. — आपकी कहानी खत्म नहीं हुई — यह अभी अच्छे हिस्से तक पहुँच रही है।
674. A dream written down with a date becomes a goal. — जो सपना तारीख के साथ लिखा जाए वह लक्ष्य बन जाता है।
675. Don't stop when you're tired — stop when you're done. — जब थको तब मत रुको — जब काम हो जाए तब रुको।
676. The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. — सीखने की खूबसूरती यह है क कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता।
677. One day or day one — you decide. — एक दिन या पहला दिन — आप तय करो।
678. Don't tell people your plans — show them your results. — लोगों को योजनाएँ मत बताओ — नतीजे दिखाओ।

679. The most dangerous phrase in any language is "we've always done it this way". — कसी भी भाषा में सबसे खतरनाक वाक्यांश है — "हम हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं"।
680. You can't go back and change the beginning — but you can start today and change the ending. — शुरुआत वापस जाकर नहीं बदली जा सकती — पर आज शुरू करके अंत बदला जा सकता है।
681. Act as if what you do makes a difference — because it does. — ऐसे काम करो जैसे आपके काम से फर्क पड़ता है — क्यों क पड़ता है।
682. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. — नज़र सतारों पर रखो और पाँव ज़मीन पर।
683. Choose to be optimistic — it feels better. — आशावादी रहने का चुनाव करो — यह बेहतर लगता है।
684. The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. — आपकी ज़िंदगी के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं — जब आप पैदा हुए और जब आपको पता चला क्यों।
685. You were given this life because you are strong enough to live it. — यह ज़िंदगी आपको दी गई क्यों क आप इसे जीने के लिए काफी मज़बूत हो।

686. Be patient — the best things take time. — धैर्य रखो — सबसे अच्छी चीज़ें समय लेती हैं।
687. The difference between ordinary and extraordinary is that little "extra". — साधारण और असाधारण में बस वह छोटा सा "अतिरिक्त" का फ़र्क है।
688. Fall seven times, stand up eight. — सात बार गरो, आठ बार उठो।
689. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. — तेज़ चलना हो तो अकेले चलो। दूर जाना हो तो साथ चलो।
690. The fire that warms you can also burn you — that's the nature of power. — जो आग गर्माती है वही जला भी सकती है — यही शक्ति की प्रकृति है।
691. Every day above ground is a good day. — ज़मीन के ऊपर बिताया हर दिन अच्छा दिन है।
692. The present moment always will have been. — वर्तमान पल हमेशा रहा होगा।
693. Your attitude is a little thing that makes a massive difference. — आपका रवैया एक छोटी सी बात है जो बड़ा फ़र्क डालती है।
694. Start each day with a grateful heart. — हर दिन कृतज्ञ हृदय से शुरू करो।

695. Never let the fear of striking out keep you from playing the game. — स्ट्राइक आउट होने का डर आपको खेलने से मत रोकने दो।
696. You must be the change you want to see in the world. — तुम्हें वह बदलाव बनना होगा जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो।
697. The only way out is through. — बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है — अंदर से गुज़रना।
698. We rise by lifting others. — हम दूसरों को उठाकर खुद उठते हैं।
699. Life is either a daring adventure or nothing at all. — जिंदगी या तो एक साहसी साहसकार्य है या कुछ नहीं।
700. Make your life a masterpiece — imagine no limitations. — अपनी जिंदगी को एक उत्कृष्ट कृति बनाओ — कोई सीमा मत मानो।
701. I was not born to be average. — मैं साधारण रहने के लिए नहीं पैदा हुआ।
702. The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. — आज जो दर्द महसूस हो रहा है, कल की ताकत वही है।
703. Where there is love there is life. — जहाँ प्यार है वहाँ जिंदगी है।

704. What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. — जो हमारे पीछे है और जो आगे है, वह उसके मुकाबले छोटा है जो हमारे अंदर है।
705. Speak only if it improves upon the silence. — बोलो तभी जब चुप्पी से बेहतर हो।
706. He who has a why to live can bear almost any how. — जिसके पास जीने का "क्यों" है वह लगभग कसी भी "कैसे" को झेल सकता है।
707. The wound is the place where the light enters you. — जख्म वह जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर आती है।
708. To live is the rarest thing in the world — most people just exist. — जीना दुनिया में सबसे दुर्लभ है — ज्यादातर लोग बस अस्तित्व में रहते हैं।
709. Not all those who wander are lost — some are searching for their next chapter. — सभी भटकने वाले खोए नहीं — कुछ अपना अगला अध्याय ढूँढ रहे हैं।
710. In the middle of difficulty lies opportunity. — कठिनाई के बीच में अवसर होता है।
711. Happiness is not something ready-made — it comes from your own actions. — खुशी तैयारशुदा नहीं होती — यह आपके अपने कार्यों से आती है।

712. The secret of getting things done is to act. —
काम पूरा करने का राज़ है — करना।
713. The greatest glory in living lies not in never
falling, but in rising every time we fall. — जीवन की
सबसे बड़ी महिमा कभी न ग़रने में नहीं — हर बार
गरकर उठने में है।
714. Two roads diverged in a wood — and I took the
one less traveled. — जंगल में दो रास्ते अलग हुए —
और मैंने वह लया जो कम चला गया था।
715. In the end, it's not the years in your life that count
— it's the life in your years. — अंत में मायने नहीं
रखता क आप कतने साल जिए — मायने रखता है
क आपके सालों में कतनी ज़िंदगी थी।
716. Yesterday is history, tomorrow is a mystery,
today is a gift — that's why it's called the present. —
कल इतिहास है, कल रहस्य है, आज उपहार है —
इसी लए इसे "present" कहते हैं।
717. Do not go where the path may lead — go instead
where there is no path and leave a trail. — जहाँ रास्ता
जाता हो वहाँ मत जाओ — जहाँ कोई रास्ता नहीं वहाँ
जाओ और निशान छोड़ो।

718. The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today. — कल की हमारी उपलब्धि की एकमात्र सीमा आज के हमारे संदेह हैं।
719. With the new day comes new strength and new thoughts. — नए दिन के साथ नई ताकत और नए वचार आते हैं।
720. It always seems impossible until it's done. — जब तक हो न जाए, हमेशा असंभव लगता है।
721. Knowing is not enough — we must apply.
Willing is not enough — we must do. — जानना काफी नहीं — लागू करना होगा। इच्छा काफी नहीं — करना होगा।
722. I would rather die of passion than boredom. — मैं ऊब से मरने की बजाय जुनून से मरना पसंद करूँगा।
723. You have brains in your head, feet in your shoes — you can steer yourself any direction you choose. — आपके पास दिमाग है, पाँव हैं — आप जो दिशा चुनें उसमें जा सकते हैं।
724. To the world you may be one person — but to one person you may be the world. — दुनिया के लिए शायद आप एक हों — पर एक के लिए आप दुनिया हो सकते हैं।

725. You can't use up creativity — the more you use, the more you have. — रचनात्मकता खत्म नहीं होती — जितना इस्तेमाल करो उतनी बढ़ती है।
726. A person who never made a mistake never tried anything new. — जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया नहीं आजमाया।
727. It is during our darkest moments that we must focus to see the light. — सबसे अंधेरे पलों में ही हमें रोशनी देखने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है।
728. If you look at what you have in life, you'll always have more. — अगर देखो क जीवन में क्या है, तो हमेशा ज़्यादा होगा।
729. Try to be a rainbow in someone's cloud. — कसी के बादल में इंद्रधनुष बनने की कोशिश करो।
730. I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails. — मैं हवा की दिशा नहीं बदल सकता, पर अपनी पाल समायोजित कर सकता हूँ।
731. Life isn't about finding yourself — it's about creating yourself. — जिंदगी खुद को ढूँढने के बारे में नहीं — खुद को बनाने के बारे में है।

732. Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. — सफलता है बिना उत्साह खोए एक असफलता से दूसरी तक चलते रहना।
733. Imagination is more important than knowledge. — कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
734. Logic will get you from A to B — imagination will take you everywhere. — तर्क A से B तक ले जाएगा — कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी।
735. What you get by achieving your goals is not as important as what you become. — लक्ष्य पूरे करके जो मलता है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आप बन जाते हैं।
736. The best way to predict the future is to create it. — भ वष्य की भ वष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है।
737. We cannot solve our problems with the same thinking that created them. — जिस सोच से समस्याएँ बनी उसी से हल नहीं कर सकते।
738. You don't have to be great to start — but you have to start to be great. — शुरू करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं — पर महान बनने के लिए शुरू करना होगा।

739. Every moment is a fresh beginning. — हर पल एक नई शुरुआत है।
740. The key to success is to focus on goals, not obstacles. — सफलता की कुंजी है लक्ष्यों पर ध्यान देना, बाधाओं पर नहीं।
741. Believe you can and you're halfway there. — यकीन रखो क आप कर सकते हो — और आप आधे रास्ते पर हो।
742. If you can dream it, you can do it. — अगर सपना देख सकते हो, तो कर भी सकते हो।
743. The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it. — जितना कठिन काम करते हो, उसे पाने पर उतना ज़्यादा महसूस होता है।
744. Dream bigger. Do bigger. — बड़े सपने देखो। बड़ा करो।
745. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. — नया लक्ष्य निर्धारित करने या नया सपना देखने के लिए कभी बहुत उम्रदराज नहीं होते।
746. Nothing is impossible — the word itself says "I'm possible". — कुछ भी असंभव नहीं — शब्द "impossible" खुद कहता है "I'm possible"।

747. Whether you think you can or you think you can't — you're right. — चाहे आप सोचो क कर सकते हो या नहीं — आप सही हो।
748. Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. — कठिनाइयाँ अक्सर साधारण लोगों को असाधारण नियति के लए तैयार करती हैं।
749. The best preparation for tomorrow is doing your best today. — कल की सबसे अच्छी तैयारी आज अपना सर्वश्रेष्ठ करना है।
750. It's not what happens to you but how you react that matters. — जो आपके साथ होता है वह नहीं — बल्कि आपकी प्रति क्रिया मायने रखती है।
-

Final 250 Sentences — अंतिम 250 वाक्य

751. Keep going — everything you need will come to you at the right time. — चलते रहो — सही समय पर सब कुछ आएगा।
752. The secret to living well is living large. — अच्छे से जीने का राज़ है — भरपूर जीना।
753. Doubt kills more dreams than failure ever will. — संदेह ने उससे ज़्यादा सपने मारे हैं जितने असफलता ने।

754. Your only job is to be better than you were yesterday. — आपका एकमात्र काम है — कल के आपसे बेहतर बनना।
755. The strongest actions for a woman is to love herself, be herself and shine amongst those who never believed she could. — एक महिला के लिए सबसे शक्तिशाली कार्य है खुद से प्यार करना, खुद बनी रहना।
756. Be yourself — everyone else is already taken. — खुद बनो — बाकी सब तो पहले से कोई है।
757. Do what you can, with what you have, where you are. — जो कर सकते हो करो, जो है उससे करो, जहाँ हो वहाँ करो।
758. Not all storms come to disrupt your life — some come to clear your path. — सब तूफ़ान ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं आते — कुछ रास्ता साफ़ करने आते हैं।
759. Your dream doesn't have an expiry date — take a deep breath and try again. — आपके सपने की कोई समाप्ति तिथि नहीं — गहरी साँस लो और फिर कोशिश करो।
760. A little progress each day adds up to big results. — हर दिन थोड़ी प्रगति मलकर बड़े नतीजे देती है।

761. Forget what hurt you — but never forget what it taught you. — जो दर्द दिया उसे भूलो — पर जो सखाया उसे कभी नहीं।
762. The strongest people are those who win battles no one knows about. — सबसे मज़बूत लोग वे हैं जो वे लड़ाइयाँ जीतते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता।
763. Shine so brightly that others can find their way in your light. — इतने चमको क दूसरे तुम्हारी रोशनी में रास्ता ढूँढ सकें।
764. The universe conspires to help the one who has decided. — जिसने तय कर लिया है ब्रह्मांड उसकी मदद करता है।
765. Nothing worth having comes easy. — जो चीज़ पाने लायक है वह आसानी से नहीं मिलती।
766. Be so busy improving yourself that you have no time to criticize others. — खुद को सुधारने में इतने व्यस्त रहो क दूसरों की आलोचना का समय न मले।
767. The loudest voice in your head should be your own. — आपके दिमाग में सबसे ज़ोर से आवाज़ आपकी अपनी होनी चाहिए।
768. You grow through what you go through. — आप जो झेलते हैं उससे बढ़ते हैं।

769. Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life. — कभी-कभी सही दिशा में सबसे छोटा कदम ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम बन जाता है।
770. Work hard in silence and let your success be your noise. — चुपचाप मेहनत करो और अपनी सफलता को शोर बनाओ।
771. Great things never come from comfort zones. — महान चीज़ें कभी आराम क्षेत्र से नहीं आतीं।
772. Push yourself because no one else is going to do it for you. — खुद को धक्का दो क्योंकि क कोई और नहीं करेगा।
773. Stay focused and never give up. — केंद्रित रहो और कभी हार मत मानो।
774. Stop saying "I wish" and start saying "I will". — "काश" कहना बंद करो और "करूँगा" कहना शुरू करो।
775. Be patient with yourself — nothing in nature blooms all year. — खुद के साथ धैर्य रखो — प्रकृति में कोई भी साल भर नहीं खलता।
776. It's okay to not be okay — but it's not okay to stay that way. — ठीक न होना ठीक है — पर ऐसे रहना ठीक नहीं।

777. Every day may not be good, but there is something good in every day. — हर दिन अच्छा नहीं होता, पर हर दिन में कुछ अच्छा होता है।
778. You are capable of amazing things — believe that. — आप अद्भुत चीज़ें कर सकते हो — यकीन रखो।
779. Some people are going to leave — but that's not the end of your story. — कुछ लोग चले जाएँगे — पर यह आपकी कहानी का अंत नहीं।
780. The comeback is always stronger than the setback. — वापसी हमेशा असफलता से ज़्यादा मज़बूत होती है।
781. Fall in love with taking care of yourself — mind, body, spirit. — खुद की देखभाल से प्यार करो — मन, शरीर, आत्मा।
782. Sometimes you win, sometimes you learn. — कभी जीतते हो, कभी सीखते हो।
783. You are enough. You have enough. You do enough. — आप काफ़ी हो। आपके पास काफ़ी है। आप काफ़ी करते हो।
784. The right mindset can change any situation. — सही मान सकता कसी भी स्थिति को बदल सकती है।

785. Surround yourself only with people who are going to lift you higher. — केवल उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपको ऊपर उठाएँगे।
786. The seed of your next achievement is in your current achievement. — आपकी अगली उपलब्धि का बीज आपकी वर्तमान उपलब्धि में है।
787. Think big, start small, act now. — बड़ा सोचो, छोटे से शुरू करो, अभी करो।
788. The expert in anything was once a beginner who refused to quit. — कसी भी चीज़ में विशेषज्ञ कभी एक शुरुआती था जिसने हार मानने से इनकार किया।
789. Success is not how high you've climbed — it's how you've made a positive difference to the world. — सफलता यह नहीं क आप कतने ऊँचे चढ़े — यह है क आपने दुनिया को कतना बेहतर बनाया।
790. You are the master of your fate and the captain of your soul. — आप अपनी नियति के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान हो।
791. Perfection is not attainable — but if we chase perfection, we can catch excellence. — परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती — पर अगर हम इसका पीछा करें, तो उत्कृष्टता मल सकती है।

792. If you want to be happy, set a goal that commands your thoughts. — खुश रहना हो तो ऐसा लक्ष्य तय करो जो आपके वचारों को दिशा दे।
793. Quality is not an act — it is a habit. — गुणवत्ता एक कार्य नहीं — एक आदत है।
794. The measure of intelligence is the ability to change. — बुद्धिमत्ता की पैमाइश बदलने की क्षमता है।
795. You don't build the life you want by saving time — you build it by spending time on the right things. — आप समय बचाकर मनचाही ज़िंदगी नहीं बनाते — सही चीज़ों पर समय लगाकर बनाते हो।
796. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. — ज़िंदगी 10% वह है जो होता है और 90% वह क आप कैसे प्रति क्रिया देते हो।
797. Your greatest battles will be fought within yourself. — आपकी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ आपके भीतर ही लड़ी जाएँगी।
798. Learning never exhausts the mind — it ignites it. — सीखना कभी दिमाग को थकाता नहीं — जलाता है।
799. Build the life you want to live — not the one others expect you to. — वह ज़िंदगी बनाओ जो आप जीना चाहते हो — वह नहीं जो दूसरे चाहते हैं।

800. Turn your wounds into wisdom. — अपने ज़ख्मों को ज्ञान में बदलो।
801. Our greatest fear is not that we are inadequate — our greatest fear is that we are powerful beyond measure. — हमारा सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि हम अपर्याप्त हैं — हमारा सबसे बड़ा डर यह है कि हम असी मत रूप से शक्तिशाली हैं।
802. In the end, we only regret the chances we didn't take. — अंत में हमें केवल उन मौकों का पछतावा होता है जो हमने नहीं लिए।
803. Take every chance you get — because some things only happen once. — हर मौका लो — क्योंकि कुछ चीज़ें केवल एक बार होती हैं।
804. Those who dare to fail greatly can achieve greatly. — जो बहुत बड़ी असफलता का साहस रखते हैं, वे बड़ी सफलता पा सकते हैं।
805. Never, never, never give up. — कभी, कभी, कभी हार मत मानो।
806. The question isn't who is going to let me — it's who is going to stop me. — सवाल यह नहीं है कि मुझे कौन करने देगा — सवाल यह है कि मुझे कौन रोकेगा।

807. Happiness is a choice, not a result. — खुशी एक चुनाव है, परिणाम नहीं।
808. I choose to make the rest of my life the best of my life. — मैं अपनी बाकी जिंदगी को अपनी सर्वश्रेष्ठ जिंदगी बनाने का चुनाव करता हूँ।
809. What defines us is how well we rise after falling. — जो हमें परिभाषित करता है वह यह है कि गिरने के बाद हम कितना अच्छे से उठते हैं।
810. You have the power to say this is not how my story will end. — आपके पास यह कहने की शक्ति है — यह मेरी कहानी का अंत नहीं है।
811. Your mind is a powerful thing — when you fill it with positive thoughts your life will start to change. — आपका मन शक्तिशाली है — जब आप इसे सकारात्मक वचारों से भरते हो तो जिंदगी बदलने लगती है।
812. Don't just exist — live. — बस अस्तित्व में मत रहो — जियो।
813. Small deeds done are better than great deeds planned. — किए गए छोटे काम योजना बनाए गए बड़े कामों से बेहतर हैं।

814. Always be a first-rate version of yourself and not a second-rate version of someone else. — हमेशा खुद का पहला दर्जा बनो, न क कसी और का दूसरा दर्जा।
815. Make today so awesome that yesterday gets jealous. — आज इतना अद्भुत बनाओ क कल को ईर्ष्या हो।
816. Embrace the glorious mess that you are. — उस शानदार गड़बड़ी को अपनाओ जो आप हो।
817. Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. — जिंदगी आसान हो जाती है जब आप वह माफी स्वीकार करना सीखते हो जो कभी मली नहीं।
818. The only person you are destined to become is the person you decide to be. — जो इंसान आपको बनना तय है वह वही है जो आप बनने का फैसला करते हो।
819. One of the greatest discoveries a person can make is to find they can do what they were afraid they couldn't. — कसी व्यक्ति की सबसे बड़ी खोज यह है क वह वह कर सकता है जो उसे डर था क नहीं कर सकता।
820. Your present circumstances don't determine where you can go — they merely determine where

- you start. — आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ नहीं तय करतीं आप कहाँ जाएँगे — वे बस तय करती हैं आप कहाँ से शुरू करते हैं।
821. Don't count the days — make the days count. — दिन मत गनो — दिनों को गनने लायक बनाओ।
822. Shoot for the moon — even if you miss you'll land among the stars. — चाँद की ओर गोली चलाओ — अगर चूक भी गए तो तारों के बीच उतरोगे।
823. When you reach the end of your rope, tie a knot and hang on. — जब रस्सी के आ खर तक पहुँचो, तो गाँठ बाँधो और टिके रहो।
824. Rivers do not drink their own water — trees do not eat their own fruit — live for others. — नदियाँ अपना पानी नहीं पीतीं — पेड़ अपने फल नहीं खाते — दूसरों के लिए जियो।
825. Think like a proton — always positive. — प्रोटॉन की तरह सोचो — हमेशा सकारात्मक।
826. Stars can't shine without darkness. — तारे अंधेरे के बिना नहीं चमक सकते।
827. Be a warrior, not a worrier. — योद्धा बनो, चिंतक नहीं।

828. Done is better than perfect. — पूरा कया हुआ काम परिपूर्ण काम से बेहतर है।
829. Keep your head high and your middle finger higher. — सर ऊँचा रखो और उससे भी ऊँचा अपना हौसला।
830. The storms of life reveal the true depth of our roots. — ज़िंदगी के तूफ़ान हमारी जड़ों की असली गहराई बताते हैं।
831. Give yourself the same compassion you give to others. — दूसरों पर जो करुणा बरसाते हो वही खुद पर भी बरसाओ।
832. If you're going through hell, keep going. — अगर नर्क से गुज़र रहे हो, तो चलते रहो।
833. Sometimes the bravest thing you can do is simply begin. — कभी-कभी सबसे बहादुरी का काम बस शुरुआत करना है।
834. Don't be afraid of your own greatness. — अपनी महानता से डरो मत।
835. The world doesn't owe you anything — but you owe the world your best. — दुनिया आप पर कुछ बकाया नहीं — पर आप दुनिया पर अपना सर्वश्रेष्ठ बकाया हो।

836. Stop shrinking yourself to fit into spaces that were never meant for you. — उन जगहों में फ़ट होने के लिए खुद को छोटा मत करो जो आपके लिए बनी ही नहीं थीं।
837. The most courageous act is still to think for yourself — aloud. — सबसे साहसी कार्य अभी भी खुद के लिए सोचना है — जोर से।
838. Turn every obstacle into a stepping stone. — हर बाधा को सीढ़ी में बदलो।
839. Difficult roads often lead to beautiful destinations. — कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंज़िलों की ओर जाते हैं।
840. Life is not measured by the number of breaths we take but by the moments that take our breath away. — जिंदगी साँसों की गनती से नहीं मापी जाती बल्कि उन पलों से जो साँस रोक देते हैं।
841. Everything you've ever wanted is on the other side of fear. — जो भी आप चाहते हो वह डर की दूसरी तरफ है।
842. Let your faith be bigger than your fear. — अपने विश्वास को अपने डर से बड़ा होने दो।

843. The magic you are looking for is in the work you are avoiding. — जो जादू आप ढूँढ रहे हो वह उस काम में है जो आप टाल रहे हो।
844. Your setback is the setup for your comeback. — आपकी असफलता आपकी वापसी की तैयारी है।
845. Stop waiting for Friday, for summer, for someone — happiness is achieved when you stop waiting for it. — शुक्रवार, गर्मी, कसी का इंतज़ार मत करो — खुशी तब मिलती है जब आप इंतज़ार करना बंद करते हो।
846. What comes easy won't last — what lasts won't come easy. — जो आसान आए वह टिकेगा नहीं — जो टिकेगा वह आसान नहीं आएगा।
847. When it rains look for rainbows — when it's dark look for stars. — जब बारिश हो तो इंद्रधनुष ढूँढो — जब अंधेरा हो तो तारे ढूँढो।
848. You didn't come this far to only come this far — keep going. — तुम इतनी दूर इस लिए नहीं आए क बस यहीं रुक जाओ — आगे चलो।
849. Act as if it were impossible to fail. — ऐसे काम करो जैसे असफल होना असंभव हो।
850. Life has two rules — never quit and always remember rule number one. — ज़िंदगी के दो नियम हैं

- कभी हार मत मानो और हमेशा पहला नियम याद रखो।
851. Strength does not come from what you can do — it comes from overcoming the things you once thought you couldn't. — ताकत वह नहीं जो आप कर सकते हो — यह उन चीज़ों को पार करने से आती है जो आपने सोचा था नहीं कर सकते।
852. You have a story worth telling. — आपके पास एक कहानी है जो सुनाने लायक है।
853. Run your own race at your own pace. — अपनी रफ़्तार से अपनी दौड़ दौड़ो।
854. What you think you become — what you feel you attract — what you imagine you create. — जैसा सोचते हो बन जाते हो — जैसा महसूस करते हो आकर्षित करते हो — जैसी कल्पना करते हो बना लेते हो।
855. Champions are made from something they have deep inside them — a desire, a dream, a vision. — वजेता उस चीज़ से बनते हैं जो उनके अंदर गहरी है — एक इच्छा, एक सपना, एक दृष्टि।
856. Go where you are celebrated — not just tolerated. — वहाँ जाओ जहाँ आपको मनाया जाए — बस बर्दाश्त नहीं।

857. Be the hero of your story, not the victim. —
अपनी कहानी के नायक बनो, पीड़ित नहीं।
858. The pain of discipline is far less than the pain of regret. — अनुशासन का दर्द पछतावे के दर्द से बहुत कम है।
859. You were not born to just pay bills and die. —
आप सिर्फ बिल भरने और मरने के लिए पैदा नहीं हुए।
860. Create a life that feels good on the inside — not just one that looks good on the outside. — ऐसी जिंदगी बनाओ जो अंदर से अच्छी लगे — न केवल बाहर से।
861. Your struggle is part of your story. — आपका संघर्ष आपकी कहानी का हिस्सा है।
862. The world needs more people who are alive. — दुनिया को और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच में जिंदा हैं।
863. At the end of the day your feet should be dirty, your hair messy and your eyes sparkling. — दिन के अंत में पाँव गंदे, बाल बिखरे और आँखें चमकती होनी चाहिए।
864. Choose to be the light in someone's darkness. — कभी के अंधेरे में रोशनी बनने का चुनाव करो।

865. Don't lose yourself trying to hold on to someone who doesn't care about losing you. — खुद को मत खोओ उसे पकड़े रहने में जिसे आपको खोने की परवाह नहीं।
866. Your life is your message to the world — make it inspiring. — आपकी ज़िंदगी दुनिया के लिए आपका संदेश है — इसे प्रेरणादायक बनाओ।
867. The world is changed by your example, not by your opinion. — दुनिया आपके उदाहरण से बदलती है, आपकी राय से नहीं।
868. Do something today that your future self will thank you for. — आज कुछ ऐसा करो जिसके लिए भविष्य का आपका स्वयं आपको धन्यवाद दे।
869. Write your own story — you're the author. — अपनी कहानी खुद लखो — आप ही लेखक हो।
870. I choose progress over perfection every single time. — मैं हर बार परिपूर्णता की जगह प्रगति चुनता हूँ।
871. Live the life you have imagined. — जिस ज़िंदगी की कल्पना की है वह जियो।
872. Some beautiful paths can't be discovered without getting lost. — कुछ खूबसूरत रास्ते खोए बिना नहीं मिलते।

873. The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but on building the new. — बदलाव का राज है अपनी सारी ऊर्जा पुराने से लड़ने में नहीं, नए को बनाने में लगाना।
874. Be the energy you want to attract. — जो ऊर्जा आकर्षित करना चाहते हो वही बनो।
875. Never let anyone dull your sparkle. — कभी किसी को अपनी चमक धुंधली मत करने दो।
876. Don't be pushed around by the fears in your mind — be led by the dreams in your heart. — अपने मन के डरों से मत धकेले जाओ — अपने दिल के सपनों से आगे बढ़ो।
877. What we achieve inwardly will change outer reality. — जो हम अंदरूनी रूप से हासिल करते हैं वह बाहरी वास्तविकता बदल देगा।
878. Real change, enduring change, happens one step at a time. — असली बदलाव, टिकाऊ बदलाव, एक-एक कदम से होता है।
879. I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me. — मैं इस लिए बचा क्योंकि मेरे अंदर की आग बाहर की आग से तेज जल रही थी।

880. Trust yourself — you know more than you think you do. — खुद पर भरोसा करो — आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा जानते हो।
881. You can always edit a bad page — you can't edit a blank page. — बुरा पन्ना संपादित हो सकता है — खाली पन्ना नहीं।
882. The comeback begins the moment you decide you're not done. — वापसी उसी पल शुरू होती है जब आप तय करते हो क आप खत्म नहीं हुए।
883. Your potential is endless — stop underestimating yourself. — आपकी क्षमता अनंत है — खुद को कम मत आँको।
884. The fire doesn't care about the size of the log — only its commitment to burning. — आग को लकड़ी के आकार की परवाह नहीं — सर्फ जलने की प्रतिबद्धता की।
885. You get what you give — put good energy into the world. — जो देते हो वही मलता है — दुनिया में अच्छी ऊर्जा डालो।
886. The goal is not to be rich — the goal is to be legendary. — लक्ष्य अमीर होना नहीं — कंवदंती बनना है।

887. Protect your energy — not everything deserves your reaction. — अपनी ऊर्जा बचाओ — हर चीज़ आपकी प्रति क्रिया की हकदार नहीं।
888. There is beauty in the struggle. — संघर्ष में भी सुंदरता है।
889. Keep growing even when no one is watching. — तब भी बढ़ते रहो जब कोई नहीं देख रहा।
890. You are not your past — you are the power to transform it. — आप अपना अतीत नहीं हैं — आप उसे बदलने की शक्ति हैं।
891. Let what you love be what you do. — जो प्यार करते हो वही करने दो।
892. You were born an original — don't die a copy. — आप मौ लक पैदा हुए थे — नकल बनकर मत मरो।
893. Don't look at where you fell — look at where you slipped. — जहाँ गरे वह मत देखो — जहाँ फसले वह देखो।
894. Courage is resistance to fear — mastery of fear — not absence of fear. — साहस डर का प्रतिरोध है — डर पर महारत — डर की अनुपस्थिति नहीं।
895. Peace is not something you wish for — it's something you make, something you are. — शांति वह

- नहीं जिसकी कामना करते हो — यह वह है जो आप बनाते हो, जो आप हो।
896. The purpose of life is a life of purpose. — जिंदगी का मकसद उद्देश्यपूर्ण जिंदगी है।
897. Don't tell me the sky's the limit when there are footprints on the moon. — मुझे मत बताओ क आकाश सीमा है जब चाँद पर कदमों के निशान हैं।
898. In three words I can sum up everything I've learned about life — it goes on. — तीन शब्दों में जिंदगी के बारे में जो सीखा सब बता सकता हूँ — यह चलती रहती है।
899. May your choices reflect your hopes, not your fears. — आपके फैसले आपकी उम्मीदों की झलक दें, आपके डर की नहीं।
900. This is your moment — this is your life — make it magnificent. — यह आपका पल है — यह आपकी जिंदगी है — इसे शानदार बनाओ।
901. I am not afraid of storms — for I am learning how to sail my ship. — मुझे तूफ़ानों से डर नहीं — क्योंकि मैं अपनी नाव चलाना सीख रहा हूँ।
902. Throw caution to the wind and just do it. — सावधानी को हवा में उड़ा दो और बस करो।

903. A ship in harbor is safe — but that's not what ships are built for. — बंदरगाह में जहाज़ सुरक्षित है — पर जहाज़ इसी लिए नहीं बनाए गए।
904. I have not failed — I have just found ten thousand ways that won't work. — मैं असफल नहीं हुआ — मैंने बस दस हजार ऐसे तरीके ढूँढे जो काम नहीं करते।
905. The greatest achievement was at first and for a time a dream. — सबसे बड़ी उपलब्धि पहले और कुछ समय तक एक सपना थी।
906. We are all faced with a series of great opportunities brilliantly disguised as impossible situations. — हम सभी शानदार ढंग से असंभव परिस्थितियों के रूप में छुपे हुए महान अवसरों का सामना करते हैं।
907. Every problem has in it the seeds of its own solution. — हर समस्या में उसके हल के बीज होते हैं।
908. I find that the harder I work, the more luck I seem to have. — मुझे लगता है जितना कठिन काम करता हूँ उतना ज़्यादा भाग्यशाली लगता हूँ।
909. The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes. — जीवन में

- सफलता का राज यह है क जब अवसर आए तो तैयार रहो।
910. Your life does not get better by chance — it gets better by change. — आपकी जिंदगी संयोग से नहीं बदलती — बदलाव से बदलती है।
911. Intelligence without ambition is a bird without wings. — महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धि पंखों के बिना पक्षी है।
912. Not until we are lost do we begin to understand ourselves. — जब तक हम खो न जाएँ तब तक हम खुद को समझना शुरू नहीं करते।
913. All progress takes place outside the comfort zone. — सारी प्रगति आराम क्षेत्र के बाहर होती है।
914. You are today where your thoughts have brought you — you will be tomorrow where your thoughts take you. — आज आप वहाँ हैं जहाँ आपके वचार आपको लाए — कल आप वहाँ होंगे जहाँ आपके वचार आपको ले जाएँगे।
915. Once you have commitment you need the discipline and hard work to get there. — एक बार प्रतिबद्धता होने पर अनुशासन और कठिन परिश्रम चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए।
916. Begin anywhere. — कहीं से भी शुरू करो।

917. Don't worry about failures — worry about the chances you miss when you don't even try. —
असफलताओं की चंता मत करो — उन मौकों की चंता करो जो आप तब चूकते हो जब को शश ही नहीं करते।
918. The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do. — सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क लोगों को प्रेरित करने की को शश की जाए।
919. You can't control everything — sometimes you just need to relax and have faith. — आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते — कभी-कभी बस आराम करो और वश्वास रखो।
920. Wherever you are is the perfect place to be. — जहाँ भी हो वह सही जगह है।
921. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. — आप चाहे जितने धीरे जाएँ, बस रुकना नहीं चाहिए।
922. Just when the caterpillar thought the world was over, it became a butterfly. — जैसे ही कमला ने सोचा क दुनिया खत्म हो गई, वह तितली बन गई।
923. Believe in yourself even when nobody else does. — तब भी खुद पर वश्वास रखो जब कोई न करे।

924. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. — भ वष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता पर वशवास करते हैं।
925. It is never too late to be what you might have been. — वह बनने में कभी देर नहीं होती जो आप हो सकते थे।
926. In every walk with nature, one receives far more than one seeks. — प्रकृति के साथ हर सैर में इंसान उससे कहीं ज़्यादा पाता है जितना ढूँढता है।
927. You don't always get what you wish for — you get what you work for. — आपको वह नहीं मलता जो आप चाहते हो — वह मलता है जिसके लए काम करते हो।
928. The only way to do great work is to love what you do. — महान काम करने का एकमात्र तरीका है जो करते हो उससे प्यार करो।
929. Everything you do right now ripples outward and affects everyone. — अभी जो कुछ भी करते हो वह लहरों की तरह फैलता है और सबको प्रभा वत करता है।
930. Strive not to be a success but rather to be of value. — सफलता के लए नहीं — मूल्यवान बनने के लए प्रयास करो।

931. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. — जो मन सोच और विश्वास कर सके, वह हासिल कर सकता है।
932. If you want to lift yourself up, lift up someone else. — अगर खुद को ऊपर उठाना है, तो किसी और को उठाओ।
933. Happiness is not the absence of problems — it's the ability to deal with them. — खुशी समस्याओं का न होना नहीं — उनसे निपटने की क्षमता है।
934. The only disability in life is a bad attitude. — जिंदगी में एकमात्र अपंगता बुरा रवैया है।
935. Instead of wondering when your next vacation is, maybe you should set up a life you don't need to escape from. — यह सोचने की बजाय कि अगली छुट्टी कब है, ऐसी जिंदगी बनाओ जिससे भागने की जरूरत न हो।
936. Change your thoughts and you change your world. — अपने विचार बदलो और अपनी दुनिया बदलो।
937. When I let go of what I am, I become what I might be. — जब मैं जो हूँ उसे छोड़ देता हूँ, तो वह बन जाता हूँ जो हो सकता हूँ।

938. Nothing is worth more than this day. — इस दिन से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं।
939. You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. — आप समुद्र तब तक नहीं पार कर सकते जब तक कि कनारा छोड़ने की हिम्मत नहीं।
940. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. — हम में से बहुत से अपने सपने नहीं जी रहे क्योंकि हम अपने डर जी रहे हैं।
941. A person who never made a mistake never tried anything new. — जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया नहीं आजमाया।
942. The only journey is the one within. — एकमात्र यात्रा वह है जो भीतर है।
943. Don't wait. The time will never be just right. — इंतज़ार मत करो। समय कभी एकदम सही नहीं होगा।
944. Dare to dream and then dare to act. — सपने देखने की हिम्मत करो और फिर काम करने की।
945. Your future is created by what you do today, not tomorrow. — आपका भविष्य आज आप जो करते हो उससे बनता है, कल से नहीं।

946. The most common form of despair is not being who you are. — निराशा का सबसे सामान्य रूप वह न होना है जो आप हो।
947. Be brave enough to live creatively. — रचनात्मक रूप से जीने के लिए इतने साहसी बनो।
948. Don't limit your challenges — challenge your limits. — अपनी चुनौतियों को सी मत मत करो — अपनी सीमाओं को चुनौती दो।
949. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. — सफलता आमतौर पर उनके पास आती है जो इसे ढूँढने में बहुत व्यस्त हैं।
950. Whatever you can do or dream you can — begin it. — जो कुछ भी कर सकते हो या सपने में देख सकते हो — शुरू करो।
951. You will face many defeats in life but never let yourself be defeated. — जिंदगी में कई बार हार का सामना होगा पर खुद को कभी पराजित मत होने दो।
952. It always seems impossible until it's done. — जब तक हो न जाए हमेशा असंभव लगता है।
953. We know what we are but know not what we may be. — हम जानते हैं क हम क्या हैं पर नहीं जानते क हम क्या हो सकते हैं।

954. No act of kindness however small is ever wasted.
— दयालुता का कोई भी कार्य चाहे कतना भी छोटा हो कभी व्यर्थ नहीं जाता।
955. When you know better you do better. — जब बेहतर जानते हो तो बेहतर करते हो।
956. Throw me to the wolves and I will return leading the pack. — मुझे भे ड़ियों में फेंको और मैं झुंड का नेता बनकर लौटूँगा।
957. Somewhere, something incredible is waiting to be known. — कहीं न कहीं कुछ अ वशवसनीय जानने की प्रतीक्षा में है।
958. We must be the change we wish to see in the world. — हमें वह बदलाव बनना होगा जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं।
959. What you get by achieving your goals is not as important as what you become. — लक्ष्य पाकर जो मलता है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आप बन जाते हो।
960. You are the one that possesses the keys to your being — you carry the passport to your own happiness. — आप वही हो जिसके पास अपने होने की चाबियाँ हैं — आप अपनी खुशी का पासपोर्ट खुद लेकर चलते हो।

961. Life is a gift — and it offers us the privilege, opportunity, and responsibility to give something back. — जिंदगी एक उपहार है — और यह हमें कुछ वापस देने का विशेषाधिकार, अवसर और जिम्मेदारी देती है।
962. You are never too old to reinvent yourself. — खुद को नए सरे से बनाने के लिए कभी बहुत उम्रदराज नहीं होते।
963. A strong woman is one who feels deeply and loves fiercely. — मजबूत महिला वह है जो गहराई से महसूस करती है और जोरदार तरीके से प्यार करती है।
964. Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it — the time will pass anyway. — कभी सपने को सिर्फ़ इस लिए मत छोड़ो क्योंकि उसे पूरा करने में समय लगेगा — समय तो बीत ही जाएगा।
965. If you're not making mistakes then you're not doing anything. — अगर गलतियाँ नहीं कर रहे तो कुछ कर ही नहीं रहे।
966. People often say that motivation doesn't last — well neither does bathing — that's why we recommend it daily. — लोग कहते हैं प्रेरणा टिकती

नहीं — नहाना भी नहीं टिकता — इसी लए दोनों रोज़ करते हैं।

967. Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. — सफलता है बिना उत्साह खोए असफलता से असफलता तक ठोकरें खाना।

968. Be who you are and say what you feel — those who mind don't matter and those who matter don't mind. — जो हो वह बनो और जो महसूस करो वह कहो।

969. The worst thing I can be is the same as everybody else. — सबसे बुरी बात यह होगी क मैं सबकी तरह बन जाऊँ।

970. If you can dream it you can achieve it. — अगर सपना देख सकते हो तो हा सल कर सकते हो।

971. Good things come to people who wait — but better things come to those who go out and get them. — अच्छी चीज़ें उनके पास आती हैं जो इंतज़ार करते हैं — पर बेहतर चीज़ें उन्हें मलती हैं जो निकलते और पाते हैं।

972. I attribute my success to this — I never gave or took any excuse. — मैं अपनी सफलता इसे देता हूँ — मैंने कभी बहाना न दिया न लया।

973. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. — हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हममें उन्हें पूरा करने का साहस हो।
974. I can't change the direction of the wind but I can adjust my sails to always reach my destination. — हवा की दिशा नहीं बदल सकता पर पाल समायोजित करके मंज़िल तक पहुँच सकता हूँ।
975. Either you run the day or the day runs you. — या तो आप दिन चलाते हो या दिन आपको।
976. What seems to us as bitter trials are often blessings in disguise. — जो हमें कठिन परीक्षाएँ लगती हैं अक्सर वे छुपी हुई आशीर्वाद होती हैं।
977. The more that you read, the more things you will know. — जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जानोगे।
978. Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. — कभी-कभी आपको कसी पल की कीमत तब तक नहीं पता चलती जब तक वह याद न बन जाए।
979. Don't cry because it's over — smile because it happened. — इस लिए मत रोओ क यह खत्म हुआ — मुस्कुराओ क यह हुआ।

980. It's kind of fun to do the impossible. — असंभव करना थोड़ा मजेदार होता है।
981. It is during our darkest moments that we must focus to see the light. — हमारे सबसे अंधेरे पलों में ही हमें रोशनी देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना होता है।
982. Life is not measured in years — it is measured in moments. — ज़िंदगी सालों में नहीं — पलों में मापी जाती है।
983. Go confidently in the direction of your dreams. — अपने सपनों की दिशा में आत्म विश्वास के साथ जाओ।
984. You must expect great things of yourself before you can do them. — कुछ बड़ा करने से पहले खुद से बड़ी उम्मीद रखनी होगी।
985. When you reach the end of your rope, tie a knot and hang on. — रस्सी के आ खर तक पहुँचने पर गाँठ बाँधो और टिके रहो।
986. Keep your face always toward the sunshine — and shadows will fall behind you. — अपना चेहरा हमेशा धूप की ओर रखो — और छाया पीछे रह जाएगी।

987. An unexamined life is not worth living. — जाँचा-परखा नहीं जीवन जीने लायक नहीं।
988. If you're going through hell, keep going. — नर्क से गुजर रहे हो तो चलते रहो।
989. No matter what you're going through, there's a light at the end of the tunnel. — चाहे जो भी झेल रहे हो, अंत में रोशनी है।
990. Wherever life plants you, bloom with grace. — जिंदगी जहाँ भी लगाए, खलो गरिमा के साथ।
991. You're braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. — आप जितना मानते हो उससे ज्यादा बहादुर हो, जितना दिखते हो उससे ज्यादा मज़बूत, और जितना सोचते हो उससे ज्यादा समझदार।
992. Life begins at the end of your comfort zone. — जिंदगी आराम क्षेत्र की सीमा के अंत में शुरू होती है।
993. You didn't come this far to only come this far. — तुम इतनी दूर बस यहीं तक आने के लिए नहीं आए।
994. The only failure is not trying. — एकमात्र असफलता को शश न करना है।
995. Rise above the storm and you will find the sunshine. — तूफान से ऊपर उठो और सूरज की रोशनी मलेगी।

996. In the midst of winter I found there was within me an invincible summer. — सर्दियों के बीच मुझे पता चला क मेरे अंदर एक अजेय गर्मी है।
997. We do not need magic to transform our world — we carry all the power we need inside ourselves already. — दुनिया बदलने के लिए जादू नहीं चाहिए — हमारे पास पहले से ही वह शक्ति है जो हमें चाहिए।
998. Make each day your masterpiece. — हर दिन को अपनी उत्कृष्ट कृति बनाओ।
999. Your life is your canvas — paint it with the brightest colours you have. — आपकी ज़िंदगी आपका कैनवास है — इसे सबसे चमकीले रंगों से रंगो।
1000. The end of one journey is simply the beginning of the next — keep moving, keep growing, keep shining. — एक यात्रा का अंत बस अगली की शुरुआत है — चलते रहो, बढ़ते रहो, चमकते रहो।

Another Set of Daily Use English Sentences

- The sky is very clear today. — आज आकाश बहुत साफ़ है।
- It looks like it might rain. — लगता है बारिश होगी।

- The wind is blowing strongly. — तेज़ हवा चल रही है।
- It's a beautiful morning. — यह एक सुंदर सुबह है।
- The sun is very hot today. — आज धूप बहुत तेज़ है।
- It's cloudy outside. — बाहर बादल छाए हुए हैं।
- There's a storm coming. — तूफ़ान आने वाला है।
- The weather is pleasant today. — आज मौसम बहुत सुहाना है।
- It's freezing cold outside. — बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है।
- The fog is very thick this morning. — आज सुबह कोहरा बहुत घना है।
- The rainbow looks beautiful. — इंद्रधनुष बहुत सुंदर लग रहा है।
- It's drizzling outside. — बाहर हल्की बूँदाबाँदी हो रही है।
- The river is flowing fast. — नदी तेज़ बह रही है।
- The mountains are covered in snow. — पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं।
- The flowers have bloomed. — फूल खल गए हैं।
- The leaves are falling. — पत्तियाँ झड़ रही हैं।
- The birds are singing. — पक्षी गा रहे हैं।
- The moon is very bright tonight. — आज रात चाँद बहुत चमकीला है।

- There are so many stars in the sky. — आकाश में बहुत सारे तारे हैं।
- The sunset is gorgeous. — सूर्यास्त बहुत खूबसूरत है।
- The lake is very calm. — झील बहुत शांत है।
- The forest looks dense. — जंगल बहुत घना लग रहा है।
- Lightning struck nearby. — पास में बिजली गरी।
- There was heavy rain last night. — कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई।
- The air feels fresh after the rain. — बारिश के बाद हवा ताज़ी लग रही है।
- Heat the oil in the pan. — तवे पर तेल गरम करो।
- Chop the onions finely. — प्याज़ को बारीक काटो।
- Add salt to taste. — स्वादानुसार नमक डालो।
- The dal needs more water. — दाल में और पानी चाहिए।
- Stir the curry gently. — सब्ज़ी को धीरे-धीरे हिलाओ।
- Let it simmer for ten minutes. — इसे दस मिनट धीमी आँच पर पकने दो।
- The rice is done. — चावल पक गए।
- Preheat the oven. — ओवन पहले से गरम करो।
- Add a pinch of turmeric. — एक चुटकी हल्दी डालो।

- Grind the spices into a paste. — मसाले पीसकर पेस्ट बनाओ।
- The batter is too thick. — घोल बहुत गाढ़ा है।
- Add more water to the dough. — आटे में और पानी मलाओ।
- Knead the dough well. — आटा अच्छे से गूँधो।
- Roll the roti thin. — रोटी को पतला बेलो।
- The sabzi is too spicy. — सब्ज़ी बहुत तीखी है।
- Add some cream to reduce the spice. — तीखापन कम करने के लिए मलाई डालो।
- Fry it until golden. — सुनहरा होने तक तलो।
- Drain the excess oil. — अतिरिक्त तेल निकाल दो।
- Serve it hot. — इसे गरम परोसो।
- Garnish with coriander leaves. — धनिया की पत्तियों से सजाओ।
- The pressure cooker is whistling. — प्रेशर कुकर की सीटी आ रही है।
- Let it cool before cutting. — काटने से पहले ठंडा होने दो।
- This needs more salt. — इसमें और नमक चाहिए।
- The tadka smells wonderful. — तड़के की खुशबू बहुत अच्छी है।

- Mix it properly. — इसे ठीक से मलाओ।
- What should I wear today? — आज क्या पहनूँ?
- This shirt suits you very well. — यह शर्ट आप पर बहुत अच्छी लग रही है।
- That color doesn't match. — वह रंग मेल नहीं खाता।
- Your outfit looks very elegant. — आपका पहनावा बहुत सुंदर लग रहा है।
- These shoes are too tight. — ये जूते बहुत तंग हैं।
- I need to get my clothes tailored. — मुझे कपड़े सलवाने हैं।
- This kurta looks traditional. — यह कुर्ता पारंपरिक लग रहा है।
- I prefer wearing light colors. — मुझे हल्के रंग पहनना पसंद है।
- Your hair looks nice today. — आज आपके बाल अच्छे लग रहे हैं।
- Get a haircut this weekend. — इस सप्ताहांत बाल कटवाओ।
- This saree is very beautiful. — यह साड़ी बहुत सुंदर है।
- Where did you buy this jacket? — यह जैकेट कहाँ से खरीदी?
- This fabric is very soft. — यह कपड़ा बहुत मुलायम है।
- The zip is broken. — जिप टूटी हुई है।

- This is too loose for me. — यह मेरे लए बहुत ढीला है।
- Can you stitch this button? — क्या आप यह बटन सल सकते हैं?
- The collar is dirty. — कॉलर गंदा है।
- This dress needs dry cleaning. — इस कपड़े को ड्राई क्लीनिंग चाहिए।
- Wear something formal today. — आज कुछ औपचारिक पहनो।
- Don't wear casuals to the wedding. — शादी में कैजुअल मत पहनो।
- Let's go play cricket. — चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं।
- Who won the match yesterday? — कल मैच कौन जीता?
- Our team played really well. — हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला।
- He scored a century. — उसने शतक लगाया।
- The match was very exciting. — मैच बहुत रोमांचक था।
- The referee blew the whistle. — रेफरी ने सीटी बजाई।
- It's a foul. — यह फाउल है।
- The goalkeeper saved the shot. — गोलकीपर ने शॉट बचाया।

- Practice your swing daily. — रोज़ अपनी स्विंग का अभ्यास करो।
- He is a very fast runner. — वह बहुत तेज़ दौड़ता है।
- She broke the national record. — उसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा।
- The Olympics start next month. — अगले महीने ओलंपिक शुरू होगा।
- Do you play badminton? — क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं?
- I go swimming every morning. — मैं हर सुबह तैराकी करने जाता हूँ।
- Chess is a game of strategy. — शतरंज रणनीति का खेल है।
- I love watching football. — मुझे फुटबॉल देखना बहुत पसंद है।
- He trains six days a week. — वह हफ़्ते में छह दिन अभ्यास करता है।
- Teamwork is very important. — टीमवर्क बहुत ज़रूरी है।
- Don't give up until the last moment. — आखिरी पल तक हार मत मानो।
- Sports keep you healthy. — खेल आपको स्वस्थ रखता है।
- He hurt his knee during the game. — उसके घुटने में खेल के दौरान चोट लगी।

- Wear your sports gear properly. — अपना स्पोर्ट्स गयर ठीक से पहनो।
- The stadium was completely full. — स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था।
- The crowd was cheering loudly. — भीड़ जोर से तालियाँ बजा रही थी।
- We lost by just one goal. — हम सिर्फ एक गोल से हार गए।
- The train is on time. — ट्रेन समय पर है।
- Book two tickets to Delhi. — दिल्ली के लिए दो टिकट बुक करो।
- Which platform does the train leave from? — ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से जाएगी?
- The bus is very crowded. — बस बहुत भीड़भाड़ वाली है।
- I missed the last bus. — मेरी आखिरी बस छूट गई।
- Call an auto-rickshaw. — ऑटो-रिक्शा बुलाओ।
- How much will you charge to the airport? — एयरपोर्ट तक कितना लगेगा?
- The petrol is getting low. — पेट्रोल कम हो रहा है।
- Fill the tank completely. — टैंक पूरी भरवाओ।
- The tire is punctured. — टायर पंचर हो गया है।
- Call the mechanic. — मैकेनिक को बुलाओ।

- The engine is making a strange noise. — इंजन से अजीब आवाज़ आ रही है।
- Drive carefully on this road. — इस सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलाओ।
- Follow the traffic rules. — यातायात नियमों का पालन करो।
- Don't drive over the speed limit. — गति सीमा से ज़्यादा मत चलाओ।
- Wear your seatbelt. — सीटबेल्ट पहनो।
- The traffic light is red. — ट्रैफ़िक लाइट लाल है।
- Wait for the signal. — सग्नल का इंतज़ार करो।
- Take the left turn here. — यहाँ बाएँ मुड़ो।
- The road is under construction. — सड़क निर्माणाधीन है।
- There is a lot of traffic on this route. — इस रास्ते पर बहुत ट्रैफ़िक है।
- Take the highway instead. — बजाय इसके हाईवे लो।
- How far is the bus stand? — बस स्टैंड कतना दूर है?
- The flight is delayed by two hours. — उड़ान दो घंटे देरी से है।
- We need to reach the airport early. — हमें एयरपोर्ट जल्दी पहुँचना होगा।

- Drink plenty of water every day. — हर दिन खूब पानी पयो।
- Exercise at least thirty minutes daily. — रोज़ कम से कम तीस मिनट व्यायाम करो।
- Eat more fruits and vegetables. — ज़्यादा फल और सब्जियाँ खाओ।
- Avoid junk food. — जंक फूड से बचो।
- Sleep for eight hours at night. — रात को आठ घंटे सोओ।
- I have a fever since yesterday. — कल से बुखार है।
- My throat is sore. — मेरे गले में दर्द है।
- I have a cold and cough. — मुझे सर्दी और खाँसी है।
- My stomach is hurting. — मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
- I have been vomiting since morning. — सुबह से उल्टी हो रही है।
- My back is aching badly. — मेरी पीठ में बहुत दर्द है।
- I twisted my ankle. — मेरी टखने में मोच आ गई।
- Please take me to a doctor. — कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले चलो।
- What are the visiting hours? — मलने का समय क्या है?
- I need to get a blood test done. — मुझे खून की जाँच करवानी है।

- The report came out normal. — रिपोर्ट सामान्य आई।
- Take this medicine after meals. — यह दवाई खाने के बाद लो।
- Don't skip your medicines. — दवाइयाँ मत छोड़ो।
- How many times a day should I take it? — दिन में कतनी बार लेनी है?
- Rest as much as possible. — जितना हो सके आराम करो।
- Avoid cold water for a few days. — कुछ दिनों तक ठंडा पानी मत पयो।
- Your blood pressure is high. — आपका रक्तचाप अ धक है।
- You need to reduce your stress. — आपको तनाव कम करना होगा।
- Do yoga every morning. — हर सुबह योग करो।
- Deep breathing helps with anxiety. — गहरी साँस लेने से घबराहट कम होती है।
- Cut down on sugar. — चीनी कम करो।
- Your cholesterol level is high. — आपका कोलेस्ट्रॉल अ धक है।
- Walk for thirty minutes after dinner. — रात के खाने के बाद तीस मिनट टहलो।

- Wash your hands before eating. — खाने से पहले हाथ धोओ।
- Cover your mouth when you sneeze. — छींकते समय मुँह ढको।
- Reading daily improves your vocabulary. — रोज़ पढ़ने से शब्द भंडार बढ़ता है।
- Learn one new thing every day. — हर दिन एक नई चीज़ सीखो।
- Online courses are very helpful. — ऑनलाइन कोर्स बहुत उपयोगी होते हैं।
- I am learning a new language. — मैं एक नई भाषा सीख रहा हूँ।
- Practice speaking English daily. — रोज़ अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास करो।
- Watch educational videos online. — ऑनलाइन शैक्षणिक वीडियो देखो।
- Join a skill development course. — कोई कौशल विकास कोर्स जॉइन करो।
- Reading newspapers improves general knowledge. — अखबार पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है।

- Curiosity is the best teacher. — जिज्ञासा सबसे अच्छी शिक्षक है।
- Ask questions whenever you don't understand. — जब समझ न आए तब सवाल पूछो।
- Critical thinking is an important skill. — आलोचनात्मक सोच एक महत्वपूर्ण कौशल है।
- Write a journal every evening. — हर शाम डायरी लखो।
- Attend every class regularly. — हर कक्षा में नियम रूप से जाओ।
- Revision is the key to remembering. — दोहराई याद रखने की कुंजी है।
- Use mind maps to organize notes. — नोट्स व्यवस्थित करने के लिए माइंड मैप बनाओ।
- The library is a treasure house. — पुस्तकालय एक खजाने का घर है।
- Group discussions help you think better. — समूह चर्चा से सोचने की क्षमता बढ़ती है।
- Never be afraid of making mistakes. — गलतियाँ करने से कभी मत डरो।
- Self-discipline leads to success. — आत्म-अनुशासन सफलता का मार्ग है।

- Every expert was once a beginner. — हर विशेषज्ञ कभी शुरुआती था।
- I have a meeting at ten. — दस बजे मेरी बैठक है।
- Please send me the report by evening. — कृपया शाम तक रिपोर्ट भेजो।
- The project deadline is tomorrow. — प्रोजेक्ट की समयसीमा कल है।
- We need to work as a team. — हमें टीम के रूप में काम करना होगा।
- The client has approved the proposal. — ग्राहक ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया।
- I need a day off tomorrow. — मुझे कल एक दिन की छुट्टी चाहिए।
- I have applied for a new job. — मैंने नई नौकरी के लिए आवेदन किया है।
- The interview went very well. — इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा।
- I got a promotion last month. — पछले महीने मेरी पदोन्नति हुई।
- My salary was credited today. — आज मेरी तनख्वाह आ गई।

- Submit your work on time. — अपना काम समय पर जमा करो।
- Don't procrastinate. — काम को टालो मत।
- Focus on quality, not just speed. — सर्फ गति नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान दो।
- Update your resume. — अपना रेज़्यूमे अपडेट करो।
- Network with professionals in your field. — अपने क्षेत्र के पेशेवरों से संपर्क बनाओ।
- Take initiative at work. — काम में पहल करो।
- The company is doing very well this quarter. — कंपनी इस तिमाही में बहुत अच्छा कर रही है।
- There will be a team lunch on Friday. — शुक्रवार को टीम लंच है।
- Please reschedule the meeting. — कृपया बैठक का समय बदलो।
- I am working from home today. — आज मैं घर से काम कर रहा हूँ।
- The office is closed on account of the holiday. — छुट्टी के कारण दफ़्तर बंद है।
- Give me a few minutes to finish this. — मुझे यह पूरा करने के लिए कुछ मिनट दो।

- Can you cover for me today? — क्या आज आप मेरी जगह संभाल सकते हैं?
- I need to make an important call. — मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है।
- Please keep this information confidential. — कृपया यह जानकारी गोपनीय रखें।
- Save a portion of your salary every month. — हर महीने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा बचाओ।
- Don't spend more than you earn. — जितना कमाओ उससे ज़्यादा मत खर्च करो।
- Invest wisely for the future. — भवष्य के लिए समझदारी से निवेश करो।
- The interest rate has gone up. — ब्याज दर बढ़ गई है।
- I need to pay my EMI this week. — इस हफ़्ते मुझे EMI भरनी है।
- Check your bank balance. — अपना बैंक बैलेंस जाँचो।
- I need to withdraw some cash. — मुझे कुछ नक़द निकालना है।
- The ATM is out of cash. — ATM में पैसे नहीं हैं।
- Can I pay by UPI? — क्या मैं UPI से भुगतान कर सकता हूँ?
- Please give me the bill. — कृपया बिल दीजिए।

- The bill seems incorrect. — बिल ग़लत लग रहा है।
- I want to open a savings account. — मैं बचत खाता खोलना चाहता हूँ।
- Update your bank's KYC documents. — बैंक के KYC दस्तावेज़ अपडेट करो।
- Apply for a credit card. — क्रे डिट कार्ड के लिए आवेदन करो।
- Pay the credit card bill on time. — क्रे डिट कार्ड का बिल समय पर भरो।
- Don't take unnecessary loans. — अनावश्यक कर्ज़ मत लो।
- Make a monthly budget. — मासिक बजट बनाओ।
- Track your daily expenses. — अपने रोज़ाना के खर्च का हिसाब रखो।
- Avoid impulse buying. — बिना सोचे खरीदारी मत करो।
- Shop during the sale season. — सेल के मौसम में खरीदारी करो।
- Friends make life more beautiful. — दोस्त जीवन को और सुंदर बनाते हैं।
- Always be there for your friends. — अपने दोस्तों के लिए हमेशा मौजूद रहो।
- Trust is the foundation of any relationship. — विश्वास हर रिश्ते की नींव है।

- Forgive and move on. — माफ़ करो और आगे बढ़ो।
- Respect others' feelings. — दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो।
- Be a good listener. — एक अच्छे श्रोता बनो।
- Don't gossip about others. — दूसरों की चुगली मत करो।
- Help others without expecting anything in return. — बदले में कुछ उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करो।
- Spend quality time with your loved ones. — अपने प्रयजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताओ।
- Celebrate each other's achievements. — एक-दूसरे की उपलब्धियाँ मनाओ।
- Support each other in difficult times. — मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा बनो।
- A good friend is a treasure. — एक अच्छा दोस्त एक खजाना है।
- Make time for your old friends. — पुराने दोस्तों के लिए समय निकालो।
- Don't let misunderstandings spoil relationships. — गलतफहमियों को रिश्ते खराब मत करने दो।
- Talk things out calmly. — शांति से बात करके सुलझाओ।

- We celebrate Diwali with great joy. — हम दीपावली बड़ी खुशी से मनाते हैं।
- Light the diyas in the evening. — शाम को दीये जलाओ।
- Burst crackers carefully. — सावधानी से पटाखे जलाओ।
- Wear new clothes on Eid. — ईद पर नए कपड़े पहनो।
- Prepare sevaiyan for Eid. — ईद के लिए सेवइयाँ बनाओ।
- Play Holi with colours and love. — रंगों और प्यार से होली खेलो।
- Don't use harmful colours on Holi. — होली पर हानिकारक रंग इस्तेमाल मत करो।
- Fast on auspicious occasions. — शुभ अवसरों पर उपवास करो।
- Visit the temple during festivals. — त्योहारों के समय मंदिर जाओ।
- Distribute sweets among the neighbours. — पड़ोसियों में मठाई बाँटो।
- Decorate the house with flowers. — घर को फूलों से सजाओ।
- Make rangoli at the entrance. — दरवाजे पर रंगोली बनाओ।
- Sing devotional songs together. — साथ मलकर भजन गाओ।

- Invite friends and family to celebrate. — जश्न मनाने के लिए दोस्तों और परिवार को बुलाओ।
- Send greetings to everyone. — सभी को बधाई संदेश भेजो।
- Plant more trees in your area. — अपने इलाके में और पेड़ लगाओ।
- Don't cut trees unnecessarily. — पेड़ों को अनावश्यक रूप से मत काटो।
- Use cloth bags instead of plastic. — प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करो।
- Segregate your waste properly. — कचरे को सही तरीके से अलग करो।
- Don't throw garbage on the road. — सड़क पर कूड़ा मत फेंको।
- Save water, it is precious. — पानी बचाओ, यह बहुमूल्य है।
- Turn off taps when not in use. — उपयोग में न हो तो नल बंद रखो।
- Reduce your carbon footprint. — अपना कार्बन फुट प्रिंट कम करो।
- Use public transport when possible. — जब संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करो।
- Carpool to save fuel. — ईंधन बचाने के लिए कारपूल करो।

- Recycle old newspapers and bottles. — पुराने अखबार और बोटलें रीसाइ कल करो।
- Switch to solar energy. — सौर ऊर्जा अपनाओ।
- Keep the park clean. — पार्क को साफ़ रखो।
- Join a local cleanliness drive. — स्थानीय स्वच्छता अभियान में शामिल हो।
- Teach children the importance of conservation. — बच्चों को संरक्षण का महत्व सिखाओ।
- Update your software regularly. — अपना सॉफ़्टवेयर नियमित रूप से अपडेट करो।
- Use a strong password. — मज़बूत पासवर्ड इस्तेमाल करो।
- Don't share your password with anyone. — अपना पासवर्ड किसी से साझा मत करो।
- Enable two-factor authentication. — दो-चरणीय प्रमाणीकरण चालू करो।
- Beware of online fraud. — ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहो।
- Don't click on suspicious links. — संदिग्ध लिंक पर क्लिक मत करो।
- Back up your data regularly. — अपना डेटा नियमित रूप से बैकअप करो।

- The internet connection is very slow. — इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीमा है।
- My laptop battery is dying. — मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है।
- The printer is not working. — प्रिंटर काम नहीं कर रहा।
- Install the latest version of the app. — ऐप का नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करो।
- Delete unnecessary files to free space. — जगह खाली करने के लिए अनावश्यक फ़ाइलें मटाओ।
- Your screen brightness is too high. — आपकी स्क्रीन की चमक बहुत अधिक है।
- Mute your phone during meetings. — बैठक के दौरान फ़ोन साइलेंट रखो।
- Download the form from the website. — वेबसाइट से फ़ॉर्म डाउनलोड करो।
- Submit the application online. — ऑनलाइन आवेदन जमा करो।
- Use headphones while on a call. — कॉल के दौरान हेडफ़ोन इस्तेमाल करो।
- The video call quality is very poor. — वीडियो कॉल की गुणवत्ता बहुत खराब है।

- Your microphone is on mute. — आपका माइक्रोफ़ोन म्यूट है।
- Take a screenshot and send it. — स्क्रीनशॉट लो और भेजो।
- I prefer home-cooked food. — मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है।
- I don't eat meat. — मैं माँस नहीं खाता।
- I am allergic to peanuts. — मुझे मूँगफली से एलर्जी है।
- Can I have the menu please? — क्या मुझे मेन्यू मल सकता है?
- What is the specialty of this restaurant? — इस रेस्तराँ की खा सयत क्या है?
- I would like to order first. — मैं पहले ऑर्डर देना चाहूँगा।
- Can you recommend something? — क्या आप कुछ सुझाएँगे?
- Is this dish very spicy? — क्या यह व्यंजन बहुत तीखा है?
- Please make it less spicy. — कृपया इसे कम तीखा बनाएँ।
- I want my steak medium well done. — मुझे स्टेक मी डयम वेल डन चाहिए।
- Bring some extra chapatis please. — कृपया कुछ और चपातियाँ लाइए।

- The food is taking too long. — खाने में बहुत समय लग रहा है।
- This is not what I ordered. — यह मेरा ऑर्डर नहीं था।
- The soup is too salty. — सूप बहुत नमकीन है।
- The dessert was absolutely delicious. — मठाई बिल्कुल स्वादिष्ट थी।
- Pack the leftovers, please. — कृपया बचा हुआ खाना पैक करो।
- We need one more chair at the table. — मेज़ पर एक और कुर्सी चाहिए।
- Split the bill equally. — बिल बराबर बाँट लो।
- Add a ten percent tip. — दस प्रतिशत टिप जोड़ो।
- The service here is excellent. — यहाँ की सेवा बहुत उत्कृष्ट है।
- Wake up early every morning. — हर सुबह जल्दी उठो।
- Start your day with gratitude. — अपना दिन कृतज्ञता से शुरू करो।
- Set clear goals for yourself. — अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करो।
- Break big goals into small steps. — बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में तोड़ो।

- Celebrate small victories. — छोटी जीतें भी मनाओ।
- Learn from your failures. — अपनी असफलताओं से सीखो।
- Don't compare yourself to others. — दूसरों से अपनी तुलना मत करो।
- Focus on your own journey. — अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान दो।
- Read self-improvement books. — आत्म-सुधार की कताबें पढ़ो।
- Develop a positive mindset. — सकारात्मक मान सकता वक सत करो।
- Stop overthinking. — ज़्यादा सोचना बंद करो।
- Take one step at a time. — एक समय में एक कदम उठाओ।
- Be kind to yourself. — खुद के प्रति दयालु रहो।
- Invest in your skills. — अपने कौशल में निवेश करो।
- Get out of your comfort zone. — अपने आराम की सीमा से बाहर निकलो।
- Surround yourself with positive people. — सकारात्मक लोगों के साथ रहो।
- Practice mindfulness daily. — हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करो।

- Reduce screen time before bed. — सोने से पहले स्क्रीन का समय कम करो।
- Keep a to-do list. — दैनिक कार्यसूची बनाओ।
- Prioritize your tasks. — अपने कार्यों को प्राथमिकता दो।
- In my opinion, this is wrong. — मेरी राय में, यह ग़लत है।
- I strongly agree with you. — मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ।
- I respectfully disagree. — मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूँ।
- That's an interesting point. — यह एक दिलचस्प बात है।
- I never thought of it that way. — मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था।
- You make a valid point. — आपकी बात सही है।
- I see it differently. — मेरा नज़रिया अलग है।
- Both sides have their merits. — दोनों पक्षों में अपनी-अपनी खूबियाँ हैं।
- This topic needs more research. — इस विषय पर और शोध की ज़रूरत है।
- Let's look at the facts first. — पहले तथ्यों पर नज़र डालते हैं।
- Don't jump to conclusions. — जल्दबाज़ी में निष्कर्ष पर मत पहुँचो।
- Think before you speak. — बोलने से पहले सोचो।

- Everyone is entitled to their opinion. — हर कसी को अपनी राय रखने का अधिकार है।
- I'm open to hearing your side. — मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ।
- We can agree to disagree. — हम असहमत रहते हुए भी सम्मान कर सकते हैं।
- Excuse me, where is the nearest hospital? — माफ़ कीजिए, सबसे नज़दीकी अस्पताल कहाँ है?
- How do I get to the post office? — डाकघर कैसे जाऊँगा?
- Is the market far from here? — क्या बाज़ार यहाँ से दूर है?
- Can you show me on the map? — क्या आप मुझे नक्शे पर दिखाएँगे?
- Go straight and then turn right. — सीधे जाओ और फिर दाएँ मुड़ो।
- It's just around the corner. — यह बस कोने के पास ही है।
- You can't miss it. — आप इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।
- It's about two kilometres from here. — यह यहाँ से लगभग दो किलोमीटर है।
- Cross the bridge and take the first left. — पुल पार करो और पहले बाएँ मुड़ो।

- Is there a landmark nearby? — क्या पास में कोई पहचान की जगह है?
- Go past the school and you'll find it. — स्कूल के आगे जाओ और मल जाएगा।
- I'm a little lost. Can you help me? — मैं थोड़ा भटक गया हूँ। क्या आप मदद करेंगे?
- Which road leads to the city centre? — शहर के केंद्र की ओर कौनसी सड़क जाती है?
- Is this the right direction for the station? — क्या स्टेशन के लिए यही रास्ता सही है?
- Thank you for your help. — आपकी मदद के लिए धन्यवाद।
- Calm down and let's talk. — शांत हो जाओ और बात करते हैं।
- Let's not make this a big issue. — इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ।
- I understand your frustration. — मैं आपकी निराशा समझता हूँ।
- Let's find a middle ground. — आपसी सहमति का रास्ता निकालते हैं।
- Don't raise your voice. — आवाज़ ऊँची मत करो।
- Listen to what I have to say first. — पहले मेरी बात सुनो।

- I didn't mean to hurt you. — मेरा आपको तकलीफ़ देने का इरादा नहीं था।
- Let's start over. — फर से शुरू करते हैं।
- I am willing to compromise. — मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ।
- Can we talk about this later? — क्या हम यह बाद में बात कर सकते हैं?
- Let's not involve others in this. — इसमें दूसरों को शामिल मत करो।
- I value our friendship too much to fight. — हमारी दोस्ती मुझे लड़ाई से ज़्यादा प्यारी है।
- Things said in anger are often regretted. — गुस्से में कही बातों पर अक्सर पछतावा होता है।
- I should have handled this better. — मुझे इसे बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था।
- Let's shake hands and move forward. — हाथ मलाओ और आगे बढ़ते हैं।
- Take an umbrella, it might rain. — छाता लो, बारिश हो सकती है।
- It's too humid today. — आज बहुत उमस है।
- The heatwave is unbearable. — गर्मी की लहर असहनीय है।

- Wear a sweater, it's chilly outside. — स्वेटर पहनो, बाहर ठंड है।
- The temperature has dropped. — तापमान गर गया है।
- The storm damaged many trees. — तूफ़ान ने कई पेड़ उखाड़ दिए।
- It's a perfect day for a picnic. — यह पकनिक के लिए एकदम सही दिन है।
- The sun sets early in winter. — सर्दियों में सूरज जल्दी ढलता है।
- Wear sunscreen in this heat. — इस गर्मी में सनस्क्रीन लगाओ।
- There was hail last night. — कल रात ओले पड़े।
- What is the price of this? — इसकी क्या कीमत है?
- Do you have a discount on this? — क्या इस पर कोई छूट है?
- Can I try this on? — क्या मैं यह पहनकर देख सकता हूँ?
- Do you have this in a smaller size? — क्या यह छोटे साइज़ में है?
- This is too expensive. — यह बहुत महँगा है।
- Can you lower the price a little? — क्या थोड़ा कम कर सकते हो?

- I'll think about it. — मैं सोचूँगा।
- I'll take two of these. — मैं इनमें से दो लूँगा।
- Is this product genuine? — क्या यह उत्पाद असली है?
- Do you accept returns? — क्या आप वापसी स्वीकार करते हैं?
- The product is defective. — उत्पाद में खराबी है।
- I want a replacement. — मुझे बदलाव चाहिए।
- Do you have this in another colour? — क्या यह कसी और रंग में है?
- Pack it nicely please. — कृपया इसे अच्छे से पैक करो।
- Give me the bill. — बिल दीजिए।
- You have a wonderful smile. — आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है।
- You are very talented. — आप बहुत प्रतिभाशाली हैं।
- Your singing is beautiful. — आपका गाना बहुत सुंदर है।
- You cook amazingly well. — आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं।
- I admire your patience. — मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ।
- You always know the right thing to say. — आपको हमेशा सही बात कहना आता है।

- You are such a caring person. — आप बहुत खयाल रखने वाले इंसान हैं।
- Your presentation was outstanding. — आपकी प्रस्तुति शानदार थी।
- You're doing a fantastic job. — आप बेहतरीन काम कर रहे हैं।
- I knew you could do it. — मुझे पता था आप यह कर सकते हैं।
- I'm truly sorry for what I said. — मैं जो बोला उसके लिए सच में माफ़ी चाहता हूँ।
- Please forgive me. — कृपया मुझे माफ़ करो।
- I made a mistake, I admit it. — मैंने गलती की, मैं मानता हूँ।
- It was entirely my fault. — यह पूरी तरह मेरी गलती थी।
- I promise it won't happen again. — मैं वादा करता हूँ यह दोबारा नहीं होगा।
- I should have been more careful. — मुझे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था।
- I understand if you're angry. — मैं समझता हूँ अगर आप नाराज़ हैं।
- I'll make it up to you. — मैं इसकी भरपाई करूँगा।

- Thank you for forgiving me. — मुझे माफ़ करने के लिए शुक्रिया।
- Let's put this behind us. — इसे पीछे छोड़ते हैं।
- You're invited to my birthday party. — आपको मेरी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया है।
- Please come to our home for dinner. — कृपया रात के खाने के लिए हमारे घर आइए।
- We are having a small gathering. — हम एक छोटी सी बैठक रख रहे हैं।
- Can you make it on Saturday? — क्या आप शनिवार को आ सकते हैं?
- The function starts at seven. — समारोह सात बजे शुरू होगा।
- Dress code is formal. — ड्रेस कोड औपचारिक है।
- Don't forget to RSVP. — RSVP देना मत भूलना।
- We'd love to have you join us. — हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हों।
- It will be a fun evening. — यह एक मजेदार शाम होगी।
- Bring the family along. — परिवार को साथ लाइए।
- This city is very lively. — यह शहर बहुत जीवंत है।

- The market is very crowded today. — आज बाज़ार में बहुत भीड़ है।
- This park is beautifully maintained. — यह पार्क बहुत खूबसूरती से संरक्षित है।
- The beach is absolutely stunning. — समुद्र तट बिल्कुल शानदार है।
- This is a very old monument. — यह एक बहुत पुरानी इमारत है।
- The view from the top is breathtaking. — ऊपर से शय अद्भुत है।
- The hotel has very nice facilities. — होटल में बहुत अच्छी सुवधाएँ हैं।
- This is a very quiet neighbourhood. — यह बहुत शांत इलाका है।
- The roads here are very well maintained. — यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी तरह बनी हैं।
- This village is very peaceful. — यह गाँव बहुत शांतिपूर्ण है।
- She is a very kind-hearted person. — वह बहुत दयालु इंसान है।
- He is very hardworking and dedicated. — वह बहुत मेहनती और समर्पित है।

- She speaks very confidently. — वह बहुत आत्म वश्वास से बोलती है।
- He is very funny and entertaining. — वह बहुत मज़ेदार और मनोरंजक है।
- She is very responsible and mature. — वह बहुत जिम्मेदार और परिपक्व है।
- He is someone you can always rely on. — वह एक ऐसा इंसान है जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है।
- She always sees the good in people. — वह हमेशा लोगों में अच्छाई देखती है।
- He is very creative and imaginative. — वह बहुत रचनात्मक और कल्पनाशील है।
- She is a natural leader. — वह एक स्वाभाविक नेता है।
- He is very humble despite his success. — सफलता के बाद भी वह बहुत वनम्र है।
- What time does it start? — यह कतने बजे शुरू होता है?
- I'll be there by nine sharp. — मैं ठीक नौ बजे पहुँचूँगा।
- The meeting has been postponed. — बैठक स्थगित हो गई है।
- Can we reschedule for tomorrow? — क्या हम इसे कल के लिए रख सकते हैं?

- I have back-to-back meetings today. — आज मेरी एक के बाद एक बैठकें हैं।
- Block this time in your calendar. — अपने कैलेंडर में यह समय सुरक्षित कर लो।
- Let me check my availability. — मैं अपनी उपलब्धता जाँचता हूँ।
- I'm free after three o'clock. — मैं तीन बजे के बाद खाली हूँ।
- Don't be late, it's important. — देर मत करना, यह ज़रूरी है।
- Time is very precious. — समय बहुत कीमती है।
- I feel overwhelmed right now. — मैं अभी बहुत दबाव महसूस कर रहा हूँ।
- I'm feeling very lonely these days. — मैं इन दिनों बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ।
- Something is bothering me. — कुछ मुझे परेशान कर रहा है।
- I can't explain this feeling. — मैं इस भावना को समझा नहीं सकता।
- I feel so grateful for everything. — मैं हर चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूँ।

- I'm nervous about the interview. — इंटरव्यू के बारे में घबरा रहा हूँ।
- I feel so proud of what I've achieved. — मैंने जो हा सल कया उस पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ।
- I'm feeling much better now. — मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ।
- I was very disappointed by the result. — परिणाम से मुझे बहुत निराशा हुई।
- I feel at peace when I'm in nature. — प्रकृति में रहने से मुझे शांति मलती है।
- You always make me laugh. — तुम हमेशा मुझे हँसाते हो।
- That joke was hilarious! — वह चुटकुला बहुत मजेदार था!
- Stop making me laugh, I'll cry. — मुझे हँसाना बंद करो, मैं रो दूँगा।
- You're a complete joker. — तुम तो पूरे मसखरे हो।
- I can't keep a straight face. — मैं गंभीर चेहरा नहीं रख पा रहा।
- Did you just make that up? — क्या तुमने यह अभी बनाया?
- That was the worst joke I've ever heard. — यह सबसे बेकार चुटकुला था जो मैंने सुना।

- You had me fooled for a second. — एक पल के लिए तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया।
- I needed a good laugh today. — मुझे आज एक अच्छी हँसी की ज़रूरत थी।
- Laughter is the best medicine. — हँसी सबसे अच्छी दवाई है।
- You should talk to someone about this. — आपको इस बारे में कसी से बात करनी चाहिए।
- Don't make hasty decisions. — जल्दबाज़ी में फैसले मत करो।
- Think twice before you act. — कुछ करने से पहले दो बार सोचो।
- Follow your heart but use your mind. — दिल की सुनो पर दिमाग का भी इस्तेमाल करो।
- Trust your instincts. — अपनी प्रवृत्त पर भरोसा रखो।
- Take a break if you feel burned out. — अगर थका हुआ महसूस करो तो ब्रेक लो।
- Talk to someone you trust. — कसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिस पर भरोसा हो।
- Don't bottle up your emotions. — अपनी भावनाओं को दबाओ मत।

- Seek professional help if needed. — ज़रूरत हो तो पेशेवर मदद लो।
- Everything happens for a reason. — हर चीज़ कसी कारण से होती है।
- I love painting in my free time. — खाली समय में मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है।
- I enjoy gardening on weekends. — सप्ताहांत में मुझे बागवानी करना पसंद है।
- Photography is my passion. — फ़ोटोग्राफी मेरा जुनून है।
- I've recently started learning guitar. — मैंने हाल ही में गटार सीखना शुरू किया है।
- I enjoy going for long walks. — मुझे लंबी सैर करना पसंद है।
- Cooking is both an art and a hobby. — खाना पकाना एक कला और शौक दोनों है।
- I collect stamps as a hobby. — मेरा शौक डाक टिकट इकट्ठा करना है।
- Reading mystery novels relaxes me. — रहस्य उपन्यास पढ़ना मुझे आराम देता है।
- I love traveling to new places. — मुझे नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद है।

- Birdwatching is a very calming hobby. — पक्षी-निरीक्षण बहुत शांतिदायक शौक है।
- I'm coming to visit you this Sunday. — मैं इस र ववार आपसे मलने आऊँगा।
- Please let me know if it's a good time. — कृपया बताएँ अगर समय ठीक हो।
- I brought some sweets for everyone. — मैं सभी के लए मठाई लाया हूँ।
- Your house looks lovely. — आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है।
- I hope I'm not disturbing you. — उम्मीद है मैं आपको परेशान नहीं कर रहा।
- Please don't go to any trouble. — कृपया कोई तकलीफ़ मत उठाइए।
- We had a lovely time at your place. — आपके घर बहुत अच्छा समय बिताया।
- Thank you for the warm hospitality. — गर्मजोशी से स्वागत के लए धन्यवाद।
- We must do this again soon. — हमें जल्द ही फर ऐसा करना चाहिए।

- It was wonderful being here. — यहाँ आना बहुत अच्छा लगा।
- I wake up before sunrise. — मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ।
- I meditate for fifteen minutes every morning. — मैं हर सुबह पंद्रह मिनट ध्यान करता हूँ।
- I go for a jog in the park. — मैं पार्क में जाँ गंग करने जाता हूँ।
- I prepare my own breakfast. — मैं खुद अपना नाश्ता बनाता हूँ।
- I leave for work at eight. — मैं आठ बजे काम के लिए निकलता हूँ।
- I take a short nap after lunch. — मैं दोपहर के खाने के बाद थोड़ी झपकी लेता हूँ।
- I listen to music on my way home. — घर आते समय मैं संगीत सुनता हूँ।
- I cook dinner every evening. — मैं हर शाम रात का खाना बनाता हूँ।
- I read a book before going to bed. — मैं सोने से पहले कताब पढ़ता हूँ।
- I sleep by ten every night. — मैं हर रात दस बजे तक सो जाता हूँ।

- Hello, who is speaking? — हेलो, कौन बोल रहा है?
- Can you hear me clearly? — क्या आप मुझे साफ़ सुन सकते हैं?
- The call is breaking up. — कॉल टूट रही है।
- Can you call me back? — क्या आप मुझे वापस फ़ोन कर सकते हैं?
- I'll call you in ten minutes. — मैं दस मिनट में फ़ोन करता हूँ।
- I'm in a meeting, can't talk now. — मैं बैठक में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता।
- Send me a message instead. — बजाय इसके संदेश भेजो।
- I missed your call, sorry. — आपका फ़ोन छूट गया, माफ़ी।
- The number you dialled is switched off. — आपका डायल किया नंबर बंद है।
- Please leave a voicemail. — कृपया वॉइसमेल छोड़ें।
- I have a poor signal here. — यहाँ नेटवर्क कमजोर है।
- Let me step outside to take this call. — मुझे इस कॉल के लिए बाहर जाना होगा।
- You're on speaker. — आप स्पीकर पर हैं।
- Can I put you on hold for a minute? — क्या मैं आपको एक मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ?

- Let me transfer you to the right person. — मैं आपको सही व्यक्ति से जोड़ता हूँ।
- I feel genuinely happy for you. — मैं आपके लिए सच में खुश हूँ।
- I'm filled with gratitude. — मेरा मन कृतज्ञता से भरा है।
- I feel betrayed. — मुझे विश्वासघात महसूस हो रहा है।
- I'm at a loss for words. — मेरे पास शब्द नहीं हैं।
- I'm bursting with excitement. — मैं उत्साह से भरा हूँ।
- I feel completely drained. — मैं पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा हूँ।
- I'm anxious about the future. — मैं भविष्य को लेकर चिंतित हूँ।
- I feel inspired by your story. — आपकी कहानी से मुझे प्रेरणा मिलती है।
- I'm relieved it worked out. — मुझे राहत है कि यह ठीक हो गया।
- I feel hopeful about tomorrow. — मुझे कल के बारे में उम्मीद है।
- I need to see a doctor urgently. — मुझे तुरंत डॉक्टर से मिलना है।

- Book an appointment for tomorrow. — कल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करो।
- The doctor is on rounds. — डॉक्टर राउंड पर हैं।
- Please fill out this form. — कृपया यह फॉर्म भरें।
- When was your last check-up? — आपकी आखरी जाँच कब थी?
- I have diabetes and hypertension. — मुझे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है।
- The X-ray report is normal. — एक्स-रे रिपोर्ट सामान्य है।
- You need surgery. — आपको सर्जरी की ज़रूरत है।
- The patient is out of danger. — मरीज़ खतरे से बाहर है।
- Take the medicine for five days. — पाँच दिनों तक दवाई लो।
- Apply this ointment twice a day. — यह मरहम दिन में दो बार लगाओ।
- Come back for a follow-up next week. — अगले हफ़्ते फ़ॉलो-अप के लिए आना।
- The ward is on the second floor. — वार्ड दूसरी मंजिल पर है।
- Visiting hours are from four to six. — मलने का समय चार से छह बजे है।

- The patient needs complete bed rest. — मरीज़ को पूरी बेड रेस्ट की ज़रूरत है।
- The crops are ready for harvest. — फ़सल कटाई के लिए तैयार है।
- It hasn't rained enough this season. — इस मौसम में पर्याप्त बारिश नहीं हुई।
- The soil is very fertile here. — यहाँ की मट्टी बहुत उपजाऊ है।
- Farmers work very hard every day. — किसान हर दिन बहुत कठिन परिश्रम करते हैं।
- The well has dried up. — कुआँ सूख गया है।
- We need to irrigate the fields. — हमें खेतों में संचाई करनी है।
- The mango trees are full of fruits. — आम के पेड़ फलों से भरे हैं।
- The village fair is on this weekend. — इस सप्ताहांत गाँव का मेला है।
- Life in the village is simple and peaceful. — गाँव का जीवन सरल और शांतिपूर्ण है।
- The village has no electricity at night. — गाँव में रात को बिजली नहीं होती।

- The wedding is next month. — अगले महीने शादी है।
- Have you received the wedding invitation? — क्या शादी का निमंत्रण मला?
- What gift should we take? — हम क्या उपहार ले जाएँ?
- The wedding venue is very beautiful. — शादी का स्थान बहुत सुंदर है।
- The bride looked absolutely stunning. — दुल्हन बिल्कुल अद्भुत लग रही थी।
- The groom was very nervous. — दूल्हा बहुत घबराया हुआ था।
- The wedding food was delicious. — शादी का खाना बहुत स्वादिष्ट था।
- The music was fantastic. — संगीत शानदार था।
- Congratulations to the happy couple. — जोड़े को बधाई हो।
- Wishing them a lifetime of happiness. — उन्हें जीवनभर की खुशी की शुभकामनाएँ।
- Let's plan a trip this summer. — इस गर्मियों में एक यात्रा की योजना बनाते हैं।
- Where do you want to travel? — आप कहाँ यात्रा करना चाहते हैं?

- Book the train tickets early. — ट्रेन की टिकट जल्दी बुक करो।
- Make hotel reservations in advance. — पहले से होटल बुक करो।
- Don't forget to pack essentials. — जरूरी सामान पैक करना मत भूलना।
- Carry your ID proof. — अपना पहचान प्रमाण साथ रखो।
- Make a list of places to visit. — घूमने की जगहों की सूची बनाओ।
- Try local food wherever you go. — जहाँ भी जाओ, स्थानीय खाना खाओ।
- Don't over-pack your luggage. — सामान ज्यादा मत भरो।
- Travel broadens the mind. — यात्रा सोच का दायरा बढ़ाती है।
- It was the best experience of my life. — यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव था।
- I will never forget this moment. — मैं यह पल कभी नहीं भूलूँगा।
- It was a life-changing experience. — यह एक जीवन बदलने वाला अनुभव था।

- I was speechless when I saw it. — जब मैंने इसे देखा तो बोल नहीं सका।
- The concert was absolutely amazing. — कॉन्सर्ट बिल्कुल अद्भुत था।
- That road trip was unforgettable. — वह रोड ट्रिप अ वस्मरणीय था।
- The sunrise from the mountain top was magical. — पहाड़ की चोटी से सूर्योदय जादुई था।
- Meeting that author changed my perspective. — उस लेखक से मिलने ने मेरा नज़रिया बदल दिया।
- The museum visit was very educational. — संग्रहालय की यात्रा बहुत शैक्षणिक थी।
- That was an experience I'd love to repeat. — वह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं दोहराना चाहूँगा।
- She has been working here for five years. — वह पाँच सालों से यहाँ काम कर रही है।
- They had already left before I arrived. — वे मेरे पहुँचने से पहले ही चले गए थे।
- He will have finished by tomorrow morning. — वह कल सुबह तक पूरा कर लेगा।

- I am going to visit Jaipur next week. — मैं अगले सप्ताह जयपुर जाने वाला हूँ।
- She was reading a novel when I called. — जब मैंने फ़ोन किया वह उपन्यास पढ़ रही थी।
- Could you please pass me the water? — क्या आप कृपया मुझे पानी दे सकते हैं?
- I wish I had studied harder. — काश मैंने और मेहनत से पढ़ा होता।
- If it rains, we will cancel the trip. — अगर बारिश हुई तो हम यात्रा रद्द कर देंगे।
- He speaks as if he knows everything. — वह ऐसे बोलता है जैसे सब कुछ जानता हो।
- The book was written by a famous author. — यह किताब एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखी थी।
- Did you watch the match last night? — क्या आपने कल रात मैच देखा?
- The office pantry has new coffee. — दफ़्तर की पेंट्री में नई कॉफी आई है।
- It's been such a busy week. — यह बहुत व्यस्त हफ़्ता रहा।
- Do you want to grab lunch together? — क्या साथ में लंच करेंगे?

- The conference room is already booked. — कॉन्फ्रेंस रूम पहले से बुक है।
- There's a team outing planned next month. — अगले महीने टीम आउटिंग की योजना है।
- Have you heard the news about the new project? — क्या आपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सुना?
- The manager was very happy with our work. — मैनेजर हमारे काम से बहुत खुश थे।
- It's someone's birthday today in the office. — आज दफ्तर में कसी का जन्मदिन है।
- Let's order cake for the celebration. — जश्न के लिए केक मँगवाते हैं।
- Life is what you make of it. — जिंदगी वही है जो आप बनाते हैं।
- Every day is a new opportunity. — हर दिन एक नया अवसर है।
- The struggle makes you stronger. — संघर्ष आपको मजबूत बनाता है।
- Success is a journey, not a destination. — सफलता एक यात्रा है, मंज़िल नहीं।

- Small steps lead to great heights. — छोटे-छोटे कदम बड़ी ऊँचाइयों तक ले जाते हैं।
- Never stop dreaming. — सपने देखना कभी मत छोड़ो।
- Patience is a virtue. — धैर्य एक गुण है।
- Change is the only constant. — परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है।
- Actions speak louder than words. — कर्म शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं।
- The best time to start is now. — शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है।
- Failure is the stepping stone to success. — असफलता सफलता की सीढ़ी है।
- Your attitude determines your direction. — आपका रवैया आपकी दिशा तय करता है।
- Don't wait for the perfect moment. — सही पल का इंतज़ार मत करो।
- Be the change you wish to see. — वह बदलाव बनो जो आप देखना चाहते हो।
- Great things take time. — महान चीज़ें समय लेती हैं।
- Did you see my post on Instagram? — क्या आपने Instagram पर मेरी पोस्ट देखी?

- I got so many likes on that photo. — उस फ़ोटो पर बहुत सारे लाइक मले।
- Follow my page for daily updates. — रोज़ाना अपडेट के लिए मेरा पेज फ़ॉलो करो।
- Share this with your friends. — इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
- I went live on YouTube last night. — कल रात मैं YouTube पर लाइव गया।
- That video went viral. — वह वीडियो वायरल हो गई।
- Don't believe everything you read online. — ऑनलाइन पढ़ी हर बात पर भरोसा मत करो।
- Fake news spreads very fast. — फर्जी खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं।
- Report the spam message. — स्पैम संदेश रिपोर्ट करो।
- Block that account immediately. — उस अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करो।
- The earth revolves around the sun. — पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।
- Water is made of hydrogen and oxygen. — पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है।

- Light travels faster than sound. — प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है।
- The human body has 206 bones. — मानव शरीर में 206 हड्डियाँ हैं।
- Plants make their own food through photosynthesis. — पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं।
- The moon is a natural satellite of earth. — चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है।
- Gravity holds everything to the ground. — गुरुत्वाकर्षण सब कुछ ज़मीन से जोड़े रखता है।
- Electricity flows through conductors. — बिजली चालकों के through प्रवाहित होती है।
- Antibiotics fight bacterial infections. — एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से लड़ते हैं।
- Dinosaurs went extinct millions of years ago. — डायनासोर लाखों साल पहले विलुप्त हो गए।
- I can't believe my eyes! — मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा!
- This is beyond my imagination. — यह मेरी कल्पना से परे है।

- I had no idea this would happen. — मुझे नहीं पता था यह होगा।
- You never cease to amaze me. — आप मुझे हमेशा चकित करते रहते हैं।
- I'm completely stunned. — मैं पूरी तरह स्तब्ध हूँ।
- Absolutely, I agree with you completely. — बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ।
- You're right, that's a great point. — आप सही हैं, यह एक अच्छी बात है।
- I think so too. — मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ।
- That's exactly what I was thinking. — यही मैं सोच रहा था।
- We're on the same page. — हम एक ही पृष्ठ पर हैं।
- I'm not sure I agree with that. — मुझे नहीं लगता मैं इससे सहमत हूँ।
- That's not how I see it. — मैं इसे इस तरह नहीं देखता।
- I beg to differ. — मैं इससे असहमत हूँ।
- With all due respect, that's incorrect. — पूरे सम्मान के साथ, यह ग़लत है।
- I see your point, but I disagree. — मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं असहमत हूँ।
- Give me two dozen bananas. — मुझे दो दर्जन केले दो।

- There are fifty students in the class. — कक्षा में पचास छात्र हैं।
- Add five hundred rupees to the account. — खाते में पाँच सौ रुपये जमा करो।
- The building has twelve floors. — इमारत में बारह मंजिलें हैं।
- I need three kilograms of flour. — मुझे तीन किलोग्राम आटा चाहिए।
- The train arrives at platform number four. — ट्रेन चार नंबर प्लेटफ़ॉर्म पर आएगी।
- There are seven days in a week. — सप्ताह में सात दिन होते हैं।
- The temperature today is forty degrees. — आज तापमान चालीस डिग्री है।
- I need one hundred sheets of paper. — मुझे एक सौ कागज़ के पन्ने चाहिए।
- Call me at extension number two twenty five. — मुझे एक्सटेंशन नंबर दो सौ पच्चीस पर फ़ोन करो।
- Every citizen has the right to vote. — हर नागरिक को मतदान का अधिकार है।

- You should register to vote. — आपको मतदाता पंजीकरण कराना चाहिए।
- Obey the law at all times. — हर समय कानून का पालन करो।
- Report any crime immediately. — कसी भी अपराध की तुरंत सूचना दो।
- Everyone is equal before the law. — कानून के सामने सभी बराबर हैं।
- Pay your taxes on time. — समय पर कर जमा करो।
- You have the right to remain silent. — आपको चुप रहने का अधिकार है।
- Contact a lawyer if needed. — जरूरत हो तो वकील से संपर्क करो।
- File an FIR at the police station. — पुलिस थाने में FIR दर्ज करो।
- Keep your documents safe. — अपने दस्तावेज सुरक्षित रखो।
- India has a very rich cultural heritage. — भारत की बहुत समृद्ध सांस्कृतिक वरासत है।
- Classical music is very soothing. — शास्त्रीय संगीत बहुत सुकून देता है।

- I love watching classical dance performances. — मुझे शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन देखना बहुत पसंद है।
- This painting has deep meaning. — इस पेंटिंग का गहरा अर्थ है।
- Folk art reflects local traditions. — लोक कला स्थानीय परंपराओं को दर्शाती है।
- The sculpture is very intricate. — मूर्तिकला बहुत जटिल है।
- Literature preserves history. — साहित्य इतिहास को संरक्षित करता है।
- Cinema is a powerful medium of expression. — सिनेमा अभिव्यक्ति का शक्तिशाली माध्यम है।
- Theatre teaches us empathy. — रंगमंच हमें सहानुभूति सिखाता है।
- Every language has its own beauty. — हर भाषा की अपनी सुंदरता होती है।
- My dog follows me everywhere. — मेरा कुत्ता हर जगह मेरे पीछे आता है।
- The parrot can speak a few words. — तोता कुछ शब्द बोल सकता है।
- Cows are sacred in India. — भारत में गाय पवित्र मानी जाती है।

- The cat is sleeping on the sofa. — बिल्ली सोफे पर सो रही है।
- Feed the fish twice a day. — मछली को दिन में दो बार खाना दो।
- That dog is very friendly. — वह कुत्ता बहुत मलनसार है।
- Don't go near the stray dog. — आवारा कुत्ते के पास मत जाओ।
- The zoo has over two hundred species. — च इयाघर में दो सौ से अ धक प्रजातियाँ हैं।
- Birds migrate in winter. — पक्षी सर्दियों में प्रवास करते हैं।
- Wild animals should not be kept as pets. — जंगली जानवरों को पालतू नहीं रखना चाहिए।
- Call the police immediately. — तुरंत पुलिस को बुलाओ।
- There has been an accident here. — यहाँ एक दुर्घटना हुई है।
- An ambulance is needed urgently. — तुरंत एम्बुलेंस की जरूरत है।
- Fire! Everyone get out quickly! — आग! सभी जल्दी बाहर निकलो!
- Call the fire brigade. — अग्निशमन वभाग को बुलाओ।
- Don't panic. Stay calm. — घबराओ मत। शांत रहो।

- My bag has been stolen. — मेरा बैग चोरी हो गया।
- A child is missing. — एक बच्चा गुम है।
- The road is blocked due to flooding. — बाढ़ के कारण सड़क बंद है।
- Evacuate the building immediately. — इमारत तुरंत खाली करो।
- Government schools need more resources. — सरकारी स्कूलों को और संसाधनों की ज़रूरत है।
- Mid-day meals help keep kids in school. — मध्याह्न भोजन बच्चों को स्कूल में रखने में मदद करता है।
- Scholarships help deserving students. — छात्रवृत्त योग्य छात्रों की मदद करती है।
- Digital education is the future. — डिजिटल शिक्षा भविष्य है।
- Every child deserves quality education. — हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।
- Girls' education is very important. — लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है।
- Dropout rates must be reduced. — स्कूल छोड़ने की दर कम होनी चाहिए।

- Teachers are the builders of the nation. — शक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं।
- Vocational training builds practical skills. — व्यावसायिक प्र शक्षण व्यावहारिक कौशल बनाता है।
- Higher education opens more opportunities. — उच्च शक्षा अ धक अवसर खोलती है।
- Eat a balanced diet every day. — हर दिन संतु लत आहार लो।
- Limit your intake of oily food. — तैलीय खाने की मात्रा कम करो।
- Avoid smoking and alcohol. — धूम्रपान और शराब से बचो।
- Get regular health check-ups done. — निय मत स्वास्थ्य जाँच करवाओ।
- Wear sunscreen before going outdoors. — बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाओ।
- Stay hydrated throughout the day. — पूरे दिन पानी पीते रहो।
- Stretching in the morning prevents injury. — सुबह स्ट्रे चंग चोट से बचाती है।
- Don't ignore early warning signs. — शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज मत करो।

- Mental health is just as important. — मान सक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है।
- Take care of your teeth. — अपने दाँतों का ध्यान रखो।
- What book are you reading these days? — आप इन दिनों कौनसी कताब पढ़ रहे हैं?
- This novel is very gripping. — यह उपन्यास बहुत रोचक है।
- I couldn't put the book down. — मैं कताब रखना नहीं चाहता था।
- The author has a brilliant writing style. — लेखक की शैली बहुत शानदार है।
- I prefer non-fiction books. — मुझे गैर-काल्पनिक कताबें ज्यादा पसंद हैं।
- This biography is very inspiring. — यह जीवनी बहुत प्रेरणादायक है।
- Have you read any books by Premchand? — क्या आपने प्रेमचंद की कोई कताब पढ़ी है?
- I have a large collection of books. — मेरे पास कताबों का बड़ा संग्रह है।
- Buy a new book for the journey. — यात्रा के लिए एक नई कताब खरीदो।

- E-books are very convenient. — ई-बुक्स बहुत सु वधाजनक हैं।
- Please knock before entering. — अंदर आने से पहले दस्तक दें।
- I'm sorry to interrupt, but this is urgent. — बाधा के लिए खेद है, लेकिन यह ज़रूरी है।
- Thank you for your patience. — आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।
- I'll get back to you on this. — मैं इस पर आपको वापस जानकारी दूँगा।
- Please copy me in on that email. — उस ईमेल में मुझे भी CC करें।
- Can you clarify what you mean? — क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं आपका क्या मतलब है?
- I'll handle this personally. — मैं इसे खुद संभाल लूँगा।
- Please keep me updated. — कृपया मुझे अपडेट रखें।
- Good work deserves recognition. — अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए।
- Let's debrief after the presentation. — प्रस्तुति के बाद मलकर समीक्षा करते हैं।

- Would you mind helping me with this? — क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे?
- Could you speak a little slower? — क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं?
- May I borrow your pen? — क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ?
- Would it be possible to meet tomorrow? — क्या कल मलना संभव होगा?
- Please let me know in advance. — कृपया पहले से बताएँ।
- Could you please repeat that? — क्या आप कृपया दोहराएँगे?
- Would you like some water? — क्या आप कुछ पानी लेंगे?
- Do you mind if I open the window? — क्या आपको आप त है अगर मैं खड़की खोलूँ?
- Is it okay if I leave early today? — क्या आज जल्दी जाना ठीक होगा?
- Could you pass this message along? — क्या आप यह संदेश आगे पहुँचा सकते हैं?
- There's a little left, not much. — थोड़ा बचा है, ज़्यादा नहीं।
- I have plenty of time. — मेरे पास काफ़ी समय है।

- There's not enough sugar in the tea. — चाय में पर्याप्त चीनी नहीं है।
- We need a lot more people for this project. — इस परियोजना के लिए हमें और लोग चाहिए।
- Just a little bit, thank you. — बस थोड़ा सा, धन्यवाद।
- There's too much salt in the food. — खाने में बहुत ज़्यादा नमक है।
- Half of it will be enough. — आधा काफी होगा।
- Take as much as you need. — जितना चाहिए उतना ले लो।
- It's more than enough. — यह काफी से ज़्यादा है।
- Give me a small portion. — मुझे छोटी मात्रा दो।
- Don't skip meals. — खाना छोड़ो मत।
- Eat slowly and chew well. — धीरे-धीरे खाओ और अच्छे से चबाओ।
- Avoid eating late at night. — रात को देर से खाना खाने से बचो।
- Walk after every meal. — हर खाने के बाद टहलो।
- Reduce your caffeine intake. — कैफ़ीन का सेवन कम करो
 -
- Spend time outdoors every day. — हर दिन बाहर समय बिताओ।

- Connect with nature for peace of mind. — मन की शांति के लिए प्रकृति से जुड़ो।
- Talk to a friend when you feel low. — जब मन उदास हो तो किसी दोस्त से बात करो।
- Laugh every day for good health. — अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर दिन हँसो।
- Self-care is not selfish. — खुद का खयाल रखना स्वार्थ नहीं है।
- India is a land of diversity. — भारत विविधताओं की भूमि है।
- Our national language is Hindi. — हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है।
- The Taj Mahal is a wonder of the world. — ताजमहल दुनिया का अजूबा है।
- We are proud of our rich history. — हमें अपने समृद्ध इतिहास पर गर्व है।
- Unity in diversity is our strength. — विविधता में एकता हमारी शक्ति है।
- Our soldiers protect the nation. — हमारे सैनिक राष्ट्र की रक्षा करते हैं।

- The national flag represents our pride. — राष्ट्रीय ध्वज हमारे गर्व का प्रतीक है।
- Republic Day is celebrated on January 26th. — गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है।
- Independence Day fills us with patriotism. — स्वतंत्रता दिवस हममें देशभक्ति भरता है।
- We should respect our constitution. — हमें अपने संवधान का सम्मान करना चाहिए।
- Carry a raincoat just in case. — सावधानी के लिए रेनकोट साथ रखो।
- The humidity makes it feel much hotter. — उमस से गर्मी और ज़्यादा लगती है।
- It snowed heavily in the mountains. — पहाड़ों में बहुत बर्फ़बारी हुई।
- Wear warm clothes in this cold. — इस ठंड में गर्म कपड़े पहनो।
- The roads are slippery after rain. — बारिश के बाद सड़कें फिसलन भरी हैं।
- Follow the instructions carefully. — निर्देशों का ध्यान से पालन करो।

- Read the manual before using. — उपयोग से पहले मैनुअल पढ़ो।
- Fill in all the required fields. — सभी ज़रूरी स्थान भरें।
- Press the button on the left. — बाईं ओर का बटन दबाओ।
- Wait for the confirmation message. — पुष्टि संदेश का इंतज़ार करो।
- Click on the submit button. — सब मट बटन पर क्लिक करो।
- Enter your date of birth. — अपनी जन्मतिथ दर्ज करो।
- Select the correct option. — सही विकल्प चुनो।
- Sign at the bottom of the page. — पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर करो।
- Attach the required documents. — ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करो।
- How does this work? — यह कैसे काम करता है?
- Why is the sky blue? — आकाश नीला क्यों है?
- What makes a rainbow form? — इंद्रधनुष कैसे बनता है?
- I wonder what lies beyond the stars. — मैं सोचता हूँ तारों के परे क्या है।
- Isn't it amazing how nature works? — क्या यह अद्भुत नहीं कि प्रकृति कैसे काम करती है?

- I find history very fascinating. — मुझे इतिहास बहुत रोचक लगता है।
- Why do we dream when we sleep? — सोते समय हम सपने क्यों देखते हैं?
- How deep is the ocean? — समुद्र कतना गहरा है?
- What is the universe made of? — ब्रह्मांड कससे बना है?
- I love learning about ancient civilizations. — मुझे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानना बहुत पसंद है।
- Congratulations on your graduation! — स्नातक पर बधाई!
- You've done something truly remarkable. — आपने वाकई कुछ उल्लेखनीय किया है।
- I'm so proud of how far you've come. — आप कतनी दूर आए हैं इस पर मुझे गर्व है।
- This is just the beginning for you. — यह तो आपके लिए बस शुरुआत है।
- Your hard work has finally paid off. — आपकी मेहनत आ खरकार रंग लाई।
- You deserved this more than anyone. — आप इसके सबसे ज्यादा हकदार थे।
- May you achieve even greater things ahead. — आगे आप और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करें।

- The team is proud of what you've accomplished. — टीम को आपकी उपलब्धि पर गर्व है।
- Your dedication is truly inspiring. — आपकी लगन वाकई प्रेरणादायक है।
- Three cheers for the winner! — वजेता के लिए तीन जयकार!
- We've run out of cooking oil. — खाना पकाने का तेल खत्म हो गया है।
- Get a big bag of rice. — चावल का बड़ा थैला लाओ।
- Buy fresh vegetables from the market. — बाज़ार से ताज़ी सब्ज़ियाँ लाओ।
- We need a new mop for the floor. — फ़र्श के लिए नया पोंछा चाहिए।
- Get some washing powder. — कुछ वॉशिंग पाउडर लाओ।
- Buy a new toothbrush. — नया टूथब्रश खरीदो।
- We need a fresh bar of soap. — नई साबुन की बट्टी चाहिए।
- Don't forget the matchboxes. — माचिस लाना मत भूलना।
- Pick up two litres of milk. — दो लीटर दूध लाओ।
- Get some fresh fruit for the kids. — बच्चों के लिए ताज़े फल लाओ।

- Spring is the season of flowers. — बसंत फूलों का मौसम है।
- Summer is very harsh this year. — इस साल गर्मी बहुत कठोर है।
- Monsoon brings relief from the heat. — मानसून गर्मी से राहत दिलाता है।
- Autumn is beautiful with golden leaves. — सुनहरी पत्तियों से शरद ऋतु सुंदर होती है।
- Winter nights are very long. — सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं।
- The fragrance of soil after rain is lovely. — बारिश के बाद मट्टी की खुशबू बहुत अच्छी होती है।
- The hills look misty in winter. — सर्दियों में पहाड़ियाँ धुंधली दिखती हैं।
- The river overflowed this monsoon. — इस मानसून नदी ने तट तोड़ दिए।
- Migratory birds arrived last week. — प्रवासी पक्षी पछले हफ्ते आए।
- The fields are green after the rain. — बारिश के बाद खेत हरे-भरे हैं।

- Children learn what they see at home. — बच्चे घर में जो देखते हैं वही सीखते हैं।
- Spend quality time with your children. — बच्चों के साथ अच्छा समय बिताओ।
- Listen to what your child is saying. — अपने बच्चे की बात सुनो।
- Praise your child's efforts, not just results. — बच्चे के प्रयास की तारीफ करो, सर्फ नतीजों की नहीं।
- Teach children the value of money. — बच्चों को पैसे की कीमत सखाओ।
- Let children make some decisions themselves. — बच्चों को कुछ फैसले खुद लेने दो।
- Don't compare siblings with each other. — भाई-बहनों की आपस में तुलना मत करो।
- Encourage creativity in children. — बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा दो।
- Read stories to children every night. — हर रात बच्चों को कहानियाँ पढ़ो।
- Children need love more than anything. — बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है।

- I prefer tea over coffee. — मुझे कॉफी से ज़्यादा चाय पसंद है।
- I'd rather stay home today. — मैं आज घर पर रहना पसंद करूँगा।
- I like mornings better than evenings. — मुझे शाम से ज़्यादा सुबह पसंद है।
- I enjoy silence while working. — काम करते समय मुझे शांति पसंद है।
- I prefer walking to driving short distances. — छोटी दूरी के लिए मैं गाड़ी की जगह पैदल चलना पसंद करता हूँ।
- I like things to be organized. — मुझे चीज़ें व्यवस्थित रखना पसंद है।
- I'd prefer a window seat. — मैं खड़की के पास वाली सीट पसंद करूँगा।
- I like sweet things more than savoury. — मुझे नमकीन से ज़्यादा मीठा पसंद है।
- I find nature more relaxing than cities. — मुझे शहर से ज़्यादा प्रकृति आरामदायक लगती है।
- I'd choose experience over things any day. — मैं हमेशा वस्तुओं की जगह अनुभव चुनूँगा।

- This chair is very comfortable. — यह कुर्सी बहुत आरामदायक है।
- The bag is made of genuine leather. — बैग असली चमड़े का बना है।
- This pen writes very smoothly. — यह पेन बहुत अच्छे से लिखता है।
- The lamp gives a warm light. — लैंप गर्म रोशनी देता है।
- This table is very sturdy. — यह मेज़ बहुत मज़बूत है।
- The frame is cracked. — फ्रेम में दरार आ गई है।
- The lid doesn't fit properly. — ढक्कन ठीक से नहीं लगता।
- The clock has stopped working. — घड़ी काम करना बंद हो गई है।
- The screen has a scratch on it. — स्क्रीन पर एक खरोंच है।
- This knife is very sharp. — यह चाकू बहुत तेज़ है।
- I dream of starting my own business. — मैं अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता हूँ।
- I want to travel the whole world. — मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ।
- My goal is to make my parents proud. — मेरा लक्ष्य माता-पिता को गर्वित करना है।

- I hope to write a book someday. — मुझे उम्मीद है क एक दिन कताब लखूँगा।
- I want to make a difference in the world. — मैं दुनिया में बदलाव लाना चाहता हूँ।
- She dreams of becoming a great scientist. — वह एक महान वैज्ञानिक बनने का सपना देखती है।
- I aspire to be financially independent. — मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ।
- He wants to build a school in his village. — वह अपने गाँव में एक स्कूल बनाना चाहता है।
- I'd love to learn to play the piano. — मैं पयानो बजाना सीखना चाहूँगा।
- Dreaming big is the first step to achieving. — बड़े सपने देखना सफलता का पहला कदम है।
- Could you write that down for me? — क्या आप वह मेरे लिए लख देंगे?
- I'll confirm once I check. — जाँचने के बाद पुष्टि करूँगा।
- Let me double-check this. — मुझे इसे दोबारा जाँचने दो।
- I think there's been a misunderstanding. — मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है।

- Let me explain it differently. — मैं इसे अलग तरह से समझाता हूँ।
- Can we start from the beginning? — क्या हम शुरू से शुरू कर सकते हैं?
- Give me a moment to think. — मुझे सोचने का एक पल दो।
- That's a very tough question. — यह बहुत कठिन सवाल है।
- I don't have a definite answer yet. — मेरे पास अभी कोई निश्चित जवाब नहीं है।
- Let's take this one step at a time. — एक-एक कदम करके आगे बढ़ते हैं।
- What's for dinner tonight? — आज रात के खाने में क्या है?
- Shall we watch a movie tonight? — क्या आज रात फ़िल्म देखें?
- Which channel should we watch? — हम कौनसा चैनल देखें?
- The internet is too slow for streaming. — स्ट्रीमिंग के लिए इंटरनेट बहुत धीमा है।
- Can you lower the volume? — क्या आप आवाज़ कम कर सकते हैं?
- This show is very boring. — यह शो बहुत उबाऊ है।

- This movie got very good reviews. — इस फ़िल्म को बहुत अच्छी समीक्षाएँ मलीं।
- Let's plan a movie night this Friday. — इस शुक्रवार मूवी नाइट की योजना बनाते हैं।
- I fell asleep in the middle of the film. — फ़िल्म के बीच में मुझे नींद आ गई।
- The ending was completely unexpected. — अंत पूरी तरह से अप्रत्याशित था।
- It was really great meeting you today. — आज आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा।
- I'll miss you when you're gone. — जब आप चले जाएँगे तो मुझे आपकी याद आएगी।
- Travel safe and stay in touch. — सुरक्षित यात्रा करो और संपर्क में रहो।
- We'll meet again very soon. — हम जल्द ही फिर मिलेंगे।
- It was a pleasure spending time with you. — आपके साथ समय बिताना बहुत सुखद था।
- Wishing you all the best for the future. — आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ।
- Don't be a stranger. — दूरी मत बनाओ।
- Come back soon. — जल्दी वापस आओ।

- We'll always remember this time together. — हम हमेशा इस साथ बिताए समय को याद करेंगे।
- Until we meet again, take care. — जब तक दोबारा मलें, अपना खयाल रखो।
- Vote in every election. — हर चुनाव में मतदान करो।
- Don't litter in public places. — सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा मत फेंको।
- Respect public property. — सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करो।
- Stand in the queue properly. — कतार में सही से खड़े रहो।
- Help elderly people cross the road. — बुजुर्गों को सड़क पार करने में मदद करो।
- Be a responsible citizen. — एक जिम्मेदार नागरिक बनो।
- Spread awareness, not rumors. — अफवाहें नहीं, जागरूकता फैलाओ।
- Follow all COVID and health guidelines. — सभी स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करो।
- Participate in community development. — सामुदायिक विकास में भाग लो।
- Keep public toilets clean. — सार्वजनिक शौचालयों को साफ़ रखो।

- Your best is always good enough. — आपका सर्वश्रेष्ठ हमेशा काफ़ी होता है।
- Progress, not perfection, is the goal. — लक्ष्य पूर्णता नहीं, प्रगति है।
- Keep pushing, you're almost there. — लगे रहो, आप लगभग पहुँच गए हो।
- The hardest battles make the strongest warriors. — सबसे कठिन लड़ाइयाँ सबसे मज़बूत योद्धा बनाती हैं।
- One day you'll look back and smile. — एक दिन आप पीछे मुड़कर मुस्कराएँगे।
- You are capable of more than you know. — आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कर सकते हैं।
- Don't let fear stop you. — डर को आपको रोकने मत दो।
- The world needs what you have to offer. — दुनिया को आपसे कुछ मलने वाला है।
- Your story isn't over yet. — आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
- Rise every time you fall. — हर बार जब गरो, उठ जाओ।
- The library closes at eight tonight. — पुस्तकालय आज रात आठ बजे बंद होगी।

- Kindness costs nothing but means everything. — दयालुता में कोई कीमत नहीं, पर यह सब कुछ मायने रखती है।
- She finished the marathon despite the pain. — दर्द के बावजूद उसने मैराथन पूरी की।
- The teacher inspired generations of students. — शिक्षक ने छात्रों की पीढ़ियों को प्रेरित किया।
- We should help those less fortunate. — हमें कम भाग्यशाली लोगों की मदद करनी चाहिए।
- Little acts of kindness go a long way. — दयालुता के छोटे कार्य बहुत काम आते हैं।
- The pen is mightier than the sword. — कलम तलवार से ताकतवर होती है।
- A picture is worth a thousand words. — एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है।
- Time once gone never comes back. — गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
- Respect is earned, not demanded. — सम्मान माँगा नहीं जाता, कमाया जाता है।
- Never judge a book by its cover. — कसी को ऊपरी रूप से मत आँको।

- A stitch in time saves nine. — समय पर कया काम बड़ा काम बचाता है।
- Honesty is the best policy. — ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
- Where there is a will, there is a way. — जहाँ चाह वहाँ राह
◦
- All that glitters is not gold. — जो चमकता है वह सोना नहीं होता।
- An empty vessel makes the most noise. — खाली बर्तन सबसे ज़्यादा शोर करता है।
- United we stand, divided we fall. — एकता में बल है, बिखरने में पतन।
- The early bird catches the worm. — जो जल्दी उठता है, वह सफल होता है।
- Too many cooks spoil the broth. — ज़्यादा राय से काम बिगड़ता है।
- Blood is thicker than water. — खून पानी से गाढ़ा होता है।
- Every cloud has a silver lining. — हर मुश्किल में उम्मीद की करण होती है।
- Look before you leap. — करने से पहले सोच लो।

- Don't count your chickens before they hatch. — मुर्गी के अंडे सेने से पहले हिसाब मत लगाओ।
- Necessity is the mother of invention. — आवश्यकता आ वष्कार की जननी है।
- Actions have consequences. — कर्मों के परिणाम होते हैं।
- Charity begins at home. — परोपकार की शुरुआत घर से होती है।
- Fortune favors the brave. — भाग्य साहसी का साथ देता है
 -
- Old habits die hard. — पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटतीं।
- You reap what you sow. — जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
- There is no shortcut to success. — सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं।
- Health is wealth. — स्वास्थ्य ही संपत्ति है।
- Time is money. — समय ही धन है।
- No pain, no gain. — बिना मेहनत के फल नहीं मिलता।
- Better late than never. — देर से आना न आने से बेहतर है।
- Knowledge is the greatest wealth. — ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है।
- A friend in need is a friend indeed. — मुश्किल में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त है।

- The journey of a thousand miles begins with one step. — हजार मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है।
- You cannot please everyone. — आप सभी को खुश नहीं कर सकते।
- What you resist persists. — जिससे भागते हो वह पीछा करता है।
- Where focus goes, energy flows. — जहाँ ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा जाती है।
- The present moment is a gift. — वर्तमान पल एक उपहार है।
- Gratitude turns what you have into enough. — कृतज्ञता जो है उसे पर्याप्त बना देती है।
- Silence is sometimes the best answer. — कभी-कभी चुप्पी सबसे अच्छा जवाब होता है।
- Your words have power. — आपके शब्दों में शक्ति है।
- Choose kindness always. — हमेशा दयालुता चुनो।
- A smile can change someone's day. — एक मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है।
- The world becomes better with every good deed. — हर अच्छे काम से दुनिया बेहतर होती है।

- Don't wait for permission to be great. — महान बनने के लिए कसी की अनुमति का इंतज़ार मत करो।
- Teach what you know. — जो जानते हो वह सखाओ।
- Help someone today without reason. — बिना वजह आज कसी की मदद करो।
- Leave every place better than you found it. — जहाँ जाओ वहाँ से बेहतर छोड़ कर आओ।
- Your energy affects everyone around you. — आपकी ऊर्जा आपके आसपास के सभी को प्रभावित करती है।
- Live fully, love deeply, laugh freely. — पूरी तरह जियो, गहराई से प्यार करो, खुलकर हँसो।
- Life is too short for regrets. — जीवन पछतावे के लिए बहुत छोटा है।
- Make memories, not just moments. — पल नहीं, यादें बनाओ
-
- The best investment is in yourself. — सबसे अच्छा निवेश खुद में है।
- Keep your promises. — अपने वादे निभाओ।
- Do what you love, love what you do. — जो पसंद हो वह करो, जो करो उसे पसंद करो।

- Be the reason someone smiles today. — आज कसी की मुस्कान का कारण बनो।
- Count your blessings every day. — हर दिन अपनी नेमतें गनो।
- Kindness is a language everyone understands. — दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे सब समझते हैं।
- The greatest glory is in rising every time we fall. — सबसे बड़ी महिमा हर बार गरकर उठने में है।
- You are enough just as you are. — आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं।
- Live today like it's the best day of your life. — आज इस तरह जियो जैसे यह आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन है।
- Every morning is a chance to begin again. — हर सुबह एक बार फर शुरू करने का मौका है।
- Do you think this is your father's road? — क्या ये तुम्हारे बाप का रास्ता है?
- Who said? — कसने बोला?
- Are you mad or what? — पागल है क्या?
- Don't you have any shame? — कुछ शरम नहीं है?
- What's it to you? — तेरा क्या जा रहा है?
- Then what? / Of course! — फर क्या!

- Oh come on, yaar! — क्या यार!
- I swear on my mother. — माँ कसम।
- It'll be a lot of fun. — बहुत मज़ा आएगा।
- There's nothing to it. — उसमें क्या है।
- Exactly! / That's the one. — वही तो।
- Is that so? — ऐसा क्या?
- What does that even mean? — मतलब क्या?
- Don't act too smart. — ज़्यादा हो शयारी मत दिखा।
- Don't stare at me like that. — ऐसे घूर मत।
- Don't poke your nose in my business. — मेरे मामले में टाँग मत अड़ा।
- You talk too much. — तू बहुत बोलता है।
- Don't butter me up. — मुझे मक्खन मत लगा।
- Get lost from here! — यहाँ से भाग जा!
- What nonsense are you talking? — क्या बकवास कर रहा है?
- You've really messed it up. — तूने तो पूरी वाट लगा दी।
- Now get out of my sight. — अब मेरी नज़रों से दूर हो जा।
- Don't be so stingy, yaar. — इतना कंजूस मत बन यार।
- You're a total loser. — तू तो निकम्मा है एकदम।
- Don't act innocent. — भोला मत बन।

- There's some problem with your brain. — तेरे दिमाग में कुछ तो खराबी है।
- Did you see how he got roasted? — देखा कैसे उसकी बेंड बजी?
- I got really scared. — मेरी तो फट गई।
- He's a very cunning guy. — वो बहुत चालू आदमी है।
- I got ripped off today. — आज तो मेरी जेब कट गई।
- I had to run away to save myself. — जान बचाकर भागना पड़ा।
- Today I'm going to get him. — आज उसकी खैर नहीं।
- What's going on in your mind? — तेरे दिमाग में क्या चल रहा है?
- You are of no use. — तुम कसी काम के नहीं हो।
- You've gone crazy! — तेरा दिमाग खराब हो गया है!
- Put your phone down for two minutes. — दो मिनट के लिए अपना फ़ोन नीचे रख दे।
- The house looks like a wedding hall. — घर तो शादी के हॉल जैसा लग रहा है।
- The gas is about to run out. — गैस खत्म होने वाली है।
- The mixer-grinder is making a loud noise. — मक्सर-ग्राइंडर से बहुत आवाज़ आ रही है।

- Turn off the light, you're not paying the bill. — लाइट बंद कर, तेरा बाप बिल भरता है?
- You just keep lying down all day. — तुम तो सारा दिन पड़े ही रहते हो।
- When will you learn to do some work? — कब सीखोगे थोड़ा काम करना?
- Don't give me that look. — मुझे वो वाला चेहरा मत दिखाओ।
- I've told you a thousand times. — हजार बार बोला है तुम्हें।
- Keep the slippers properly. — चप्पल सीधी रखो।
- Who left the tap running? — नल कसने खुला छोड़ दिया?
- Are you deaf or what? — बहरे हो क्या?
- I've just cleaned the whole house. — मैंने अभी-अभी पूरा घर साफ किया था।
- Everyone only knows how to mess things up. — बस गंदगी फैलाना आता है सबको।
- I'm not your servant. — मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ।
- Why is this drawer open again? — यह दराज़ फर से क्यों खुली है?
- I can't find anything in this house. — इस घर में कुछ भी ढूँढने से नहीं मिलता।

- The house smells of dampness. — घर में सीलन की बदबू आ रही है।
- I'm tired of cooking every day. — रोज़-रोज़ खाना बनाते-बनाते थक गई हूँ।
- Today, eat whatever you want. — आज जो मन करे खा लो।
- It's your turn to wash the dishes. — आज तुम्हारी बारी है बर्तन धोने की।
- I'm not in the mood for anything. — आज कसी चीज़ का मन नहीं है।
- You've spoiled him rotten. — तुमने तो उसे पूरा बिगाड़ दिया है।
- If you keep sitting like this, you'll get fat. — ऐसे ही बैठे रहोगे तो मोटे हो जाओगे।
- Eat it with love. — प्यार से खा लो।
- This is the last roti, I'm full. — ये आ खरी रोटी है, पेट भर गया।
- Don't put your feet on the sofa. — सोफे पर पैर मत रखो।
- Turn off the TV and go to sleep now. — अब टीवी बंद करो और सो जाओ।

- You're talking too much. Go to sleep. — बहुत बातें हो गईं। अब सो जाओ।
- I just reached the office. — मैं अभी-अभी ऑफिस पहुँचा हूँ।
- My system is very slow today. — मेरा सस्टम आज बहुत स्लो है।
- The WiFi is acting up again. — फर से वाई-फाई चल रही है।
- The server is down since morning. — सुबह से सर्वर डाउन है।
- Don't talk to me before coffee. — कॉफी पीने से पहले मुझसे बात मत करो।
- There's a lot of work pressure these days. — इन दिनों काम का बहुत प्रेशर है।
- This week has been so long. — यह हफ़ता कट ही नहीं रहा।
- Boss is in a bad mood today. — बॉस आज बहुत गुस्से में हैं।
- Has he even seen the email? — उसने ईमेल देखा भी है क्या?
- There's a meeting at five. — पाँच बजे एक मीटिंग है।
- What's the agenda for the meeting? — मीटिंग का क्या मुद्दा है?

- I'm going out for some fresh air. — मैं थोड़ी देर बाहर हवा खाने जा रहा हूँ।
- I'll just be gone for five minutes. — मैं बस पाँच मिनट में आ रहा हूँ।
- Did you see her outfit today? — आज उसका कपड़ा देखा?
- He's just showing off. — वो बस दिखावा कर रहा है।
- I want to go home early today. — आज मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ।
- Just take my name off the call. — मुझे कॉल से निकाल दो।
- My laptop is overheating. — मेरा लैपटॉप गर्म हो रहा है।
- I'm waiting for the weekend. — वीकेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ।
- Let's go out for lunch. — चलो बाहर लंच करते हैं।
- Don't discuss this in the cabin. — केबिन में ये बात मत करो।
- This work is getting on my nerves. — यह काम दिमाग खराब कर रहा है।
- I'm not able to understand this project. — यह प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा है।
- Why are you behind me? — मेरे पीछे क्यों पड़े हो?

- I'm just stretching my legs. — मैं बस टाँगें सीधी कर रहा हूँ।
- It's very quiet today. — आज बहुत सन्नाटा है।
- I can't wait for Friday. — फ्राइडे का इंतज़ार नहीं हो रहा।
- Tell me the final price, brother. — भैया, आ खरी कीमत बताओ।
- Do you think I'm a stranger? — क्या मुझे बाहर का समझ रखा है?
- For this, you're asking so much? — इसके लिए इतना माँग रहे हो?
- I saw the same thing for fifty rupees less. — यही चीज़ मैंने पचास रुपये कम में देखी थी।
- Don't try to fool me. — मुझे चूना लगाने की कोशिश मत करो।
- I'm your regular customer. — मैं तुम्हारा पुराना ग्राहक हूँ।
- It's for my sister, make it a little cheaper. — बहन के लिए है, थोड़ा सस्ता कर दो।
- What's the guarantee on this? — इसकी क्या गारंटी है?
- It looks quite old. — काफी पुराना लग रहा है।
- Give me a proper bill. — ठीक से बिल देना।
- I'll buy it if you reduce the price. — कम करोगे तो लूँगा।

- The price doesn't sound right. — दाम सही नहीं लग रहा है।
- It's not worth it. — इतने का तो नहीं है।
- I'll come back later. — फर आता हूँ बाद में।
- It's too expensive for me. — मेरे बजट से बाहर है।
- It's okay, I'll look somewhere else. — कोई नहीं, और कहीं देख लूँगा।
- Okay, pack it up. — अच्छा, पैक कर दो।
- Put it in two bags. — दो थै लयों में डाल दो।
- Is the fitting proper? — फिटिंग ठीक है न?
- If it's damaged, can I return it? — अगर खराब निकला तो बदल दोगे?
- I'll pay by UPI. — यूपीआई से कर दूँ?
- Did you get the payment? — पेमेंट आ गया?
- You gave me the wrong change. — पैसे कम दिए।
- We'll come again. Goodbye! — फर आएँगे। राम राम!
- What's up? — और बता?
- All good, nothing new. — सब बढ़िया, कुछ खास नहीं।
- Tell me, what's the latest gossip? — बता, क्या नया स्कैंडल है?
- Did you hear about Rahul? — राहुल के बारे में सुना?

- Don't tell anyone, okay? — कसी को बताना मत, ठीक है?
- She's just showing off. — वो तो बस दिखावा कर रही है।
- He's a total miser. — वो तो पूरा कंजूस है।
- I'm bored, let's go somewhere. — बोर हो रहा हूँ, चल कहीं चलते हैं।
- My phone is about to die. — मेरा फोन तो मरने वाला है।
- I had a huge fight at home. — घर पे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया।
- I don't feel like doing anything today. — आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा।
- Let's just chill today. — आज बस आराम करते हैं।
- I'm in a really bad mood. — मेरा मूड बहुत खराब है।
- He's a very nice guy. — वो बहुत भोला आदमी है।
- You've lost weight, haven't you? — तू पतला हो गया है न?
- I saw you yesterday with someone. — कल तुझे कसी के साथ देखा था।
- You've gone crazy over her. — तू तो उस पर पूरी तरह फदा है।
- This is just a time-pass. — यह बस टाइमपास है।
- Don't be so serious, yaar! — इतना सीरियस मत हो यार।

- Let's plan a trip somewhere. — कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं।
- No plans, just like that. — कोई प्लान नहीं, बस ऐसे ही।
- I'm totally broke this month. — इस महीने तो पूरी तरह से कंगाल हूँ।
- I'll pay you back later. — बाद में दे दूँग
- I'm totally broke this month. — इस महीने तो पूरी तरह से कंगाल हूँ।
- I'll pay you back later. — बाद में दे दूँगा।
- You're always making excuses. — तू तो हमेशा बहाने बनाता है।
- You're a true friend, yaar. — तू सच्चा यार है।
- What's going on in your heart? — दिल में क्या चल रहा है?
- Something is bothering me. — कुछ तो है जो मुझे ख़ाए जा रहा है।
- I don't understand my own feelings. — अपना ही दिल समझ नहीं आ रहा।
- I'm very confused. — बहुत उलझन में हूँ।
- I felt really bad. — बहुत बुरा लगा यार।
- Who do I tell my pain to? — कसे बताऊँ अपना दर्द?

- Today, I'm feeling very alone. — आज बहुत अकेला महसूस हो रहा है।
- I miss those days a lot. — उन दिनों की बहुत याद आती है।
- Nothing feels good anymore. — अब कसी चीज़ में मज़ा नहीं आता।
- The heart wants something else. — दिल तो कुछ और ही चाहता है।
- I don't feel like talking to anyone. — कसी से बात करने का मन नहीं करता।
- Everything seems pointless. — सब बेकार लगता है।
- You won't understand. — तुम नहीं समझोगे।
- I have nothing left inside me. — अंदर से पूरी तरह खाली हो गया हूँ।
- Just don't leave me. — बस मुझे छोड़ कर मत जाना।
- I trust you a lot. — मुझे तुम पर बहुत भरोसा है।
- I don't know what to do. — समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
- It's a very complicated situation. — बहुत पेचीदा मामला है।
- I feel like crying. — रोने का मन कर रहा है।
- Don't you care about me at all? — तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है?
- Just give me some time. — बस मुझे थोड़ा समय दे दो।

- I can't live without you. — मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
- You don't value my feelings. — तुम मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते।
- Now it's too late. — अब बहुत देर हो चुकी है।
- I'm not angry, just disappointed. — मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस निराश हूँ।
- Today, just relax. — आज बस आराम करते हैं।
- No tension, everything will be fine. — टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।
- There's always some jugaad. — कोई न कोई जुगाड़ तो होता ही है।
- Where are you lost these days? — इन दिनों कहाँ गुम हो?
- How is everything going? — सब कैसा चल रहा है?
- Just like that, I asked. — बस ऐसे ही पूछ लिया।
- Let it be, leave it. — रहने दे, छोड़ यार।
- I'll see it later. — बाद में देख लूँगा।
- It's not in my control. — यह मेरे बस में नहीं है।
- Whatever will happen, will be seen. — जो होगा देखा जाएगा।
- It's too much hassle. — बहुत झंझट है यार।

- I don't want to get into this mess. — मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता।
- What did you have for dinner? — रात के खाने में क्या खाया?
- I just had dal-roti. — बस दाल-रोटी खा ली।
- I'm going to sleep now. — मैं अब सोने जा रहा हूँ।
- Keep in touch. — मलते रहना।
- Don't forget me. — मुझे भूलना मत।
- It's quite far from here. — यहाँ से काफी दूर है।
- You go straight and then turn. — सीधे जाओ और फर मुड़ जाना।
- It'll be right in front of you. — सामने ही तो है।
- I'm new here. — मैं यहाँ नया हूँ।
- It's raining so much. — बहुत पानी बरस रहा है।
- The sun is very harsh. — धूप बहुत तेज़ है।
- Are you sleeping? — सो गए क्या?
- I'll call you tomorrow. — कल फोन करूँगा।
- Stop staring at my plate. — मेरी प्लेट में मत घूरो।
- Did you wash your hands properly? — हाथ अच्छे से धोए?
- The water is not coming. — पानी नहीं आ रहा।
- Fill the bucket. — बाल्टी भर दो।

- The towel is wet. — तौ लया गीला है।
- Hang it out to dry. — इसे सूखने के लए बाहर डाल दो।
- The doorbell is ringing. — दरवाजे की घंटी बज रही है।
- See who it is. — देखो कौन है।
- I'm in the bathroom. — मैं बाथरूम में हूँ।
- The soap is finished. — साबुन खत्म हो गया।
- Buy a new toothpaste. — नया टूथपेस्ट लाना।
- My phone battery is low. — मेरे फोन की बैटरी कम है।
- Put it on charge. — इसे चार्जिंग पर लगा दो।
- There's no electricity. — बिजली नहीं है।
- The inverter is not working. — इन्वर्टर काम नहीं कर रहा।
- Light a candle. — मोमबत्ती जला दो।
- It's very dark in here. — यहाँ बहुत अंधेरा है।
- I can't see anything. — मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
- Don't step on the wire. — तार पर पैर मत रखो।
- The fan is making noise. — पंखे से आवाज़ आ रही है।
- Turn the cooler on. — कूलर चालू कर दो।
- It's suffocating inside. — अंदर दम घुट रहा है।
- Open all the windows. — सारी खड़ कयाँ खोल दो।
- The AC is not cooling. — AC ठंडा नहीं कर रहा।
- The remote is lost. — रिमोट गुम हो गया है।

- Check under the sofa. — सोफे के नीचे देखो।
- I can't find my keys. — मेरी चाबियाँ नहीं मल रहीं।
- You left them on the table. — तुमने वो टेबल पर छोड़ी थीं।
- Tie the garbage bag. — कूड़े का थैला बाँध दो।
- Throw it in the dustbin. — उसे डस्टबिन में डालो।
- The dustbin is full. — कूड़ेदान भर गया है।
- Take it outside. — बाहर ले जाओ।
- The milkman didn't come today. — आज दूधवाला नहीं आया।
- I'll get milk from the shop. — मैं दुकान से दूध ले आता हूँ।
- Keep the milk in the fridge. — दूध फ्रिज में रख दो।
- The fridge is smelling bad. — फ्रिज से बदबू आ रही है।
- Clean it tomorrow. — कल इसे साफ करेंगे।
- The vegetables have gone bad. — सब्जियाँ खराब हो गई हैं।
- We'll have to throw them away. — इन्हें फेंकना पड़ेगा।
- Make a list of groceries. — राशन की लस्ट बना लो।
- Don't forget to buy bread. — ब्रेड लाना मत भूलना।
- The tea is getting cold. — चाय ठंडी हो रही है।
- Drink it up. — पी लो इसे।

- Make another cup for me. — मेरे लए एक और कप बना दो।
- Less sugar this time. — इस बार चीनी कम।
- I like my tea strong. — मुझे कड़क चाय पसंद है।
- Put some ginger in it. — इसमें थोड़ा अदरक डालना।
- The water is boiling. — पानी उबल रहा है।
- Turn the gas off. — गैस बंद कर दो।
- The milk spilled over. — दूध गर गया।
- Wipe the counter. — काउंटर पोंछ दो।
- The floor is wet. — फ़र्श गीला है।
- Don't slip. — फसल मत जाना।
- I hurt my elbow. — मेरी कोहनी में चोट लग गई।
- It's bleeding a little. — थोड़ा खून निकल रहा है।
- Bring the first-aid box. — फर्स्ट-एड बॉक्स लाओ।
- Put some antiseptic cream. — एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ।
- I feel dizzy. — मुझे चक्कर आ रहा है।
- Lie down for a while. — थोड़ी देर लेट जाओ।
- I have a headache. — सर दर्द कर रहा है।
- Take a Crocin. — क्रो सन ले लो।
- My eyes are burning. — मेरी आँखें जल रही हैं।
- Put some eye drops. — आँख में ड्रॉप डालो।

- I'm feeling very sleepy. — बहुत नींद आ रही है।
- I didn't sleep well last night. — कल रात ठीक से नींद नहीं आई।
- There were too many mosquitoes. — बहुत मच्छर थे।
- Light the mosquito coil. — मच्छर वाली अगरबत्ती जला दो।
- Close the window net. — खड़की की जाली बंद करो।
- The power cut is so frequent. — बिजली बहुत बार जा रही है।
- I couldn't even use the fan. — पंखा भी नहीं चला पाया।
- It was a very tiring day. — बहुत थका देने वाला दिन था।
- I just want to rest. — बस आराम करना चाहता हूँ।
- Don't disturb me for an hour. — एक घंटे तक मुझे परेशान मत करना।
- I need some peace. — मुझे थोड़ी शांति चाहिए।
- The neighbors are playing loud music. — पड़ोसी बहुत तेज़ म्यूज़िक बजा रहे हैं।
- Go and complain. — जाकर शिकायत करो।
- They never listen. — वो कभी सुनते ही नहीं।
- It's a daily problem. — रोज़ का झंझट है।
- When will they get some sense? — कब इन्हें अक्ल आएगी?
- Don't get involved. — बीच में मत पड़ो।

- It's their life. — उनकी मर्जी।
- We should focus on our work. — हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए।
- Did you complete the assignment? — असाइनमेंट पूरा क्या?
- Not yet, it's very tough. — अभी नहीं, बहुत मुश्किल है।
- Let me help you. — मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
- I can manage on my own. — मैं खुद कर लूँगा।
- Don't be stubborn. — ज़िद मत करो।
- I know what I'm doing. — मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ।
- You never accept help. — तुम कभी मदद लेते ही नहीं।
- I like doing things myself. — मुझे खुद करना पसंद है।
- That's a good habit. — यह अच्छी आदत है।
- But sometimes you need people. — ले कन कभी-कभी लोगों की ज़रूरत होती है।
- Okay, if you insist. — ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो।
- Show me where you're stuck. — दिखाओ कहाँ अटक गए हो।
- I don't understand this part. — यह हिस्सा समझ नहीं आ रहा।
- It's actually very simple. — यह वास्तव में बहुत आसान है।

- You're overcomplicating it. — तुम इसे ज़्यादा उलझा रहे हो।
- Read it again carefully. — इसे ध्यान से दोबारा पढ़ो।
- Now I get it. — अब समझ आया।
- Thanks for explaining. — समझाने के लिए धन्यवाद।
- You're a lifesaver. — तुमने तो मेरी जान बचा ली।
- Let's have a break now. — चलो अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं।
- I'm feeling hungry. — भूख लग रही है।
- What's there to eat? — खाने में क्या है?
- There are some biscuits. — कुछ बिस्कुट हैं।
- Make some instant noodles. — मैगी बना लेते हैं।
- That's the easiest option. — यह सबसे आसान है।
- Put the water to boil. — पानी उबलने के लिए रख दो।
- Don't forget to add the masala. — मसाला डालना मत भूलना।
- I like it soupy. — मुझे थोड़ा सूप वाला पसंद है।
- Don't make it too dry. — बहुत सूखा मत बनाना।
- It's ready in two minutes. — दो मिनट में तैयार।
- Get two bowls. — दो कटोरे ले आओ।
- Be careful, it's hot. — ध्यान से, गरम है।
- Let it cool down a bit. — थोड़ा ठंडा होने दे।

- Blow on it before eating. — खाने से पहले फूँक मार लो।
- Don't burn your tongue. — जीभ मत जला लेना।
- It's tasting good today. — आज अच्छा बना है।
- You always say that. — तुम हमेशा यही कहते हो।
- Because it's true. — क्योंकि क यह सच है।
- Let's watch something while eating. — खाते समय कुछ देखते हैं।
- What's on TV? — टीवी पर क्या आ रहा है?
- Just the same old news. — बस वही पुरानी खबरें।
- Switch to YouTube. — YouTube लगा दो।
- Watch some comedy videos. — कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं।
- I need a good laugh. — मुझे एक अच्छी हँसी चाहिए।
- This guy is hilarious. — यह बंदा बहुत मजेदार है।
- I've seen this one before. — यह मैंने पहले देखा हुआ है।
- Then find a new one. — तो नया ढूँढो।
- Scroll down a bit. — थोड़ा नीचे करो।
- Click on that one. — उस पर क्लिक करो।
- The ads are so annoying. — वज्ञापन बहुत परेशान करते हैं।
- Skip the ad after five seconds. — पाँच सेकंड बाद वज्ञापन छोड़ देना।

- I hate unskippable ads. — मुझे न छोड़े जा सकने वाले वज्ञापनों से नफरत है।
- Just bear with it. — बस थोड़ा सहन करो।
- The video is buffering. — वीडियो अटक रही है।
- The internet is terrible. — इंटरनेट बहुत खराब है।
- Refresh the page. — पेज रीफ्रेश करो।
- Now it's working. — अब चल रहा है।
- Turn up the volume. — आवाज़ बढ़ाओ।
- It's too low. — बहुत धीमी है।
- I can't hear properly. — ठीक से सुनाई नहीं दे रहा।
- Use the earphones. — इयरफोन लगा लो।
- The left side is not working. — बाईं तरफ से आवाज़ नहीं आ रही।
- The wire is broken from inside. — अंदर से तार टूट गया है।
- We need new earphones. — नए इयरफोन लेने पड़ेंगे।
- Add it to the shopping list. — खरीदारी की लस्ट में डाल दो।
- I'm done with my food. — मेरा खाना खत्म।
- Wash your bowl. — अपना कटोरा धो लो।
- I'll do it later. — बाद में कर लूँगा।

- Don't be lazy. — आलस मत करो।
- It'll take just a minute. — बस एक मिनट लगेगा।
- Fine, I'm going. — अच्छा, जा रहा हूँ।
- Wipe the sink as well. — संक भी पोंछ देना।
- You're so bossy. — तुम बहुत हुकुम चलाते हो।
- I'm not bossy, I'm organized. — मैं हुकुम नहीं चलाता, मैं व्यवस्थित हूँ।
- Whatever you say. — जो तुम कहो।
- Let's go for a walk in the evening. — शाम को घूमने चलते हैं।
- The weather is nice today. — आज मौसम अच्छा है।
- It's not too hot. — बहुत गर्मी नहीं है।
- Wear comfortable shoes. — आरामदायक जूते पहन लो।
- Where should we go? — कहाँ चलें?
- Just around the block. — बस मोहल्ले में एक चक्कर।
- I want to get some fresh air. — मुझे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए।
- We'll come back in half an hour. — आधे घंटे में वापस आ जाएँगे।
- Carry a water bottle. — पानी की बोतल साथ ले लो।

- I'm feeling thirsty already. — मुझे अभी से प्यास लग रही है।
- Let's buy some street food. — चलो कुछ स्ट्रीट फूड खाते हैं।
- The golgappe here are famous. — यहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं।
- Ask him to make them spicy. — उससे कहो तीखे बनाए।
- One plate is enough for me. — मेरे लिए एक प्लेट काफी है।
- Don't eat too much outside. — बाहर बहुत ज्यादा मत खाओ।
- It's not hygienic. — यह साफ-सुथरा नहीं होता।
- But it's so tasty. — पर इतना स्वादिष्ट होता है।
- A little bit is okay. — थोड़ा बहुत चलता है।
- Look at that cute dog. — वह प्यारा सा कुत्ता देखो।
- Don't go near it. — उसके पास मत जाओ।
- What if it bites? — अगर काट लिया तो?
- It looks friendly. — यह मलनसार लग रहा है।
- Still, don't touch it. — फर भी, हाथ मत लगाओ।
- It's getting dark now. — अब अंधेरा हो रहा है।
- Let's head back home. — चलो घर वापस चलते हैं।
- Did you lock the door? — दरवाजा बंद क्या था?
- I think so. — मुझे लगता है हाँ।

- Check your pockets for the keys. — अपनी जेब चाबियों के लिए देखो।
- Yes, they're here. — हाँ, यहाँ हैं।
- My legs are paining. — मेरी टाँगें दर्द कर रही हैं।
- You walked too fast. — तुम बहुत तेज़ चले।
- I'm not used to walking. — मुझे चलने की आदत नहीं है।
- You should walk daily. — तुम्हें रोज़ चलना चाहिए।
- I know, but I don't have time. — जानता हूँ, पर समय नहीं मिलता।
- Make time for your health. — अपनी सेहत के लिए समय निकालो।
- You sound like my mother. — तुम मेरी माँ जैसी बातें कर रहे हो।
- Someone has to be responsible. — कोई तो ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा।
- Okay, let's not start this again. — ठीक है, अब यह सब दोबारा मत शुरू करो।
- I'm going to take a shower. — मैं नहाने जा रहा हूँ।
- Warm up the water. — पानी गरम कर लो।
- The geyser switch is on. — गीज़र का स्विच ऑन है।
- Wait for fifteen minutes. — पंद्रह मिनट रुको।

- Don't use all the hot water. — सारा गरम पानी मत खत्म कर देना।
- Leave some for me. — मेरे लिए थोड़ा छोड़ देना।
- I'll be quick. — मैं जल्दी करूँगा।
- The water pressure is low. — पानी का प्रेशर कम है।
- It happens every day. — हर दिन यही होता है।
- The tank must be empty. — टंकी खाली होगी।
- Start the motor. — मोटर चालू कर दो।
- Did the water come? — पानी आया?
- Not yet. — अभी नहीं।
- Keep an eye on it. — इस पर नज़र रखो।
- Otherwise it will overflow. — वरना पानी बह जाएगा।
- I've put the clothes in the washing machine. — मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं।
- Add the detergent. — डिटर्जेंट डाल दो।
- Which cycle should I use? — कौन सा साइकल इस्तेमाल करूँ?
- Use the quick wash. — क्विक वॉश करो।
- They are not very dirty. — ये बहुत गंदे नहीं हैं।
- The machine is making noise. — मशीन आवाज़ कर रही है।
- It's normal. — यह सामान्य है।

- Once it's done, hang them to dry. — जब हो जाए तो सूखने के लिए डाल देना।
- I'll do it tomorrow morning. — मैं कल सुबह कर दूँगा।
- Don't leave them inside. — अंदर मत छोड़ना।
- They will smell. — बदबू आने लगेगी।
- Okay, I'll set a reminder. — ठीक है, मैं रिमाइंडर लगा दूँगा।
- My phone is full of reminders. — मेरा फोन रिमाइंडर से भरा पड़ा है।
- That means you forget a lot. — मतलब तुम बहुत भूलते हो।
- I have a lot on my plate. — मेरे पास बहुत काम रहता है।
- Organize your tasks better. — अपने कामों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करो।
- I try, but it doesn't work. — कोशिश करता हूँ, पर हो नहीं पाता।
- You need a planner. — तुम्हें एक प्लानर चाहिए।
- I use my phone for that. — मैं उसके लिए अपना फोन इस्तेमाल करता हूँ।
- Writing down helps more. — लिखने से ज़्यादा मदद मिलती है।
- Old school methods are best. — पुराने तरीके सबसे अच्छे होते हैं।

- I'll try it someday. — कभी को शश करूँगा।
- Don't just try, do it. — बस को शश मत करो, करो।
- You're very motivational today. — आज तुम बहुत प्रेरणादायक बातें कर रहे हो।
- I just want you to improve. — मैं बस चाहता हूँ क तुम बेहतर बनो।
- I appreciate that. — मैं इसकी कदर करता हूँ।
- Let's sleep now, it's late. — चलो अब सो जाओ, देर हो गई।
- Set the alarm for seven. — सात बजे का अलार्म लगा दो।
- Don't hit snooze tomorrow. — कल स्नूज़ मत मारना।
- I'll try my best. — पूरी को शश करूँगा।
- Good night, sleep tight. — शुभ रात्रि, अच्छे से सोना।
- Don't let the bed bugs bite. — मीठे सपने देखना।
- Same to you. — तुम्हें भी।
- The fan is too slow on this setting. — इस सेटिंग पर पंखा बहुत धीमा है।
- Increase the speed. — स्पीड बढ़ाओ।
- I'm feeling cold now. — अब मुझे ठंड लग रही है।
- Pull up the blanket. — कंबल ऊपर कर लो।
- Cover your feet. — पैर ढक लो।
- My nose is blocked. — मेरी नाक बंद है।

- Did you catch a cold? — क्या तुम्हें सर्दी हो गई?
- I think so, from the fan. — लगता है हाँ, पंखे से।
- Take steam in the morning. — सुबह भाप ले लेना।
- That always helps. — उससे हमेशा आराम मिलता है।
- Now stop talking and sleep. — अब बातें बंद करो और सो जाओ।
- Okay, turning off the lights. — ठीक है, लाइट बंद कर रहा हूँ।
- Did you check the main door? — मेन दरवाज़ा चेक किया?
- Yes, it's locked. — हाँ, बंद है।
- Just double-checking makes me anxious. — दोबारा चेक करने की आदत मुझे परेशान करती है।
- Don't worry, everything is fine. — चंता मत करो, सब ठीक है।
- I trust you. — मुझे तुम पर भरोसा है।
- Good night, see you tomorrow. — गुड नाइट, कल मिलते हैं।
- What's the plan for tomorrow? — कल का क्या प्लान है?
- We'll see in the morning. — सुबह देखेंगे।
- First thing, make some strong tea. — सबसे पहले, कड़क चाय बनाएँगे।

- I can't function without it. — मैं इसके बिना काम नहीं कर सकता।
- Same here. — मैं भी ऐसा ही हूँ।
- The newspaper guy comes at eight. — अखबार वाला आठ बजे आता है।
- I like reading the headlines. — मुझे मुख्य खबरें पढ़ना पसंद है।
- The world is so chaotic. — दुनिया कतनी अस्त-व्यस्त है।
- Better to focus on our own life. — अपनी जिंदगी पर ध्यान देना बेहतर है।
- True that. — यह सच है।
- Okay, really sleeping now. — अच्छा, अब सच में सो रहे हैं।
- Wait, did you charge my phone? — रुको, क्या तुमने मेरा फोन चार्जिंग लगाया?
- Yes, it's on the table. — हाँ, टेबल पर रखा है।
- Thanks, I forgot. — शुक्रिया, मैं भूल गया था।
- Now no more talking. — अब और बात नहीं।
- Shhh! — शशश!
- I can hear some noise outside. — बाहर कुछ आवाज़ आ रही है।
- It's just the cats fighting. — बस बिल्लियाँ लड़ रही हैं।

- They do this every night. — हर रात यही करती हैं।
- Ignore them. — उन्हें नज़रअंदाज़ करो।
- I'm putting on my earplugs. — मैं ईयरप्लग लगा रहा हूँ।
- That's a good idea. — यह अच्छा वचार है।
- I can't find mine. — मुझे मेरा नहीं मल रहा।
- Use cotton balls. — रुई के फाहे इस्तेमाल कर लो।
- I'll manage. — मैं संभाल लूँगा।
- Sweet dreams. — मीठे सपने।
- You too. — तुम भी।
- The alarm is ringing! — अलार्म बज रहा है!
- Turn it off quickly! — जल्दी बंद करो!
- Just five more minutes. — बस पाँच मिनट और।
- You said that five minutes ago. — तुमने यह पाँच मिनट पहले भी कहा था।
- I'm so tired. — मैं बहुत थका हुआ हूँ।
- Wash your face, you'll feel fresh. — मुँह धो लो, तरोताज़ा महसूस करोगे।
- Is the tea ready? — चाय तैयार है?
- I'm making it right now. — अभी बना रहा हूँ।
- Bring it to the balcony. — बालकनी में ले आओ।

- The weather is lovely today. — आज मौसम बहुत सुहाना है।
- The sun is just rising. — सूरज अभी निकल रहा है।
- It's a beautiful sight. — यह एक सुंदर शय है।
- We should wake up early more often. — हमें अक्सर जल्दी उठना चाहिए।
- Easier said than done. — कहना आसान, करना मुश्किल।
- Let's make it a habit. — इसे आदत बना लेते हैं।
- Starting tomorrow. — कल से शुरू करते हैं।
- No, starting today. — नहीं, आज से शुरू करते हैं।
- What's for breakfast? — नाश्ते में क्या है?
- Poha or Upma? — पोहा या उपमा?
- Whatever is faster. — जो भी जल्दी बने।
- Poha it is. — तो पोहा बनता है।
- Add lots of peanuts. — खूब सारी मूँगफली डालना।
- And some sev on top. — और ऊपर से थोड़ी सेव।
- You like it crunchy. — तुम्हें कुरकुरा पसंद है।
- Who doesn't? — कसे नहीं पसंद?
- Squeeze some lemon. — थोड़ा नींबू निचोड़ दो।
- It enhances the taste. — इससे स्वाद बढ़ जाता है।
- The tea is getting cold. — चाय ठंडी हो रही है।

- Sip it slowly. — आराम से पयो।
- I have to leave by nine. — मुझे नौ बजे तक निकलना है।
- Traffic will be bad. — ट्रैफ़क बहुत होगा।
- Leave ten minutes early. — दस मिनट पहले निकलो।
- I'll take the metro. — मैं मेट्रो ले लूँगा।
- That's faster. — वह तेज़ है।
- But it's so crowded. — पर उसमें बहुत भीड़ होती है।
- Can't help it. — क्या कर सकते हैं।
- Pack your lunch. — अपना टिफ़न पैक कर लो।
- I'll eat in the canteen today. — आज कैंटीन में खा लूँगा।
- The food there is not good. — वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता।
- I don't have time to cook in the morning. — सुबह पकाने का समय नहीं है।
- I'll pack it for you. — मैं तुम्हारे लिए पैक कर देता हूँ।
- You don't have to. — तुम्हें ज़रूरत नहीं है।
- I want to. — मैं करना चाहता हूँ।
- Thanks, that's really sweet. — शुक्रिया, यह बहुत अच्छी बात है।
- What's there for lunch? — लंच में क्या है?
- Leftover sabzi and roti. — बची हुई सब्ज़ी और रोटी।

- That's perfect. — यह तो बढ़िया है।
- I love leftover food. — मुझे बचा हुआ खाना बहुत पसंद है।
- It tastes better the next day. — अगले दिन और स्वादिष्ट लगता है।
- I'll put it in a steel container. — मैं इसे स्टील के डब्बे में डाल दूँगा।
- Don't forget to take it. — ले जाना मत भूलना।
- Keep it in your bag now only. — अभी ही बैग में रख लो।
- Good idea. — अच्छा वचार है।
- I'm getting late. — मुझे देर हो रही है।
- Go, you'll miss your train. — जाओ, ट्रेन छूट जाएगी।
- Have a good day. — तुम्हारा दिन अच्छा बीते।
- You too, take care. — तुम भी, अपना ध्यान रखना।
- Call me when you reach. — पहुँचकर फोन करना।
- I will. — जरूर।
- The road is dug up again. — सड़क फर से खुदी हुई है।
- Same story every month. — हर महीने यही हाल है।
- They never finish the work. — काम कभी खत्म नहीं होता।
- It causes so much traffic. — इससे कतना ट्रैफ़िक जाम होता है।
- I'm walking on the footpath. — मैं फुटपाथ पर चल रहा हूँ।

- Watch out for the pothole. — गड्ढे से बचके।
- Almost twisted my ankle. — लगभग टखना मुड़ गया था।
- These roads are dangerous. — ये सड़कें खतरनाक हैं।
- The metro station is just here. — मेट्रो स्टेशन यहीं है।
- Let me get my smart card. — मुझे अपना स्मार्ट कार्ड निकालने दो।
- The queue is very long. — लाइन बहुत लंबी है।
- Security check takes time. — सुरक्षा जाँच में समय लगता है।
- Remove your bag for scanning. — स्कैनिंग के लिए बैग उतारो।
- Keep your phone and keys in the tray. — फोन और चाबियाँ ट्रे में रखो।
- Walk fast, the train is arriving. — तेज़ चलो, ट्रेन आ रही है।
- Let the people get off first. — पहले लोगों को उतरने दो।
- Don't stand in the doorway. — दरवाजे पर मत खड़े रहो।
- Move inside. — अंदर जाओ।
- It's so packed. — इतनी भीड़ है।
- I can't even move my hands. — मैं अपने हाथ भी नहीं हिला सकता।
- Two more stations to go. — दो स्टेशन और बाकी हैं।

- This is my stop. — यह मेरा स्टॉप है।
- Excuse me, side please. — माफ़ कीजिए, साइड दीजिए।
- Pushing won't help. — धक्का देने से फायदा नहीं।
- Finally, out in the open. — आ खरकार, खुली हवा में।
- The office is a five-minute walk. — ऑफिस पाँच मिनट की दूरी पर है।
- I'll grab a coffee on the way. — रास्ते में कॉफी ले लूँगा।
- One cappuccino please. — एक कैपुचीनो देना।
- Extra sugar? — चीनी ज्यादा?
- No, just one sachet. — नहीं, बस एक पाउच।
- Keep the change. — छुट्टे रखो।
- Swipe my ID card. — अपना आईडी कार्ड स्वाइप करूँ।
- Good morning, reception. — गुड मॉर्निंग, रिसेप्शन।
- Any messages for me? — मेरे लिए कोई संदेश है?
- No sir, not yet. — नहीं सर, अभी नहीं।
- I'll be at my desk. — मैं अपनी डेस्क पर रहूँगा।
- The system is booting up. — सिस्टम शुरू हो रहा है।
- So many unread emails. — इतने सारे न पढ़े गए ईमेल।
- I'll sort them after coffee. — कॉफी के बाद इन्हें देखूँगा।
- The coffee is lukewarm. — कॉफी गुनगुनी है।
- I should have drunk it earlier. — पहले पी लेनी चाहिए थी।

- The first meeting is at ten thirty. — पहली मीटिंग साढ़े दस बजे है।
- I need to prepare the slides. — मुझे स्लाइड्स तैयार करनी हैं।
- The data is not updated. — डेटा अपडेट नहीं है।
- I'll ask the analyst to send it. — मैं एनालिस्ट से भेजने को कहूँगा।
- He always delays. — वह हमेशा देर करता है।
- I'll follow up with him. — मैं उसे फॉलो-अप करूँगा।
- The printer is jammed again. — प्रिंटर फर से जैम हो गया है।
- Can someone fix this? — कोई इसे ठीक कर सकता है?
- Call the IT guy. — आईटी वाले को बुलाओ।
- He's on leave today. — वह आज छुट्टी पर है।
- Of course, he is. — और क्या, वही तो होता है।
- I'll manage with soft copies. — मैं सॉफ्ट कॉपी से काम चला लूँगा।
- The meeting room is occupied. — मीटिंग रूम भरा हुआ है।
- Let's do a standing huddle. — चलो खड़े-खड़े बैठक कर लेते हैं।
- Quick updates only. — बस जल्दी-जल्दी बताओ।

- Any roadblocks? — कोई रुकावट?
- We need an extension on the deadline. — हमें डेडलाइन बढ़ानी होगी।
- Talk to the manager. — मैनेजर से बात करो।
- He won't agree easily. — वह आसानी से नहीं मानेगा।
- Present a valid reason. — कोई ठोस कारण बताओ।
- The client wants a revision. — क्लाइंट को बदलाव चाहिए।
- This is the third time. — यह तीसरी बार है।
- They don't know what they want. — उन्हें पता नहीं वे क्या चाहते हैं।
- Just do it, it's part of the job. — कर दो, यह काम का हिस्सा है।
- I'm going for a smoke break. — मैं सगरेट पीने जा रहा हूँ।
- You shouldn't smoke. — तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए।
- I know, it's a bad habit. — जानता हूँ, बुरी आदत है।
- Try quitting. — छोड़ने की कोशिश करो।
- It's not that easy. — इतना आसान नहीं है।
- At least reduce it. — कम से कम कम तो करो।
- I'll try from tomorrow. — कल से कोशिश करूँगा।
- You said that last month. — तुमने यह पछले महीने भी कहा था।

- Okay, mom, stop it. — बस करो, माँ।
- I'm just concerned. — मैं बस चंतित हूँ।
- I appreciate it, really. — मैं सच में इसकी कदर करता हूँ।
- Let's get back to work. — चलो वापस काम पर लगते हैं।
- The clock is moving so slow. — घड़ी बहुत धीमी चल रही है।
- It's just Monday blues. — यह बस सोमवार का असर है।
- Lunch time is still an hour away. — लंच में अभी एक घंटा है।
- My stomach is growling. — मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है।
- Have a biscuit from the pantry. — पेंट्री से बिस्कुट खा लो।
- The pantry is empty. — पेंट्री खाली है।
- Nobody refills it. — कोई भरता नहीं है।
- We should complain to HR. — हमें एचआर से शिकायत करनी चाहिए।
- They don't care. — उन्हें परवाह नहीं।
- Finally, lunch time! — आ खरकार, लंच का समय!
- Let's heat the food. — चलो खाना गरम कर लेते हैं।
- The microwave has a queue. — माइक्रोवेव में लाइन लगी है।
- Wait for your turn. — अपनी बारी का इंतज़ार करो।

- It smells so good. — बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
- Who brought chicken? — चकन कौन लाया?
- I'm jealous. — मुझे जलन हो रही है।
- My simple dal roti is also nice. — मेरी साधारण दाल रोटी भी अच्छी है।
- Want to exchange a bite? — एक निवाला बदलोगे?
- Sure, give me a piece of chicken. — ज़रूर, मुझे चकन का एक टुकड़ा दो।
- This is so tasty. — यह बहुत स्वादिष्ट है।
- Homemade food has its own charm. — घर के खाने की अपनी बात है।
- I miss my mom's cooking. — मुझे माँ के हाथ के खाने की याद आती है।
- Visit her this weekend. — इस सप्ताहांत उनसे मिल आओ।
- I will, it's been a while. — ज़रूर, काफी समय हो गया।
- I'm feeling sleepy after eating. — खाने के बाद नींद आ रही है।
- Let's take a short walk. — चलो थोड़ी देर टहल आते हैं।
- Just around the building. — बस इमारत के आस-पास।
- It helps with digestion. — इससे पाचन में मदद मिलती है।
- The sun is right on top. — सूरज सर पर है।

- Let's stand in the shade. — चलो छाँव में खड़े होते हैं।
- I have a call in ten minutes. — दस मिनट में मेरी कॉल है।
- Let's go back inside. — चलो वापस अंदर चलते हैं।
- The AC feels so good. — AC बहुत अच्छा लग रहा है।
- I could just sleep here. — मैं यहीं सो जाऊँ।
- Don't fall asleep at your desk. — डेस्क पर सो मत जाना।
- The boss is looking. — बॉस देख रहे हैं।
- Pretend to work. — काम करने का नाटक करो।
- I'm just staring at the screen. — मैं बस स्क्रीन देख रहा हूँ।
- That's what everyone does. — सब यही करते हैं।
- At least look busy. — कम से कम व्यस्त दिखो तो सही।
- The afternoon is dragging. — दोपहर कट ही नहीं रही।
- I need another coffee. — मुझे एक और कॉफी चाहिए।
- Too much caffeine is bad. — बहुत ज़्यादा कैफीन अच्छा नहीं।
- Just half a cup. — बस आधा कप।
- Fine, let's go to the machine. — ठीक है, चलो मशीन तक चलते हैं।
- It's out of order again. — यह फर से खराब है।
- This office is a joke. — यह ऑफिस एक मज़ाक है।

- Let's go to the one downstairs. — चलो नीचे वाली मशीन पर चलते हैं।
- I'm not that desperate. — मैं इतना भी बेकरार नहीं हूँ।
- Okay, water it is. — ठीक है, पानी ही पी लेता हूँ।
- Hydration is important. — पानी पीना ज़रूरी है।
- I've been sitting for too long. — मैं बहुत देर से बैठा हूँ।
- My back is stiff. — मेरी पीठ अकड़ गई है।
- Stretch a little. — थोड़ा स्ट्रेच करो।
- People will think I'm weird. — लोग सोचेंगे मैं अजीब हूँ।
- Who cares? — कसे परवाह है?
- You're right. — तुम सही कह रहे हो।
- I just want to go home. — बस अब घर जाने का मन कर रहा है।
- Just two more hours. — बस दो घंटे और।
- I'm counting down. — मैं उल्टी गनती गन रहा हूँ।
- Don't watch the clock. — घड़ी मत देखो।
- It makes it slower. — इससे और धीमा लगता है।
- I'll try to focus. — मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ।
- Finish that report today. — आज वह रिपोर्ट खत्म करो।
- I'm on it. — मैं कर रहा हूँ।
- Finally, it's six! — आ खरकार, छह बज गए!

- Shutting down my system. — मैं अपना सस्टम बंद कर रहा हूँ।
- Don't run, walk with dignity. — भागो मत, इज्जत से चलो।
- The elevator is full. — लफ्ट भरी हुई है।
- Take the stairs. — सीढ़ियाँ ले लो।
- My legs are tired. — मेरी टाँगें थक गई हैं।
- It's good exercise. — यह अच्छा व्यायाम है।
- I'll see you tomorrow. — कल मिलते हैं।
- Bye, have a good evening. — अल वदा, शाम अच्छी बीते।
- The sky looks beautiful. — आकाश बहुत सुंदर लग रहा है।
- The sun is setting. — सूरज ढल रहा है।
- It's my favorite time of the day. — यह दिन का मेरा पसंदीदा समय है।
- I wish I had a camera. — काश मेरे पास कैमरा होता।
- Your phone camera is good enough. — तुम्हारे फोन का कैमरा काफी अच्छा है।
- It won't capture the real beauty. — यह असली सुंदरता नहीं पकड़ पाएगा।
- Just enjoy the moment. — बस पल का आनंद लो।
- I'm feeling peaceful. — मैं शांति महसूस कर रहा हूँ।
- Let's take a rickshaw. — चलो रिक्शा ले लेते हैं।

- No, let's walk for a while. — नहीं, थोड़ी देर चलते हैं।
- My bag is heavy. — मेरा बैग भारी है।
- Give it to me. — मुझे दे दो।
- No, I can manage. — नहीं, मैं संभाल लूँगा।
- You're stubborn. — तुम जिद्दी हो।
- I learned it from you. — यह मैंने तुमसे सीखा है।
- Touché. — जवाब अच्छा दिया।
- What should we eat for dinner? — रात के खाने में क्या खाएँ?
- Let's order something. — चलो कुछ मँगवा लेते हैं।
- Pizza or Chinese? — पज़्जा या चाइनीज़?
- Pizza, with extra cheese. — पज़्जा, एक्स्ट्रा चीज़ के साथ।
- You and your cheese. — तुम और तुम्हारा चीज़।
- Don't judge me. — मुझे मत आँको।
- I'll place the order. — मैं ऑर्डर कर देता हूँ।
- Add a garlic bread too. — गा लक ब्रेड भी डाल दो।
- Anything else? — और कुछ?
- That's it. — बस इतना ही।
- It says forty-five minutes. — पैंतालीस मिनट लखा है।
- That's so long. — बहुत ज़्यादा है।
- I'm starving. — मुझे ज़ोरों की भूख लगी है।

- Have some peanuts. — थोड़ी मूँगफली खा लो।
- I finished them yesterday. — मैंने वो कल खत्म कर दीं।
- Then wait patiently. — तो धैर्य रखो।
- The doorbell rang! — दरवाजे की घंटी बजी!
- That was fast. — यह तो जल्दी आ गया।
- Smells amazing. — खुशबू शानदार है।
- Get the plates. — प्लेटें ले आओ।
- It's so hot. — यह बहुत गरम है।
- Let it cool for a minute. — एक मिनट ठंडा होने दो।
- I can't wait. — मुझसे रुका नहीं जा रहा।
- You'll burn your mouth. — तुम अपना मुँह जला लोगे।
- It's worth it. — यह इसके लायक है।
- This slice is perfect. — यह टुकड़ा एकदम सही है।
- The cheese pull is amazing. — चीज़ कतनी खंच रही है।
- This is happiness. — यही तो खुशी है।
- Save some for tomorrow's breakfast. — कल के नाश्ते के लिए थोड़ा बचा लो।
- No chance. — कोई मौका नहीं।
- I'm so full. — मेरा पेट बहुत भर गया।
- I can't move. — मैं हिल भी नहीं सकता।
- Let's watch a movie. — चलो कोई फिल्म देखते हैं।

- Which one? — कौन सी?
- Something light and funny. — कुछ हल्की-फुल्की और मजेदार।
- I'll browse Netflix. — मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ।
- Everything is so boring. — सब कुछ कतना उबाऊ है।
- Let's rewatch an old classic. — चलो कोई पुरानी क्लासिक दोबारा देखते हैं।
- Hera Pheri? — हेरा फेरी?
- Best choice ever. — सबसे अच्छा चुनाव।
- I know every dialogue by heart. — मुझे हर संवाद मुँह जबानी याद है।
- Still, it makes me laugh. — फर भी, हँसी आ जाती है।
- Babu Bhaiya is a legend. — बाबू भैया लीजेंड हैं।
- Pause it, I need water. — रोको, मुझे पानी चाहिए।
- Bring some for me too. — मेरे लिए भी ले आओ।
- The movie is almost over. — फिल्म लगभग खत्म हो गई।
- What a masterpiece. — क्या शानदार फिल्म है।
- We should sleep now. — अब हमें सो जाना चाहिए।
- I'm not sleepy yet. — अभी नींद नहीं आ रही।
- Read a book. — कताब पढ़ो।

- I'll just scroll through my phone. — मैं बस फोन थोड़ा चला लूँगा।
- That's worse. — यह और भी बुरा है।
- Just ten minutes. — बस दस मिनट।
- Fine, I'm turning off the lights. — ठीक है, मैं लाइट बंद कर रहा हूँ।
- Good night. — शुभ रात्रि।
- Sleep well. — अच्छे से सोना।
- See you in the morning. — सुबह मिलते हैं।
- I forgot to set the alarm. — मैं अलार्म लगाना भूल गया।
- Do it now. — अभी कर लो।
- Done. — हो गया।
- Sweet dreams. — मीठे सपने।
- You too. — तुम भी।
- The fan is too loud on high speed. — तेज़ स्पीड पर पंखा बहुत शोर करता है।
- Reduce it to medium. — मीडियम कर दो।
- I can hear the clock ticking. — मुझे घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही है।
- It's annoying. — परेशान करती है।
- Take the battery out. — बैटरी निकाल दो।

- It's too high up. — बहुत ऊपर है।
- Then ignore it. — तो अनदेखा करो।
- I'll try. — को शश करूँगा।
- Close your eyes. — आँखें बंद करो।
- Think of something nice. — कुछ अच्छा सोचो।
- Like what? — जैसे क्या?
- The beach, mountains, anything. — समुद्र तट, पहाड़, कुछ भी।
- I'm thinking of a vacation. — मैं छुट्टियों के बारे में सोच रहा हूँ।
- We'll plan one soon. — जल्द ही प्लान करेंगे।
- Promise? — वादा?
- Promise. — पक्का।
- Now sleep. — अब सो जाओ।
- I'm trying. — को शश कर रहा हूँ।
- Stop thinking. — सोचना बंद करो।
- It's not a switch. — यह कोई बटन नहीं है।
- Just relax your muscles. — बस अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दो।
- Starting from your toes. — पैर की उँगलियों से शुरू करो।
- This actually helps. — यह वास्तव में मदद करता है।

- I'm feeling drowsy. — मुझे झपकी आ रही है।
- Good, go with it. — अच्छा, बस बह जाओ।
- Don't fight it. — इससे लड़ो मत।
- I'm drifting off. — मैं सो रहा हूँ।
- Finally. — आ खरकार।
- Shh, don't talk. — चुप, बात मत करो।
- Okay. — ठीक है।
- Good night. — गुड नाइट।
- ...Zzz... — ...खर्राटे...
- Is it morning already? — क्या सुबह हो गई?
- Yes, wake up. — हाँ, उठ जाओ।
- I was having such a good dream. — मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था।
- Tell me later, get up now. — बाद में बताना, अभी उठो।
- I don't want to go to work. — मेरा काम पर जाने का मन नहीं है।
- It's Wednesday, half the week is over. — बुधवार है, आधा हफ़्ता बीत गया।
- Still two more days. — अभी दो दिन और हैं।
- Think positive. — सकारात्मक सोचो।
- I'll try after coffee. — कॉफी के बाद को शश करूँगा।

- The newspaper is wet. — अखबार गीला है।
- It must have rained last night. — कल रात बारिश हुई होगी।
- I didn't hear anything. — मैंने कुछ नहीं सुना।
- You sleep like a log. — तुम तो लट्ठे की तरह सोते हो।
- That's a blessing. — यह एक वरदान है।
- The roads will be muddy. — सड़कें कीचड़ भरी होंगी।
- Wear your old shoes. — पुराने जूते पहन लो।
- I'll take the bus today. — आज बस ले लूँगा।
- It'll be late because of rain. — बारिश की वजह से देर होगी।
- Leave a bit earlier. — थोड़ा पहले निकलो।
- I'm ready. — मैं तैयार हूँ।
- Don't forget your umbrella. — छाता मत भूलना।
- It's in my bag. — यह मेरे बैग में है।
- Have a safe journey. — सुरक्षित यात्रा करो।
- See you in the evening. — शाम को मिलते हैं।
- The bus is so crowded. — बस में बहुत भीड़ है।
- It's like a fish market. — मछली बाजार जैसा है।
- I can't breathe. — मुझे साँस नहीं आ रही।
- Open the window slightly. — खड़की थोड़ी सी खोलो।
- Rainwater is coming in. — बारिश का पानी अंदर आ रहा है।

- Close it then. — तो बंद कर दो।
- I'm getting wet. — मैं भीग रहा हूँ।
- This is a nightmare. — यह तो बुरा सपना है।
- My stop is next. — मेरा स्टॉप अगला है।
- Move towards the door. — दरवाज़े की तरफ बढ़ो।
- Watch your step, it's slippery. — कदम ध्यान से रखो, फसलन है।
- Finally, fresh air. — आ खरकार, ताज़ी हवा।
- The rain has stopped. — बारिश रुक गई है।
- The sky is clearing up. — आकाश साफ हो रहा है।
- It looks beautiful now. — अब बहुत सुंदर लग रहा है।
- I'm late by fifteen minutes. — मुझे पंद्रह मिनट देर हो गई।
- Hope the boss doesn't notice. — उम्मीद है बॉस ने ध्यान नहीं दिया।
- Just sneak in quietly. — बस चुपके से अंदर घुस जाओ।
- He saw me. — उसने मुझे देख लिया।
- Just smile and wave. — बस मुस्कुराओ और हाथ हिलाओ।
- He just nodded. — उसने बस सर हिला दिया।
- I'm safe. — मैं बच गया।
- The day went by fast. — दिन जल्दी बीत गया।
- I'm glad it's over. — खुश हूँ कि खत्म हुआ।

- Let's go home. — चलो घर चलते हैं।
- I'm craving something sweet. — मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है।
- Let's buy some jalebis. — चलो कुछ जलेबियाँ लेते हैं।
- From the famous shop. — मशहूर दुकान से।
- They are so crispy and juicy. — वे कतनी कुरकुरी और रसीली होती हैं।
- I can eat ten at once. — मैं एक बार में दस खा सकता हूँ।
- Don't, you'll get diabetes. — मत खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगी।
- Just today. — बस आज।
- Fine, half a kilo. — ठीक है, आधा किलो।
- The smell is divine. — खुशबू दिव्य है।
- Let's eat them hot. — चलो गरम-गरम खाते हैं।
- I've burned my tongue. — मैंने अपनी जीभ जला ली।
- Told you to wait. — कहा था न रुकने को।
- It was worth it. — इसके लायक था।
- The traffic is crazy today. — आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है।
- Let's take a longer route with less traffic. — चलो कम ट्रैफिक वाला लंबा रास्ता लेते हैं।
- It'll take the same time. — समय तो उतना ही लगेगा।

- But at least we'll keep moving. — पर कम से कम गाड़ी चलती रहेगी।
- I hate being stuck. — मुझे जाम में फँसे रहना पसंद नहीं।
- Play some music. — थोड़ा संगीत लगाओ।
- This song is my favorite. — यह गाना मेरा पसंदीदा है।
- Turn up the volume. — आवाज़ बढ़ाओ।
- Let's sing along. — चलो साथ में गाते हैं।
- You sing terribly. — तुम बहुत बुरा गाते हो।
- I don't care. — मुझे परवाह नहीं।
- Just enjoy the vibe. — बस माहौल का मज़ा लो।
- We're finally home. — आ खरकार घर आ गए।
- I'm so tired. — मैं बहुत थक गया हूँ।
- Put your feet up. — पैर फैलाकर बैठो।
- I'll make some tea. — मैं चाय बनाती हूँ।
- You're the best. — तुम सबसे अच्छे हो।
- I know. — मुझे पता है।
- Did you pay the electricity bill? — बिजली का बिल भरा?
- Oh no, I forgot. — अरे नहीं, मैं भूल गया।
- Do it now online. — अभी ऑनलाइन कर दो।
- The last date is tomorrow. — आ खरी तारीख कल है।

- Thank God for online payments. — भगवान का शुक्र है ऑनलाइन भुगतान के लिए।
- Done, it's paid. — हो गया, भर दिया।
- One less thing to worry about. — एक चिंता कम।
- What's for dinner? — रात के खाने में क्या है?
- Let's make something simple. — चलो कुछ साधारण बनाते हैं।
- Khichdi with lots of ghee. — खचड़ी, ऊपर से खूब घी।
- Comfort food. — मन को भाने वाला खाना।
- Exactly what I need. — ठीक वही जो मुझे चाहिए।
- I'll chop the onions. — मैं प्याज काटता हूँ।
- My eyes are watering. — मेरी आँखों से पानी आ रहा है।
- Cut them under the fan. — पंखे के नीचे काटो।
- It still burns. — फर भी जलन होती है।
- Wear swimming goggles. — स्विमिंग गॉगल्स पहन लो।
- That's a hilarious image. — यह सोचकर ही हँसी आ गई।
- But it works. — ले कन काम करता है।
- The pressure cooker is whistling. — प्रेशर कुकर सीटी दे रहा है।
- One whistle is enough. — एक सीटी काफी है।
- Turn off the gas. — गैस बंद कर दो।

- Let the pressure release naturally. — प्रेशर अपने आप निकलने दो।
- I'm too hungry to wait. — मैं इंतज़ार करने के लिए बहुत भूखा हूँ।
- Patience is a virtue. — धैर्य एक गुण है।
- Not when I'm hungry. — तब नहीं जब मैं भूखा हूँ।
- Here, have some papad. — ये लो, थोड़ा पापड़ खा लो।
- It's burnt. — यह जल गया है।
- Just a little bit. — बस थोड़ा सा।
- It gives a smoky flavor. — इससे धुँ जैसा स्वाद आता है।
- If you say so. — अगर तुम कहो तो।
- The khichdi is ready. — खचड़ी तैयार है।
- Add a dollop of ghee. — ऊपर से घी डालो।
- This is heavenly. — यह स्वर्गीय है।
- Simple food is the best. — सादा खाना सबसे अच्छा होता है।
- I'm so content. — मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
- Let's sit on the balcony for a while. — थोड़ी देर बालकनी में बैठते हैं।
- The moon is out. — चाँद निकल आया है।
- It's a clear sky. — आकाश साफ है।
- Count the stars. — तारे गनो।

- There are too many. — बहुत सारे हैं।
- Just enjoy the view. — बस नज़ारे का आनंद लो।
- I wish life was this peaceful always. — काश ज़िंदगी हमेशा इतनी शांत होती।
- It can be, if you want it to be. — यह हो सकती है, अगर तुम चाहो तो।
- You're right. — तुम सही हो।
- Let's go inside, it's getting cold. — चलो अंदर चलते हैं, ठंड बढ़ रही है।
- I'll read for a while. — मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा।
- Don't stay up too late. — बहुत देर तक मत जागना।
- I won't. — मैं नहीं जागूँगा।
- Just a chapter or two. — बस एक या दो अध्याय।
- You always say that. — तुम हमेशा यही कहते हो।
- And I always end up finishing the book. — और हमेशा क़ताब ख़त्म करके ही सोता हूँ।
- That's why I said it. — इस लए मैंने कहा।
- Good night, bookworm. — गुड नाइट, क़ताबी कीड़ा।
- Good night, sleepyhead. — गुड नाइट, नींद के पुजारी।
- The story is getting interesting. — कहानी दिलचस्प हो रही है।

- I'll just read one more. — मैं बस एक और पढ़ूँगा।
- It's 2 AM! — दो बज गए हैं!
- I didn't realize. — मुझे पता ही नहीं चला।
- I'll regret this tomorrow. — कल पछताऊँगा।
- Definitely. — पक्का।
- But it was a good book. — पर कताब अच्छी थी।
- Now go to sleep. — अब सो जाओ।
- My eyes are closing. — मेरी आँखें बंद हो रही हैं।
- Finally. — आ खरकार।
- Set the alarm for eight. — आठ बजे का अलार्म लगाओ।
- I have a late meeting tomorrow. — कल मेरी देर से मीटिंग है।
- Lucky you. — तुम भाग्यशाली हो।
- I'd rather wake up early and be free. — मैं तो जल्दी उठकर फ्री होना पसंद करूँगा।
- To each his own. — अपनी-अपनी पसंद।
- Night. — रात।
- Night. — रात।
- The morning came too soon. — सुबह बहुत जल्दी आ गई।
- My head feels heavy. — मेरा सर भारी लग रहा है।
- Told you not to read late. — कहा था देर से मत पढ़ो।

- I know, my mistake. — जानता हूँ, मेरी गलती।
- Drink a glass of warm water. — एक ग्लास गुनगुना पानी पयो।
- It'll help. — इससे मदद मलेगी।
- I need strong coffee today. — आज मुझे कड़क कॉफी चाहिए।
- I'll make it double shot. — मैं डबल शॉट बनाऊँगा।
- You're a lifesaver. — तुम मेरे लिए जान बचाने वाले हो।
- Go get ready. — जाओ तैयार हो जाओ।
- The water pressure is low again. — पानी का प्रेशर फर से कम है।
- It's a daily struggle. — रोज़ की लड़ाई है।
- I'll use the bucket. — मैं बाल्टी इस्तेमाल कर लूँगा।
- Don't take too long. — बहुत देर मत लगाना।
- I'm done. — मैं तैयार हूँ।
- Your shirt is wrinkled. — तुम्हारी शर्ट में सलवटें हैं।
- I don't have time to iron. — मेरे पास इस्तरी करने का समय नहीं है।
- Wear a jacket. — जैकेट पहन लो।
- Good idea, it'll cover it. — अच्छा वचार है, यह ढक जाएगा।
- You're so lazy. — तुम कतने आलसी हो।

- Efficient, not lazy. — कुशल, आलसी नहीं।
- Whatever helps you sleep. — जो भी तुम्हें सोने में मदद करे।
- I'm off. — मैं चला।
- Have a good one. — अच्छे से दिन बिताना।
- You too. — तुम भी।
- The lift is not working. — लफ्ट काम नहीं कर रही।
- I have to take the stairs. — मुझे सीढ़ियाँ लेनी पड़ेंगी।
- Good for your health. — सेहत के लिए अच्छा है।
- I live on the fourth floor. — मैं चौथी मंजिल पर रहता हूँ।
- That's nothing. — यह तो कुछ भी नहीं।
- It feels like a mountain today. — आज तो पहाड़ जैसा लग रहा है।
- Take a break on the second floor. — दूसरी मंजिल पर थोड़ा रुक लो।
- I'm not that unfit. — मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ।
- Made it. — पहुँच गया।
- I'm out of breath. — मेरी साँस फूल गई।
- You need to exercise. — तुम्हें व्यायाम करना चाहिए।
- I know, I know. — जानता हूँ, जानता हूँ।
- Starting Monday. — सोमवार से शुरू करूँगा।

- Famous last words. — यह तो मशहूर बहाना है।
- I really will this time. — इस बार सच में करूँगा।
- I'll believe it when I see it. — मैं तब मानूँगा जब देख लूँगा।
- The day was surprisingly productive. — दिन आश्चर्यजनक रूप से उत्पादक रहा।
- I finished all my tasks. — मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए।
- I'm feeling proud. — मुझे गर्व हो रहा है।
- Let's celebrate with ice cream. — चलो आइसक्रीम खाकर जश्न मनाते हैं।
- It's too cold for ice cream. — आइसक्रीम के लिए बहुत ठंड है।
- Ice cream has no season. — आइसक्रीम का कोई मौसम नहीं होता।
- True that. — सही कहा।
- What flavor? — कौन सा फ्लेवर?
- Chocolate chip. — चॉकलेट चप।
- Classic choice. — क्लासिक पसंद।
- Let's take a walk to the parlor. — चलो पार्लर तक पैदल चलते हैं।
- It's drizzling outside. — बाहर हल्की बूँदाबाँदी हो रही है।

- Even better. — और भी अच्छा।
- Ice cream in the rain. — बारिश में आइसक्रीम।
- This is the life. — यही तो ज़िंदगी है।
- My cone is dripping. — मेरा कोन टपक रहा है।
- Lick it fast. — जल्दी से चाटो।
- It's all over my hand. — मेरे पूरे हाथ पर आ गया।
- Use a tissue. — टिशू इस्तेमाल करो।
- I'm a mess. — मैं कतना गंदा हो गया।
- But a happy mess. — पर एक खुश गंदा।
- Let's head back. — चलो वापस चलते हैं।
- The rain is getting heavier. — बारिश तेज़ हो रही है।
- Let's run. — चलो दौड़ते हैं।
- Wait, my slippers are slippery. — रुको, मेरी चप्पलें फसल रही हैं।
- Take my hand. — मेरा हाथ पकड़ो।
- We're almost there. — हम लगभग पहुँच गए।
- Soaked completely. — पूरी तरह भीग गए।
- It was fun though. — फर भी मज़ा आया।
- Let's dry off. — चलो सूख जाएँ।
- I'll make some hot chocolate. — मैं हॉट चॉकलेट बनाती हूँ।
- You're the best. — तुम सबसे अच्छे हो।

- Wrap yourself in a blanket. — कंबल ओढ़ लो।
- This is so cozy. — यह बहुत आरामदायक है।
- The rain outside, hot chocolate inside. — बाहर बारिश, अंदर हॉट चॉकलेट।
- Perfect end to the day. — दिन का सही अंत।
- What's the plan for the weekend? — वीकेंड का क्या प्लान है?
- Let's just relax at home. — चलो बस घर पर आराम करते हैं।
- We always do that. — हम हमेशा यही करते हैं।
- Let's go for a short trip. — चलो कसी छोटी यात्रा पर चलते हैं।
- Where to? — कहाँ?
- Somewhere close by. — कहीं पास में।
- The hills are just a few hours away. — पहाड़ बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं।
- That sounds nice. — अच्छा लग रहा है।
- Let's book a cab. — चलो कैब बुक करते हैं।
- It's short notice, might be expensive. — कम समय है, महँगा पड़ सकता है।
- We deserve a break. — हमें छुट्टी मलनी चाहिए।

- Okay, let's do it. — ठीक है, चलो करते हैं।
- Pack a small bag. — एक छोटा बैग पैक करो।
- Just essentials. — बस ज़रूरी सामान।
- I'm so excited! — मैं बहुत उत्साहित हूँ!
- Me too! — मैं भी!
- We'll leave early morning. — हम सुबह जल्दी निकलेंगे।
- Set multiple alarms. — कई सारे अलार्म लगाओ।
- I won't be able to sleep. — मुझे नींद नहीं आएगी।
- Try to rest. — आराम करने की कोशिश करो।
- The journey will be tiring. — यात्रा थका देने वाली होगी।
- I'll sleep in the car. — मैं गाड़ी में सो लूँगा।
- You always do that. — तुम हमेशा ऐसा ही करते हो।
- I can't help it. — मैं क्या करूँ।
- Motion makes me drowsy. — गाड़ी चलने से मुझे नींद आती है।
- Wake me up if you see anything nice. — अगर कुछ अच्छा दिखे तो मुझे जगा देना।
- I'll be your personal DJ. — मैं तुम्हारा निजी डीजे बनूँगा।
- Play some road trip songs. — कुछ रोड ट्रिप वाले गाने लगाओ।

- The views are getting better. — नज़ारे बेहतर होते जा रहे हैं।
- Look at the clouds. — बादलों को देखो।
- We're driving into the mountains. — हम पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं।
- The air is so fresh. — हवा कतनी ताज़ी है।
- Roll down the windows. — खड़ कयाँ नीचे करो।
- It's a bit chilly. — थोड़ी ठंड है।
- That's the best part. — यही तो सबसे अच्छा है।
- We should stop for breakfast. — हमें नाश्ते के लिए रुकना चाहिए।
- There's a small dhaba ahead. — आगे एक छोटा सा ढाबा है।
- Aloo paratha and chai. — आलू पराठा और चाय।
- The best combination. — सबसे अच्छा मेल।
- With white butter. — सफेद मक्खन के साथ।
- This is heaven. — यह स्वर्ग है।
- I don't want to go back. — मेरा वापस जाने का मन नहीं है।
- We have to, reality calls. — हमें जाना होगा, असल ज़िंदगी बुला रही है।
- Let's extend for a day. — चलो एक दिन और बढ़ा देते हैं।

- We have meetings on Monday. — सोमवार को मीटिंग हैं।
- Don't remind me. — मुझे याद मत दिलाओ।
- Let's enjoy the moment. — चलो इस पल का मज़ा लेते हैं।
- This view is priceless. — यह नज़ारा अमूल्य है।
- Let's take a selfie. — चलो एक सेल्फी लेते हैं।
- Make sure the mountains are in the background. — ध्यान रखना पीछे पहाड़ आँ।
- This will be my new wallpaper. — यह मेरा नया वॉलपेपर होगा।
- Memories made. — यादें बन गईं।
- Time to head back. — अब वापस चलने का समय हो गया।
- I feel so refreshed. — मैं बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ।
- We should do this more often. — हमें ऐसा अक्सर करना चाहिए।
- Next month, new destination. — अगले महीने, नई मंजिल।
- It's a plan. — यह पक्का हुआ।
- Back to the grind. — वापस पसाई पर।
- The city looks so dull now. — शहर अब बहुत फीका लग रहा है।
- The traffic is back. — ट्रैफ़िक वापस आ गया है।
- Reality hits hard. — अस लयत कड़ी चोट करती है।

- I'm already missing the hills. — मुझे पहले से ही पहाड़ों की याद आ रही है।
- We have photos. — हमारे पास तस्वीरें हैं।
- It's not the same. — वह बात नहीं है।
- I know. — मैं जानता हूँ।
- Let's order food, I'm too tired to cook. — चलो खाना मँगवा लेते हैं, मैं पकाने के लिए बहुत थक गया हूँ।
- Fine, but something light. — ठीक है, ले कन कुछ हल्का।
- Soup and salad? — सूप और सलाद?
- Boring. — उबाऊ।
- You need healthy food. — तुम्हें सेहतमंद खाना चाहिए।
- Tomorrow. — कल से।
- Fine, one burger. — ठीक है, एक बर्गर।
- With extra fries. — एक्स्ट्रा फ्राइज़ के साथ।
- You're impossible. — तुम नामुम कन हो।
- You love me. — तुम मुझसे प्यार करते हो।
- Unfortunately, yes. — दुर्भाग्य से, हाँ।
- The food is here. — खाना आ गया।
- Smells like heaven. — स्वर्ग जैसी खुशबू है।
- Let's eat in front of the TV. — चलो टीवी के सामने खाते हैं।
- What are we watching? — क्या देख रहे हैं?

- Stand-up comedy. — स्टैंड-अप कॉमेडी।
- This guy is funny. — यह बंदा मजेदार है।
- I'm laughing so hard. — मैं बहुत ज़ोर से हँस रहा हूँ।
- Don't choke on your food. — खाने में मत अटकना।
- I'll try. — को शश करूँगा।
- That was a good set. — यह अच्छा था।
- I'm feeling sleepy now. — अब मुझे नींद आ रही है।
- The weekend flew by. — वीकेंड कब बीत गया पता ही नहीं चला।
- Tomorrow is Monday again. — कल फर से सोमवार है।
- Don't remind me. — याद मत दिलाओ।
- Let's sleep early. — चलो जल्दी सो जाते हैं।
- Good idea. — अच्छा वचार है।
- I'll set the alarm. — मैं अलार्म लगा देता हूँ।
- Six-thirty sharp. — साढ़े छह बजे।
- I hate my life. — मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत है।
- No, you don't. — नहीं, ऐसा नहीं है।
- Just on Mondays. — बस सोमवार को।
- Fair enough. — सही है।
- Good night, grumpy. — गुड नाइट, चड़ चड़े।
- Good night, optimist. — गुड नाइट, आशावादी।

- I can't find my other sock. — मुझे मेरा दूसरा मोजा नहीं मल रहा।
- Wear mismatched ones. — अलग-अलग पहन लो।
- That's a fashion statement now. — यह अब फैशन स्टेटमेंट बन गया है।
- Really? — सच में?
- Yes, look it up. — हाँ, देख लो।
- I'll just find another pair. — मैं दूसरी जोड़ी ढूँढ लेता हूँ।
- Hurry up, you're late. — जल्दी करो, देर हो रही है।
- I'm coming. — मैं आ रहा हूँ।
- Did you take your lunch? — टि फन लया?
- Yes, it's in my bag. — हाँ, बैग में है।
- Keys? — चाबियाँ?
- In my pocket. — जेब में।
- Phone? — फोन?
- Hand. — हाथ में।
- Okay, go. — ठीक है, जाओ।
- Bye! — अल वदा!
- The metro was surprisingly empty. — मेट्रो आश्चर्यजनक रूप से खाली थी।
- I got a seat. — मुझे सीट मल गई।

- This never happens. — ऐसा कभी नहीं होता।
- It's a miracle. — यह चमत्कार है।
- I reached office on time. — मैं समय पर ऑफिस पहुँच गया।
- Even the boss was surprised. — बॉस भी हैरान रह गए।
- It's going to be a good day. — आज का दिन अच्छा जाएगा।
- Don't jinx it. — नज़र मत लगाओ।
- Too late. — बहुत देर हो गई।
- The printer is broken again. — प्रिंटर फिर से खराब है।
- I knew it. — मुझे पता ही था।
- At least the coffee machine is working. — कम से कम कॉफी मशीन तो चल रही है।
- Small victories. — छोटी-छोटी जीतें।
- I'll take it. — यह भी ठीक है।
- The morning meeting was cancelled. — सुबह की मीटिंग रद्द हो गई।
- Best news ever! — सबसे अच्छी खबर!
- I can actually get some work done. — मैं वाकई कुछ काम कर सकता हूँ।
- Or browse the internet. — या इंटरनेट चला सकता हूँ।
- Priorities. — प्राथमिकताएँ।

- I'll work for an hour, then browse. — एक घंटा काम करूँगा, फर देखूँगा।
- Sure you will. — हाँ, जरूर करोगे।
- I'm very disciplined. — मैं बहुत अनुशासित हूँ।
- Keep telling yourself that. — अपने आप से यही कहते रहो।
- I finished my work! — मैंने अपना काम खत्म कर लिया!
- It's only lunchtime. — अभी तो लंच का समय है।
- I'm on fire today. — आज मैं आग लगा रहा हूँ।
- Don't let the boss know, or he'll give you more. — बॉस को पता मत चलने देना, वरना और दे देंगे।
- Right, I'll just look busy. — सही कहा, मैं व्यस्त दिखूँगा।
- Read a news article. — कोई समाचार पढ़ो।
- The world is the same mess. — दुनिया वैसी ही गड़बड़ है।
- Nothing changes. — कुछ नहीं बदलता।
- Let's talk about something else. — चलो कुछ और बात करते हैं।
- What's for lunch? — लंच में क्या है?
- I brought rajma chawal. — मैं राजमा चावल लाया हूँ।
- You're making me jealous. — तुम मुझे जला रहे हो।
- Want some? — थोड़ा चाहिए?
- Don't mind if I do. — बुरा मत मानना तो।

- This is delicious. — यह बहुत स्वादिष्ट है।
- Who made it? — कसने बनाया?
- I did, last night. — मैंने, कल रात।
- You can cook! — तुम खाना बना सकते हो!
- Don't sound so surprised. — इतना हैरान मत हो।
- I'm impressed. — मैं प्रभा वत हूँ।
- It's just rajma. — यह बस राजमा है।
- It's the best rajma I've ever had. — यह मेरे खाए हुए सबसे अच्छे राजमा हैं।
- You're just saying that. — तुम बस ऐसे ही कह रहे हो।
- I mean it. — मेरा मतलब है।
- Thanks. — शु क्रया।
- I'm so full, I need a nap. — मेरा पेट भर गया, मुझे झपकी चाहिए।
- The post-lunch slump is real. — खाने के बाद की सुस्ती असली है।
- Let's go for a walk. — चलो टहलने चलते हैं।
- Too lazy. — बहुत आलस है।
- Just five minutes. — बस पाँच मिनट।
- Fine, but you owe me. — ठीक है, पर तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना होगा।

- Deal. — पक्का।
- The rest of the day was slow. — बाकी का दिन धीमा बीता।
- I counted every minute. — मैंने हर मिनट गना।
- Finally, it's time to leave. — आ खरकार, जाने का समय हो गया।
- I'm out of here. — मैं यहाँ से बाहर हूँ।
- See you tomorrow. — कल मिलते हैं।
- Not if I win the lottery. — अगर मैं लॉटरी जीत गया तो नहीं।
- You don't even buy a ticket. — तुम टिकट खरीदते भी नहीं हो।
- Details, details. — छोटी-मोटी बातें।
- Let's go home. — चलो घर चलते हैं।
- I want to do nothing tonight. — आज रात मैं कुछ नहीं करना चाहता।
- Just lie on the sofa. — बस सोफे पर पड़े रहना है।
- Sounds like a plan. — यह तो प्लान बन गया।
- Order something for dinner. — रात के खाने के लिए कुछ मँगवा लो।
- I'll just have cereal. — मैं तो बस कॉर्नफ्लेक्स खा लूँगा।
- That's not dinner. — यह रात का खाना नहीं है।

- It is tonight. — आज रात के लिए है।
- Fine, I'll order for myself. — ठीक है, मैं अपने लिए मँगवा लूँगा।
- Get me some fries too. — मेरे लिए भी फ्राइज़ ले लेना।
- I thought you wanted cereal. — मुझे लगा तुम्हें कॉर्नफ्लेक्स चाहिए।
- Fries are my weakness. — फ्राइज़ मेरी कमज़ोरी है।
- I know. — मुझे पता है।
- The food took forever. — खाना आने में बहुत देर लगी।
- I almost fell asleep. — मैं लगभग सो ही गया था।
- Let's eat quickly and sleep. — चलो जल्दी खाकर सो जाते हैं।
- I have an early meeting. — मेरी सुबह जल्दी मीटिंग है।
- Me too. — मेरी भी।
- Let's not talk about work. — चलो काम के बारे में बात नहीं करते।
- Agreed. — सहमत।
- What's on your mind? — तुम्हारे दिमाग में क्या है?
- Nothing specific. — कुछ खास नहीं।
- Just random thoughts. — बस ऐसे ही बिखरे ख्याल।
- Share one. — एक बताओ।

- I wonder if aliens exist. — मैं सोचता हूँ क्या ए लयन होते हैं।
- Deep. — गहरी बात।
- I think they do. — मुझे लगता है हाँ।
- The universe is too big for us to be alone. — ब्रह्मांड इतना बड़ा है क हम अकेले नहीं हो सकते।
- Maybe they are watching us. — शायद वे हमें देख रहे हों।
- That's creepy. — यह डरावना है।
- Let's change the topic. — चलो वषय बदलते हैं।
- Good idea. — अच्छा वचार है।
- I'm going to sleep. — मैं सोने जा रहा हूँ।
- Me too. — मैं भी।
- Don't let the aliens bite. — ए लयन को काटने मत देना।
- Very funny. — बहुत मजेदार।
- Night. — शुभ रात्रि।
- Night. — शुभ रात्रि।
- The alarm didn't ring! — अलार्म नहीं बजा!
- We overslept! — हम देर से उठे!
- I'll get ready in five minutes. — मैं पाँच मिनट में तैयार होता हूँ।
- Skip breakfast. — नाश्ता छोड़ो।

- Grab an apple. — एक सेब ले लो।
- I'm running late! — मुझे देर हो रही है!
- Go, go, go! — जाओ, जाओ, जाओ!
- I'll call you. — मैं फोन करूँगा।
- Okay, bye! — ठीक है, अल वदा!
- I forgot my phone at home. — मैं अपना फोन घर पर भूल गया।
- I feel so disconnected. — मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ।
- How did people survive before? — पहले लोग कैसे रहते थे?
- They talked to each other. — वे एक-दूसरे से बात करते थे।
- Weird. — अजीब।
- I'll use the office landline. — मैं ऑफिस के लैंडलाइन से करूँगा।
- Do you remember the number? — नंबर याद है?
- No. — नहीं।
- Then you're stuck. — तो तुम फँस गए।
- I'll survive. — मैं जीवित रहूँगा।
- The day felt so long without my phone. — फोन के बिना दिन बहुत लंबा लगा।

- I actually talked to people. — मैंने वाकई लोगों से बात की।
- It was nice. — अच्छा था।
- I should do this more often. — मुझे ऐसा अक्सर करना चाहिए।
- Digital detox. — डिजिटल डिटॉक्स।
- My phone was flooded with messages. — मेरे फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई।
- All useless. — सब बेकार।
- Just group chats. — बस ग्रुप चैट।
- I missed nothing. — मैंने कुछ नहीं खोया।
- Let's go out for dinner tonight. — चलो आज रात बाहर खाना खाते हैं।
- To celebrate what? — कस बात का जश्न?
- Surviving the week. — हफ्ता बचा लेने का।
- I'm in. — मैं तैयार हूँ।
- Wear something nice. — कुछ अच्छा पहनो।
- I always do. — मैं हमेशा पहनता हूँ।
- I meant something special. — मेरा मतलब था कुछ खास।
- This shirt is special. — यह शर्ट खास है।
- Okay, let's go. — ठीक है, चलो।

- The restaurant is very crowded. — रेस्तराँ बहुत भरा हुआ है।
- We should have made a reservation. — हमें बुक करानी चाहिए थी।
- Let's wait at the bar. — चलो बार में इंतज़ार करते हैं।
- Just water for me. — मेरे लिए बस पानी।
- Boring. — उबाऊ।
- I'm driving. — मैं गाड़ी चला रहा हूँ।
- Fine, one mocktail. — ठीक है, एक मॉकटेल।
- The table is ready. — टेबल तैयार है।
- Finally. — आखिरकार।
- The menu looks great. — मेन्यू बहुत अच्छा लग रहा है।
- I can't decide what to order. — मैं तय नहीं कर पा रहा क्या ऑर्डर करूँ।
- Let's share a few dishes. — चलो कुछ व्यंजन साझा करते हैं।
- Good idea. — अच्छा विचार है।
- The food was amazing. — खाना शानदार था।
- I'm so full. — मेरा पेट बहुत भर गया।
- Let's get the bill. — चलो बिल लेते हैं।
- I'll pay this time. — इस बार मैं भुगतान करूँगा।

- No, let's split. — नहीं, चलो आधा-आधा करते हैं।
- Okay, next time is on me. — ठीक है, अगली बार मेरी तरफ से।
- Deal. — पक्का।
- The drive back was nice. — वापसी की यात्रा अच्छी थी।
- Less traffic at night. — रात में ट्रैफिक कम होता है।
- The city lights look pretty. — शहर की रोशनियाँ सुंदर लगती हैं।
- I love night drives. — मुझे रात की सैर पसंद है।
- Me too, with good music. — मुझे भी, अच्छे संगीत के साथ।
- We're home. — हम घर आ गए।
- I had a great time. — मुझे बहुत अच्छा लगा।
- Me too. — मुझे भी।
- Let's do this every Friday. — चलो हर शुक्रवार ऐसा करते हैं।
- It's a date. — यह तय हुआ।
- I'm going to change. — मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ।
- Wear something comfortable. — कुछ आरामदायक पहनो।
- Pajamas it is. — तो पाजामा ही पहनता हूँ।
- Perfect. — एकदम सही।
- What a week it has been. — कैसा हफ्ता रहा।

- I'm glad it's over. — खुश हूँ क खत्म हुआ।
- Now two days of peace. — अब दो दिन शांति के।
- I'm going to sleep in tomorrow. — मैं कल देर से उठूँगा।
- Don't wake me up. — मुझे मत जगाना।
- I won't. — मैं नहीं जगाऊँगा।
- Promise? — वादा?
- Promise. — पक्का।
- Good night, weekend. — शुभ रात्रि, वीकेंड।
- Good night, freedom. — शुभ रात्रि, आज़ादी।
- It's 11 AM! — 11 बज गए हैं!
- I feel so rested. — मैंने इतना आराम महसूस किया।
- I made breakfast. — मैंने नाश्ता बना दिया है।
- You're the best. — तुम सबसे अच्छे हो।
- It's just toast and eggs. — यह बस टोस्ट और अंडे हैं।
- Still the best. — फर भी सबसे अच्छा।
- What's the plan for today? — आज का क्या प्लान है?
- Absolutely nothing. — बिल्कुल कुछ नहीं।
- I love it. — मुझे यह पसंद है।
- Let's binge-watch a show. — चलो कोई शो देखते हैं।
- Which one? — कौन सा?
- That new thriller. — वह नया थ्रिलर।

- Sounds intense. — गहरा लग रहा है।
- Just one episode. — बस एक ए पसोड।
- Famous last words. — यह तो मशहूर बहाना है।
- Okay, maybe three. — ठीक है, शायद तीन।
- I'm hooked. — मैं फँस गया।
- Let's order pizza. — चलो पज़्जा मँगवाते हैं।
- Again? — फर से?
- It's binge-watching food. — यह बिन्ज-वॉ चंग का खाना है।
- Fine, but no pineapple. — ठीक है, ले कन अनानास नहीं।
- You hate pineapple on pizza? — तुम्हें पज़्जा पर अनानास पसंद नहीं?
- It's a crime. — यह अपराध है।
- We'll agree to disagree. — हम असहमत रहते हुए भी सहमत होंगे।
- Fine. — ठीक है।
- The pizza is here. — पज़्जा आ गया।
- Pause the show. — शो रोको।
- This episode is so good. — यह ए पसोड बहुत अच्छा है।
- Let's finish it after eating. — खाने के बाद खत्म करते हैं।
- I can't wait. — मुझसे रुका नहीं जा रहा।
- You're like a child. — तुम बच्चों जैसे हो।

- Just one bite and play. — बस एक निवाला और चलाओ।
- Okay, but eat properly. — ठीक है, ले कन ठीक से खाओ।
- The show was mind-blowing. — शो दिमाग घुमा देने वाला था।
- I didn't see that twist coming. — मैंने वह मोड़ नहीं देखा था।
- We have to wait for the next season. — हमें अगले सीजन का इंतज़ार करना होगा।
- That's torture. — यह तो यातना है।
- Let's find another show. — चलो दूसरा शो ढूँढते हैं।
- Tomorrow. — कल।
- It's already evening. — शाम हो गई है।
- The day went by so fast. — दिन कतनी जल्दी बीत गया।
- Let's go for a walk. — चलो टहलने चलते हैं।
- To the park. — पार्क में।
- Get some fresh air. — थोड़ी ताज़ी हवा लें।
- The park is full of kids. — पार्क बच्चों से भरा है।
- They have so much energy. — उनमें कतनी ऊर्जा है।
- I miss being a child. — मुझे बचपन की याद आती है।
- No worries, just play. — कोई चंता नहीं, बस खेलो।
- Those were the days. — वो दिन ही क्या थे।

- Let's sit on the bench. — चलो बेंच पर बैठते हैं।
- The sun is setting. — सूरज ढल रहा है।
- It's beautiful. — यह सुंदर है।
- I could sit here for hours. — मैं घंटों यहाँ बैठ सकता हूँ।
- Me too, but it's getting dark. — मैं भी, ले कन अंधेरा हो रहा है।
- Let's head back. — चलो वापस चलते हैं।
- I'm feeling hungry again. — मुझे फर से भूख लग रही है।
- We just ate pizza. — हमने अभी तो पज़्जा खाया था।
- That was hours ago. — वह घंटों पहले की बात है।
- Let's make some sandwiches. — चलो सैंड वच बनाते हैं।
- Quick and easy. — जल्दी और आसान।
- I'll chop the veggies. — मैं सब्ज़ियाँ काटता हूँ।
- Add lots of mayo. — बहुत सारा मेयो डालो।
- Unhealthy but tasty. — अस्वास्थ्यकर पर स्वादिष्ट।
- That's the motto. — यही तो मकसद है।
- These sandwiches are great. — ये सैंड वच बहुत अच्छे हैं।
- I'm a master chef. — मैं एक उस्ताद रसोइया हूँ।
- Sure you are. — हाँ, ज़रूर।
- What should we do tomorrow? — कल क्या करना चाहिए?
- Let's clean the house. — चलो घर साफ करते हैं।

- That's so boring. — यह बहुत उबाऊ है।
- It needs to be done. — यह करना तो पड़ेगा।
- Let's do it quickly in the morning. — चलो सुबह जल्दी कर लेते हैं।
- Then we can relax. — फिर हम आराम कर सकते हैं।
- Fine. — ठीक है।
- I'll set the alarm for nine. — मैं नौ बजे का अलार्म लगाऊँगा।
- That's early for a Sunday. — रविवार के लिए यह जल्दी है।
- The earlier we start, the earlier we finish. — जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतनी जल्दी खत्म होगा।
- You sound like my dad. — तुम मेरे पताजी जैसी बातें कर रहे हो।
- Someone has to be the adult. — कसी को तो बड़ा बनना पड़ेगा।
- Fine, nine o'clock. — ठीक है, नौ बजे।
- Good night. — शुभ रात्रि।
- Good night. — शुभ रात्रि।
- The alarm is ringing. — अलार्म बज रहा है।
- It's Sunday, let me sleep. — रविवार है, सोने दो।
- You said nine o'clock. — तुमने नौ बजे कहा था।

- I lied. — मैंने झूठ बोला।
- Get up, we have to clean. — उठो, हमें साफ करना है।
- Ten more minutes. — दस मिनट और।
- No, now. — नहीं, अभी।
- You're so strict. — तुम बहुत सख्त हो।
- I'll make coffee. — मैं कॉफी बनाती हूँ।
- Okay, I'm up. — ठीक है, मैं उठ रहा हूँ।
- Let's divide the work. — चलो काम बाँट लेते हैं।
- I'll do the dusting. — मैं धूल झाड़ूँगा।
- I'll do the mopping. — मैं पोंछा लगाऊँगा।
- The house looks so much better. — घर कतना अच्छा लग रहा है।
- It was worth it. — यह इसके लायक था।
- Now I'm tired. — अब मैं थक गया हूँ।
- Let's take a shower and relax. — चलो नहाकर आराम करते हैं।
- The rest of the day is ours. — बाकी का दिन हमारा है।
- Let's order in. — चलो खाना मँगवाते हैं।
- I don't want to cook. — मैं पकाना नहीं चाहता।
- Me neither. — मैं भी नहीं।
- What should we order? — क्या मँगवाएँ?

- Something healthy. — कुछ सेहतमंद।
- After all that junk? — उस सब जंक फूड के बाद?
- Exactly why. — इसी लिए।
- Fine, a salad. — ठीक है, एक सलाद।
- And a burger? — और एक बर्गर?
- Just a small one. — बस एक छोटा सा।
- Deal. — पक्का।
- This is the perfect Sunday. — यह एकदम सही र ववार है।
- Clean house, good food, no work. — साफ घर, अच्छा खाना, कोई काम नहीं।
- I wish every day was Sunday. — काश हर दिन र ववार होता।
- We wouldn't appreciate it then. — तब हम इसकी कदर नहीं करते।
- True. — सच।
- Tomorrow is Monday again. — कल फर से सोमवार है।
- Let's not think about it. — चलो इसके बारे में न सोचें।
- Live in the moment. — इस पल में जियो।
- I'm trying. — को शश कर रहा हूँ।
- Let's watch a movie. — चलो कोई फिल्म देखते हैं।
- Something light. — कुछ हल्की-फुल्की।

- A comedy. — कोई कॉमेडी।
- Perfect. — एकदम सही।
- That was a good movie. — यह अच्छी फिल्म थी।
- I laughed a lot. — मैं बहुत हँसा।
- Best way to end the weekend. — वीकेंड खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका।
- I'm feeling sleepy. — मुझे नींद आ रही है।
- Me too. — मुझे भी।
- Let's call it a night. — चलो सो जाते हैं।
- Good night. — शुभ रात्रि।
- Sweet dreams. — मीठे सपने।
- You too. — तुम भी।
- I hate Monday mornings. — मुझे सोमवार की सुबह से नफरत है।
- Everyone does. — सबको है।
- The traffic is worse today. — आज ट्रैफिक और भी खराब है।
- There must be an accident. — कोई दुर्घटना हुई होगी।
- I'm going to be late. — मुझे देर हो जाएगी।
- Inform your manager. — अपने मैनेजर को बताओ।
- I sent a message. — मैंने संदेश भेज दिया।

- The meeting started without me. — मीटिंग मेरे बिना शुरू हो गई।
- I'll join online. — मैं ऑनलाइन जुड़ूँगा।
- The audio is breaking. — आवाज़ टूट रही है।
- Mute yourself. — खुद को म्यूट करो।
- I can't hear anything. — मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
- This is a disaster. — यह तो आफत है।
- I'll just read the minutes later. — मैं बाद में कार्यवृत्त पढ़ लूँगा।
- Finally reached the office. — आ खरकार ऑ फस पहुँच गया।
- I need coffee. — मुझे कॉफी चाहिए।
- The machine is out of order. — मशीन खराब है।
- Of course it is. — और क्या।
- I'm going to the cafe downstairs. — मैं नीचे कैफे जा रहा हूँ।
- Get me one too. — मेरे लिए भी लाना।
- Black, no sugar. — ब्लैक, बिना चीनी।
- You're so healthy. — तुम कतने सेहतमंद हो।
- Trying to be. — कोशिश कर रहा हूँ।
- The day is finally over. — दिन आ खरकार खत्म हुआ।

- I survived Monday. — मैं सोमवार बचा लया।
- Let's go home and do nothing. — चलो घर चलते हैं और कुछ नहीं करते।
- My favorite activity. — मेरा पसंदीदा काम।
- What's for dinner? — रात के खाने में क्या है?
- Leftovers from yesterday. — कल का बचा हुआ।
- Easy. — आसान।
- Just heat and eat. — बस गरम करो और खाओ।
- I'm too tired to even chew. — मैं इतना थक गया हूँ क चबा भी नहीं सकता।
- Have soup then. — तो सूप पी लो।
- I'll just have milk. — मैं बस दूध पी लूँगा।
- Okay, I'll have the leftovers. — ठीक है, मैं बचा हुआ खा लूँगा।
- I'm going to bed early. — मैं जल्दी सो जाऊँगा।
- Me too. — मैं भी।
- Good night. — शुभ रात्रि।
- Sleep well. — अच्छे से सोना।
- You too. — तुम भी।
- Tuesday is slightly better. — मंगलवार थोड़ा बेहतर है।
- I agree. — मैं सहमत हूँ।

- The week is moving. — हफ्ता चल रहा है।
- Halfway there. — आधा रास्ता तय हो गया।
- I have a presentation today. — आज मेरी प्रस्तुति है।
- You'll do great. — तुम बहुत अच्छा करोगे।
- I'm nervous. — मैं घबरा रहा हूँ।
- Just be confident. — बस आत्म विश्वास रखो।
- Practice once more. — एक बार और अभ्यास करो।
- The presentation went well. — प्रस्तुति अच्छी गई।
- Told you. — कहा था न।
- I'm relieved. — मुझे राहत मली।
- Let's celebrate with a good lunch. — चलो अच्छा लंच करके जश्न मनाते हैं।
- I'll join you. — मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।
- The canteen food is surprisingly good today. — कैंटीन का खाना आज आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है।
- They must have a new cook. — जरूर नया रसोइया आया है।

By – Engfusionbharat.com